



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 13] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 28—अप्रैल 3, 2009 (चैत्र 7, 1931)  
No. 13] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 28—APRIL 3, 2009 (CHAITRA 7, 1931)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

## भाग I—खण्ड 4

## [PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]  
[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

रक्षा (एम एस)/अनुभाग

नई दिल्ली, दिनांक 28 मार्च 2009

सं. 186, दिनांक 12 मार्च 2009—भारत की राष्ट्रपति निम्नलिखित कार्मिक को अपने अवैतनिक निजी स्टाफ में सहर्ष नियुक्त करती हैं :—

अवैतनिक थल सेना एडीसी—(इन्फैन्ट्री) दिनांक 01 जनवरी 2009 से प्रभावी

(आईसी-23302) लेफ्टि जनरल टी के सपु, प. वि. से. मे., यु से मे।

अवैतनिक थल सेना एडीसी—(आर्टी/जीसी) दिनांक 01 जनवरी 2009 से प्रभावी

(आईसी-23689) लेफ्टि जनरल एन एस बरार, अ वि से मे, वि से मे, आर्टी (जीसी)

बलराम वर्मा  
अवर सचिव

सं. 187, दिनांक 12 मार्च 2009—राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय में निदेशक (राजभाषा) (तदर्थ) श्री नीलांबर पांडेय की नियुक्ति को राजभाषा विभाग के दिनांक 13 फरवरी, 2009 के कार्यालय आदेश संख्या 5/12/2006-राजभाषा (सेवा) के संदर्भ में 19 फरवरी, 2009 से 19 अगस्त, 2009 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, इसी मंत्रालय में तदर्थ आधार पर निदेशक (राजभाषा) के पद पर आगे बढ़ाते हैं।

उपर्युक्त अधिकारी की निदेशक (राजभाषा) के रूप में नियुक्ति निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन है :—

- (i) तदर्थ पदोन्नति से ग्रेड में अनिश्चित समय तक बने रहने या नियमित नियुक्ति की चयन सूची में शामिल करने या राजभाषा विभाग संवर्ग के निदेशक (राजभाषा) ग्रेड में वरिष्ठता का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

राष्ट्रपति, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 05 नवम्बर, 2008 के का.ज्ञा. संख्या 5/12/2007-सी एस-II के तहत स्थानांतरण होने के परिणामस्वरूप पर्यावरण और वन मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा संवर्ग के आशुलिपिक ग्रेड 'क और ख' (विलयित) (तदर्थ) श्री महेन्द्र कुमार को निम्नलिखित शर्तों के अध्वधीन रक्षा मंत्रालय में केन्द्रीय सचिवालय

आशुलिपिक सेवा के आशुलिपिक ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) के पद पर 03 फरवरी, 2009 के पूर्वाह्न में अथवा नियमित अधिकारी उपलब्ध होने अथवा अगले आदेश आने होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, तदर्थ आधान पर नियुक्त करने हेतु :-

- (i) इस तदर्थ नियुक्ति से उन्हें ग्रेड में अनिश्चितकाल तक बने रहने या केन्द्रीय सचिवालय आशुलिपिक सेवा के ग्रेड 'क' और 'ख' (विलयित) में वरिष्ठता का दावा करने या नियमित नियुक्ति के लिए चयन सूची में शामिल करने का कोई अधिकार नहीं होगा।
- (ii) तदर्थ नियुक्ति किसी भी समय, बिना कोई कारण बताए समाप्त की जा सकती है।

के भुरली  
अवर सचिव

#### मेना शाखा

सं. 188, दिनांक 12 मार्च 2009 - राष्ट्रपति, थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित निर्गुणित्वपूर्ण करते हैं :-

#### नियमित सेना

#### स्थायी कमीशन

निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 20 मार्च 2009 में अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर 20 मार्च 2009 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

नाम, एसएस सं., आईसी सं. आर्बेटित तथा आर्म/सर्विस  
पुनीत वेदा (एसएस-40527) (आईसी-66044एक्स), आर्टी  
सुरेंद्र सिंह (एसएस-40528) (आईसी-66045ए), एसी  
अनिल कुमार शर्मा (एसएस-40531) (आईसी-66046एच), एएडी  
एम श्याम (एसएस-40535) (आईसी-66049डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री  
मिन्द्रार्थ नेहरा (एसएस-40537) (आईसी-66050एल), एससी  
नरकवपत सिंह (एसएस-40538) (आईसी-66051एन), इन्फैन्ट्री  
फतेह सिंह (एसएस-40543) (आईसी-66053वाई), सिग्नल्स  
जी आर एस राजा (एसएस-40545) (आईसी-66054एफ), इन्फैन्ट्री  
निम्बू पाण्डे (एसएस-40547) (आईसी-66056एम), इन्फैन्ट्री  
विक्रांत पराशर (एसएस-40548) (आईसी-66057पी), आर्टी  
निर्तन रावत (एसएस-40550) (आईसी-66059ए), आर्टी  
विजय सिंह भद्ररिया (एसएस-40553) (आईसी-66061एच), इन्फैन्ट्री  
नारव प्याल (एसएस-40556) (आईसी-66063एच), एसी  
शरद त्यागी (एसएस-40557) (आईसी-66064एल), एओसी  
भदीप सिंह चवला (एसएस-40558) (आईसी-66065एन), आर्टी  
केशराम मनोप कुमार गणन सिंह (एसएस-40559) (आईसी-  
66066डब्ल्यू), इन्फैन्ट्री  
राजकुमार जगतमन सिंह (एसएस-40560) (आईसी-66067वाई),  
एएडी

अनुभव कंचन (एसएस-40562) (आईसी-66069के), आर्टी  
तुषार चौधरी (एसएस-40565) (आईसी-66070वाई), एससी  
मो. असलम खान (एसएस-40567) (आईसी-66072के), एसी  
प्रदीप कुमार शर्मा (एसएस-40570) (आईसी-66073एम), आर्टी  
अरविन्द राणा (एसएस-40573) (आईसी-66074पी), एससी  
सुब्रत मिश्रा (एसएस-40575) (आईसी-66075एक्स), मैक  
डी श्रीराम कुमार (एसएस-40576) (आईसी-66076ए), आर्टी  
के राकेश सिंह (एसएस-40582) (आईसी-66079एन), एससी  
विपल्व (एसएस-40583) (आईसी-66080एच), इन्फैन्ट्री  
गोखले अमरेंद्र अनंत (एसएस-40585) (आईसी-66082एन), इन्फैन्ट्री  
महेश के एन (एसएस-40589) (आईसी-66084वाई), सिग्नल्स  
के आर बेबी कृष्णन (एसएस-40590) (आईसी-66085एफ), इन्फैन्ट्री  
यू सचिन (एसएस-40592) (आईसी-66087एम), एसी  
अनुज रानी (एसएस-40596) (आईसी-66088पी), इन्फैन्ट्री  
अमित कुमार (एसएस-40599) (आईसी-66090एम), इन्फैन्ट्री  
हिमांशु जोशी (एसएस-40603) (आईसी-66092एक्स), इंजीनियर्स  
राघवेंद्रा (एसएस-40605) (आईसी-66093ए), एससी  
मयंक मालविया (एसएस-40611) (आईसी-66094एच), एएडी  
प्रियतोष अनिल मंगरुलकर (एसएस-40613) (आईसी-66095एल),  
ईएमई  
अशोक कुमार पुरी (एसएस-40614) (आईसी-66096एन), आर्टी  
मनीषा चौहान (एसएस-40623) (आईसी-66102डब्ल्यू), आर्टी  
चिंछोथंग तोनसिंग (एसएस-40626) (आईसी-66103वाई), इन्फैन्ट्री  
गुरमीत रतूरी (एसएस-40629) (आईसी-66104एफ), इंटर  
मनीश कुल्हरी (एसएस-40630) (आईसी-66105के), इन्फैन्ट्री  
अमित प्रसाद (एसएस-40632) (आईसी-66106एम), आर्टी  
भागीरथ सिंह जोधा (एसएस-40633) (आईसी-66107पी), इन्फैन्ट्री  
दोदूल राय (एसएस-40634) (आईसी-66108एक्स), आर्टी  
अमन सिंह जामवाल (एसएस-40636) (आईसी-66110पी), एएडी  
मनप्रीत सिंह मारवाह (एसएस-40637) (आईसी-66111एक्स),  
इन्फैन्ट्री  
अरुण मुखर्जी (एसएस-40646) (आईसी-66115एन), इंजीनियर्स  
सुधीर कालिया (एसएस-40655) (आईसी-66119के), मैक  
अभिषेक यादव (एसएस-40663) (आईसी-66120वाई), एससी  
रथोश कुमार ए (एसएस-40667) (आईसी-66121एफ), इन्फैन्ट्री  
अभिनव संधु (एसएस-40668) (आईसी-66122के), इंजीनियर्स  
त्रिज नारायण सिंह (एसएस-40673) (आईसी-66124पी), आर्टी

गगनदीप सिंह लांबा (एसएस-40677) (आईसी-66126ए), एससी अमरेंद्र प्रसाद द्विवेदी (एसएस-40680) (आईसी-66127एच), इन्फैन्ट्री विकास कुमार (एसएस-40691) (आईसी-66129एन), इन्फैन्ट्री उपरोक्त अधिकारियों की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :--

वेतन वृद्धि के लिए तारीख --20 मार्च 2004

पदोन्नति के लिए तारीख --20 अक्टूबर 2004

उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारी जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गई है।

वी एस रानडे  
कर्मल  
कर्मल एम एस-7

सेना शाखा

सं. 189, दिनांक 12 मार्च 2009--राष्ट्रपति जी, निम्नलिखित की सहर्ष नियुक्ति करते हैं :--

नियमित सेना  
स्थायी आयोग

निम्नलिखित 01 (एक) जैण्टलमैन कैडेट जोकि 104 टी जी सी पाठ्यक्रम के हैं, को 10 दिसम्बर 2007 (पूर्वाह्न) से सेना अनुदेश 105/61, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है :--

टी/6479 सतबीर सिंह (आईसी-70145एच) आईसी की वरिष्ठता टी/6473 संजय पटियाल (आईसी-70156पी) आईसी के ऊपर प्रकाशित किये जायें, जिनका नाम भारत के राजपत्र में दिनांक 22 नवम्बर 2008 को प्रकाशित हो चुका है।

निम्नलिखित 01 (एक) जैण्टलमैन कैडेट, जोकि 80 टी जी सी पाठ्यक्रम के हैं, को 09 दिसम्बर 1995 (पूर्वाह्न) से सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत 2/लेफ्टिनेंट के पद पर स्थाई आयोग अनुदान किया जाता है। उन्हें 12 दिसम्बर 1993 से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के अन्तर्गत दो वर्ष पूर्व दिनांकित वरिष्ठता, वेतन तथा उन्नति के लिए दी जाती है :--

टी/5377 संजय शर्मा (आईसी-54241एन) इंजीनियर्स की वरिष्ठता टी/5407 शाखें अनिरुद्ध (आईसी-54242डब्ल्यू) सिग्नल्स के ऊपर प्रकाशित किये जायें, जिनका नाम भारत के राजपत्र में दिनांक 17 जुलाई 1999 को प्रकाशित हो चुका है।

अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन)

निम्नलिखित 01 (एक) जैण्टलमैन कैडेट, जोकि 80 टी जी सी पाठ्यक्रम के हैं, को 2/लेफ्टिनेंट के पद पर उनके सम्मुख अंकित तिथि से विशेष सेना अनुदेश 1/एस/94, यथासंशोधित के नियम तथा शर्तों के अन्तर्गत पूर्व-आयोग प्रशिक्षण अवधि के लिए, जोकि भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून में प्रशिक्षणरत हैं, अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) अनुदान किया जाता है :--

आईएमए सं., नाम, एसएस सं., आर्म्स/सर्विस तथा अल्पकालीन सेवा आयोग (परखाधीन) तिथि

टी/5377 संजय शर्मा (36368एन), इंजीनियर्स, 12 जनवरी 1995  
जैण्टलमैन कैडेट को दिए गए आर्म्स/सर्विस केवल प्रशिक्षण के दौरान तक ही मान्य है।

नीलेश चौधरी  
लेफ्टि. कर्मल  
ए एम एस-8बी

सेना शाखा

सं. 190, दिनांक 13 मार्च 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारी को सेवा निवृत्त होने पर अपना रैंक बनाए रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं :--

प्रादेशिक सेना  
सेवा निवृत्त

लेफ्टि. कर्मल ए श्रीनिवासन (टीए-41953), इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2008 (अपराह्न)

जयराज  
अवर सचिव

सं. 191, दिनांक 13 मार्च 2009--भारतीय प्रशासनिक सेवा (हरियाणा : 91) के अधिकारी और रक्षा मंत्रालय में रक्षा उत्पादन राज्य मंत्री (राव इंद्रजीत सिंह) के निजी सचिव श्री अभिलाष लिखी का सूचना और प्रसारण मंत्रालय में निदेशक के पद पर पार्श्विक स्थानांतरण का अनुमोदन होने के परिणामस्वरूप उनकी सेवाएं 27 फरवरी 2009 (पूर्वाह्न) से उनके केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल की शेष अवधि के लिए अर्थात् 16 नवम्बर 2013 तक अथवा अगले आदेश जारी होने तक, इनमें से जो भी पहले हो, केन्द्रीय स्टाफिंग स्कीम के तहत सूचना और प्रसारण मंत्रालय को सौंपी जाती है। केन्द्र में उनका कार्यकाल 17 नवम्बर 2006 से गिना जाएगा।

के मुरली  
अवर सचिव

थल सेना शाखा

सं. 192, दिनांक 13 मार्च 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित अधिकारियों की पदोन्नति करते हैं

नियमित सेना  
स्थायी कमीशन  
सेना चिकित्सा कोर

मेजर जनरल (और समकक्ष) से ले. जनरल (और समकक्ष) के पद पर  
एम आर नं., नाम एवं टिप्पणी  
(एम आर-03814के) एस के शर्मा, 01 दिसम्बर 2008

बी एस राठौर  
मेजर जनरल  
अतिरिक्त महानिदेशक स.से.वि.से. (एच आर)

## सेना सचिव शाखा

सं. 192, दिनांक 13 मार्च 2009—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नति करती हैं:-

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

## ब्रिगेडियर के मूल रैंक में

रैंक, नाम, आईसी आरपी	-- ब्रिगेडियर के मूल रैंक की तिथि
कर्नल एम के जेम्स एम एस (आईसी-00346), आर्मी	- 21 अप्रैल 2008
कर्नल बी के दिगस, एम एस (आईसी-35210), इन्फैंट्री	-- 09 मई 2007
कर्नल पी जी श्री (आईसी-35218), मद्रास	-- 01 सितम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 मई 2007 से दी जाएगी।
कर्नल एस विश्वनाथन (आईसी-35222), सिग्ना	-- 01 सितम्बर 2007 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 09 मई 2007 से दी जाएगी।
कर्नल गणेश कुमार (आईसी-37732), इन्फैंट्री	15 फरवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13 मई 2007 से दी जाएगी।
कर्नल एम वायवरी (आईसी-37182), एओसी	-- 01 फरवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 13 मई 2007 से दी जाएगी।
कर्नल आर गोपालाकृष्णन (आईसी-35488), आर्टी	-- 01 जनवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 18 मई 2007 से दी जाएगी।
कर्नल बलबीर सिंह (आईसी-35610), एएससी	- 01 जनवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 22 मई 2007 से दी जाएगी।
कर्नल यु के नुर्मन (आईसी-35626), मिखलाई	- 01 जनवरी 2008 से ज्येष्ठता परन्तु वेतन व पेंशन पर असर डाले बिना 23 मई 2007 से दी जाएगी।

एन के भूकन  
निदेशक/एम एस (एक्स)

## स्थायी आर्मी

## मिनिस्ट्री नर्सिंग सेवा

## (स्थायी कमीशन)

सं. 194, दिनांक 16 मार्च 2009—राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एम एस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करने हैं।

## ले. कर्नल (सेलेक्ट) से कर्नल

पद और नाम, व्यक्तिगत सं., पदोन्नति की तारीख

कर्नल कुलजीत कौर (एन आर 15754एम), 05 दिसम्बर 2005

ले. पदमिनी

मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक एम एन एस

## नियमित सेना

## स्थायी कमीशन

## मेजर से ले. कर्नल

सं. 195, दिनांक 16 मार्च 2009—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करते हैं।

आई सी स., नाम, आरपी प्रभावित तिथि
39931, एस के गेलोत, एसी, 16 दिसम्बर 2004
43703, आर के माथुर, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004
46964, मोहम्मद यासीन, जैंग, 22 अप्रैल 2005
49182, विक्टर डी क्रूज, एएससी, 16 दिसम्बर 2004
52830, शंकर ऐकाम्बरम, इंजीनियर्स, 11 जून 2007
53089, सुदेश कुमार सिंह, आईसी, 11 जून 2007
53102, अजित सिंह भदौरिया, एमएफ, 11 जून 2007
53118, राजबीर सिंह सांगवान, एएससी, 10 दिसम्बर 2007
53290, कपिल देव शर्मा, इंजीनियर्स, 10 दिसम्बर 2007
53325, प्रेमेश नाथ शुक्ला, एएससी, 10 दिसम्बर 2007
53370, कंसू प्रसाद नाथर, एओसी, 10 दिसम्बर 2007
55334, विवेक सावन गौडर, इन्फैंट्री, 11 मई 2007
56911, विनोद शुक्ला, इंजीनियर्स, 10 जून 2008

जसवन्त सिंह  
संयुक्त निदेशक  
एमएस 8 सी

## सेना शाखा

सं. 196 दिनांक 16 मार्च 2009—राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं।

## प्रादेशिक सेना

## प्रादेशिक कमीशन

## मेजर बनाया जाता है

कैप्टन दीपक सिरौली (टी ए-42436), इन्फैंट्री 07 जनवरी 2008

कैप्टन नीधिकांत ध्यानी (टी ए-42441), इन्फैन्ट्री) 09 मार्च 2008  
 कैप्टन जे एस भदोरिया (टी ए-42444), इन्फैन्ट्री) 14 फरवरी 2008  
 कैप्टन कुलदीप सिंह चौहान (टी ए-42449), इन्फैन्ट्री) 30 मार्च 2008 ✓

जय राज  
 अवर सचिव

-----  
 स्थायी आर्मी

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

सं. 197, दिनांक 16 मार्च 2009--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित एम एन एस अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शायी गयी तिथियों से पदोन्नति प्रदान करते हैं:--

कैप्टन से मेजर

पद और नाम, व्यक्तिगत सं., पदोन्नति की तारीख

मेजर केका राउत (एन आर-20281एच), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर अनुप्रिया बाली (एन आर-20282एल), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर संध्या वी नायर (एन आर-20283एन), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर मंजू मैथ्यू (एन आर-20284डब्ल्यू), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर के पी शीनामोल (एन आर-20287के), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर श्रीलता कुन्नन (एन आर-20288एम), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर हेमलता आर्या (एन आर-20289पी), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर लिसम्मा एन्टेनी (एन आर-20291एम), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर बिन्दु उल्हानन (एन आर-20293एक्स), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर एन प्रमिला (एन आर-20294ए), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर शीना थॉमस (एन आर-20295एच), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर मंजू राजप्पन (एन आर-20296एल), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर अनीशा बेगम (एन आर-20297एन), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर ब्रह्म भाटिया (एन आर-20298डब्ल्यू), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर वी शर्मिला (एन आर-20299वाई), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर संध्या ई (एन आर-20300एम), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर बिन्दु पी (एन आर-20301एल), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर सुनीता कुमारी (एन आर-20303डब्ल्यू), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर प्रवीण कुमारी (एन आर-20304वाई), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर सिमरन जीत ग्रेवाल (एन आर-20305एफ), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर मैत्रेयी दास (एन आर-20306के), 06 सितम्बर 2008

मेजर श्रीलता टी (एन आर-20307एम), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर जुगनू देवी (एन आर-20308पी), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर जैन्सी मैथ्यू सी (एन आर-20310एम), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर बिन्दु सारा मैथ्यू (एन आर-20311पी), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर जूलिन जोस (एन आर-20312एक्स), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर गार्गी बैनर्जी (एन आर-20313ए), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर रजनी एस आर (एन आर-20314के), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर जिजी जेम्स (एन आर-20315एल), 06 सितम्बर 2008  
 मेजर स्वप्ना कुरियन (एन आर-20317डब्ल्यू), 06 सितम्बर 2008

टी पदमिनी

मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशक एम एन एस

-----  
 सेना शाखा

सं. 198, दिनांक 17 मार्च 2009--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित सेना चिकित्सा कोर अधिकारी को सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं:--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

मेजर के पद पर

विक्रम भारद्वाज (एम एस-14436डब्ल्यू), (एम आर-08409डब्ल्यू), एएमसी, 15 मार्च 2006

विवेक सिंह गुलेरिया (एम एस-14982एच), (एम आर-08723के), एएमसी, 12 अक्टूबर 2008

सर्वेश कुमार श्रीवास्तवा (एम एस-14839डब्ल्यू), (एम आर-08730ए), एएमसी, 27 जुलाई 2008

बी एस राठौर

मेजर जनरल

अपर महानिदेशक स से चि से (भा स)

-----  
 सेना शाखा

सं. 199, दिनांक 17 मार्च 2009--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं:--

नियमित सेना

स्पेशल कमीशन

कप्तान से मेजर

एस सी नं., नाम, आर्म, मेजर दिनांक से

00447, खेम सिंह, इन्फैन्ट्री, 10 दिसम्बर 2008

00448, राजेश्वरी प्रसाद, इन्फैन्ट्री, 10 दिसम्बर 2008

स्थायी कमीशन  
कप्तान से मेजर  
आई सी नं., नाम, आर्म, मेजर दिनांक से  
56425, राहुल आर्य, इन्फैन्ट्री, 04 मई 2006  
56526, अनुराग शर्मा, आर्टी, 04 मई 2007  
65798, गगन दीप सिंह, ईएमई, 08 मई 2007  
65902, सुपिन्दर सिंह सेठी, इंजीनियर्स, 06 नवम्बर 2007  
65905, पवन यादव, ईएमई, 06 नवम्बर 2007

## लैं. से कप्तान

आई सी सं., नाम और आर्म  
70144, क्षितिज भारद्वाज, सिग्नल्स  
70146, सुमित शर्मा, ईएमई  
70147, उदितो धारा, इंजीनियर्स  
70148, रूपज्योति दास, इंजीनियर्स  
70149, सन्नी कुमार टुकराना, सिग्नल्स  
70150, अंकित शर्मा, ईएमई  
70151, यश्विन्दर सिंह जस्स, सिग्नल्स  
70152, भरत श्री आर पी, ईएमई  
70153, गौतम कुमार, सिग्नल्स  
70154, गवई विनोद श्रीराम, ईएमई  
70155, तरुण गर्ग, इंजीनियर्स  
70157, जगप्रीत सिंह, ईएमई  
70158, हरजीत सिंह डाब्बा, ईएमई  
70159, राहुल, आर्टी  
70160, अर्जुन ललित कुमार अग्निहोत्री, ईएमई  
70161, मुनीष राणा, सिग्नल्स  
70163, कुलजीत कुमार, सिग्नल्स  
70164, रैयोतगम केंगो कशुंग, ईएमई  
70165, दीपक ई आर, ईएमई  
70166, साकेत पतनवार, इंजीनियर्स  
70167, खोट प्रथमेश जयकुमार, इंजीनियर्स  
70168, प्रियुष जैन, इंजीनियर्स  
70169, मनदीप मलिक, सिग्नल्स  
70170, सरित आनंद पथी, इंजीनियर्स

70171, वसुल शर्मा, ईएमई  
70172, रामावतार सिंह तनवर, ईएमई  
70173, पपरिकर अनिकेत धनन्जय, ईएमई  
70174, अविनास मोहापात्रा, सिग्नल्स  
70175, कपिल देव परिक, ईएमई  
70176, संजीव कुमार आर, ईएमई  
70177, व्यास सिद्धार्थ गौतम, इंजीनियर्स  
70178, अरविन्द कंडपाल, सिग्नल्स  
70179, जावेद सलीम, ईएमई  
70180, अमनदीप सिंह पुरी, सिग्नल्स  
70181, रोहित दुबे, इंजीनियर्स

--11 दिसम्बर 2007--

आईसी सं., नाम, आर्म और कप्तान दिनांक से  
64938, विकास मंडल, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004  
65115, आशीष सक्सेना, आर्टी, 16 दिसम्बर 2004  
65116, गौरव भाखरी, एसी, 16 दिसम्बर 2004  
65117, रविन्द्र सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004  
65119, ग्रीजेश दुबे, एएडी, 16 दिसम्बर 2004  
65120, आनन्द जॉन सम्मथ, इन्फैन्ट्री, 16 दिसम्बर 2004  
65121, कनवरजीत सिंह, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004  
65122, प्रवीण जगोता, एसी, 16 दिसम्बर 2004  
65126, मुकेश कुमार सिंह, इंजीनियर्स, 16 दिसम्बर 2004  
65127, संजय यादव, एसी, 16 दिसम्बर 2004  
65130, राज कुमार पुन्नी, ईएमई, 16 दिसम्बर 2004  
65131, मोहम्मद सलीम, एसी, 16 दिसम्बर 2004  
65955, तरुण साहनी, आर्टी, 06 मई 2006  
66004, राहुल सिंह, आर्टी, 06 मई 2006  
आईसी सं., नाम और आर्म  
68471, सचिन कुमार, इन्फैन्ट्री  
68472, आर प्रकाश, इंजीनियर्स  
68473, गौरव दीक्षित, इन्फैन्ट्री  
68474, अनुज श्रीवास्तव, एएडी  
68475, प्रमोद कुमार, ईएमई  
68476, सव्यसाची बोस, एसी

- 68477, सहस्रबुधे पुष्कर सतीश, इन्फैन्ट्री  
 68478, राजेश्वर सिंह जामवाल, आर्टी  
 68479, प्रकाश चन्द्र त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री  
 68480, जीवन कुमार शर्मा, आर्टी  
 68481, सुधीन्द्र सिंह, इन्फैन्ट्री  
 68482, कृष्ण सिंह रावत, इन्फैन्ट्री  
 68483, शिशिर कुमार, इन्फैन्ट्री  
 68484, मनीष ढाका, इंजीनियर्स  
 68485, सुजीत पिल्लै, सिग्नल्स  
 68486, अर्षदीप सिंह, इन्फैन्ट्री  
 68487, पीयूष श्रीवास्तव, एओसी  
 68488, अंकित सिंह, इंजीनियर्स  
 68489, नवराज डंडरीयाल, एओसी  
 68490, कपिल पावड़िया, ईएमई  
 68491, सौरभ सुमन, मैक  
 68492, पंकज कुमार मिश्रा, इंजीनियर्स  
 68493, पी अभिलाष चन्द्रन, आर्टी  
 68494, विनोद कुमार भास्कर, इन्फैन्ट्री  
 68495, सन्नी जुनेजा, इन्फैन्ट्री  
 68496, विनोद सिंह, एसी  
 68497, रवि कुमार शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 68498, शाइन अगस्त्यइन, एएससी  
 68499, समीर मदान, इंजीनियर्स  
 68500, वरूण माण्डी, इन्फैन्ट्री  
 68501, अमन अहलुवालिया, इन्फैन्ट्री  
 68502, तुषार मेनन, एओसी  
 68503, दिग्विजय सिंह अहलावत, मैक  
 68504, शक्ति विजय सिंह राठौर, एसी  
 68505, मुकुल तिवारी, इंजीनियर्स  
 68506, सुनील कुमार जाखड़, इंजीनियर्स  
 68507, अभिनीश वी, ईएमई  
 68508, शैलेन्द्र कथायात, इन्फैन्ट्री  
 68509, अभीत पिल्लै, इन्फैन्ट्री  
 68510, के एस श्याम प्रसाद, इन्फैन्ट्री  
 68511, अभिजीत डे, आर्टी  
 68512, पुनीत शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 68513, बलजीत सिंह भिन्डर, सिग्नल्स  
 68514, पल्लव भगवती, इन्फैन्ट्री  
 68515, नीरज सिंह, इन्फैन्ट्री  
 68516, अभिमन्यु शर्मा, आर्टी  
 68517, कुलदीप सिंह मेहता, आर्टी  
 68518, उदित नेगी, इंजीनियर्स  
 68519, ऋषभ सिंह, इन्फैन्ट्री  
 68520, मनीष उपाध्याय, इन्फैन्ट्री  
 68521, शुभोजित डे, आर्टी  
 68522, धैर्यशील प्रकाश जगदाले, इन्फैन्ट्री  
 68523, चिवेक शर्मा, इन्फैन्ट्री  
 68524, जयशंकर, इन्फैन्ट्री  
 68525, अजय बहादुर, इन्फैन्ट्री  
 68526, राहुल चन्देल, एएडी  
 68527, जयश्याम नायर, इन्फैन्ट्री  
 68528, सुनील कुमार, इन्फैन्ट्री  
 68529, आदित्य अग्रवाल, इंजीनियर्स  
 68530, निर्मल सिंह, इन्फैन्ट्री  
 68531, अर्पित अत्रिय, आर्टी  
 68532, जयेन्द्रसिंग कुमारसिंग पाटिल, इन्फैन्ट्री  
 68533, आदर्श कुमार पान्डेय, आर्टी  
 68534, प्रशांत रामचन्द्र काकडे, इन्फैन्ट्री  
 68535, अंकुर महाजन, इंजीनियर्स  
 68536, राधेश्याम सिंह तोमर, एएडी  
 68537, भावजीत सिंह चौहान, इन्फैन्ट्री  
 68538, शशी भूषण सिंह चिब, इन्फैन्ट्री  
 68539, ए तुलसी बाबू, एसी  
 68540, शक्ति सामन्तो, एओसी  
 68541, सुनील कुमार, इन्फैन्ट्री  
 68542, मयंक शर्मा, सिग्नल्स  
 68543, रोहित सेठी, मैक  
 68544, कृष्ण चन्द्र प्रधान, आर्टी

68545. मनप्रीत सिंह गुलाटी, इन्फैन्ट्री	68579. केदार श्रीधर जोशी, इन्फैन्ट्री
68546. पवार निखिल श्रोगम, इन्फैन्ट्री	68580. जॉन डेनियल, इन्फैन्ट्री
68547. अमित कुमार निवारी, इंजीनियर्स	68581. सुमित आचार्य, इन्फैन्ट्री
68548. शिंदे यशोग अण्णासाहेब, इन्फैन्ट्री	68582. रविन्द्र अहलावत, इन्फैन्ट्री
68549. दोगजी लेटा, एएमसी	68583. दिव्यदिष्टा सतपती, इन्फैन्ट्री
68550. राव रंजन, आर्टी	68584. सरफराज अली, इन्फैन्ट्री
68551. बृज मोहन पाउक, ईएमई	68585. योगेश पवार, इन्फैन्ट्री
68552. के अनिल कुमार, इंजीनियर्स	68586. अभिक संस्कार, आर्टी
68553. राकेश कुमार भागद्वज, एओसी	68587. रजनीश कुमार रावत, इन्फैन्ट्री
68554. रवि प्रताप सिंह, इन्फैन्ट्री	68588. सुप्रीत सिंह, इंजीनियर्स
68555. बलवीर सिंह राठौड़, इन्फैन्ट्री	68589. जगताप अतुलकुमार कार्शानाथ, आर्टी
68556. संदीप चौधरी, आर्टी	68590. परवेज़ इकबाल मुलाणी, इन्फैन्ट्री
68557. एलेक्स एंटोनी, इंजीनियर्स	68591. पुष्पिन्दर सिंह, आर्टी
68558. पुष्पराज पाण्डेय, एओसी	68592. पी कैनेन अनल, इंजीनियर्स
68559. वेम्भाले सचिन सखाराम, इन्फैन्ट्री	68593. राजीव राणा, इन्फैन्ट्री
68560. सूरज सिंह चित्तवाल, इन्फैन्ट्री	68594. मनमोहन सिंह, एओसी
68561. आशाप दुवे, इंजीनियर्स	68595. प्रवीन जोशी, इन्फैन्ट्री
68562. गोहल बृन्देला, एसी	68596. जयराम, ईएमई
68563. सिद्धार्थ शर्मा, इंजीनियर्स	68597. भीष्म शांडिल, इन्फैन्ट्री
68564. कंवर प्रीत सिंह, इंजीनियर्स	68598. अरिजीत चन्द्र सेन, सिग्नल्स
68565. अरुण दहिया, ईएमई	68599. अविनाश कुमार, इंजीनियर्स
68566. प्रशांत उमापति हरिमथ, इन्फैन्ट्री	68600. कुलकर्णी चेतन दिलीप, मैक
68567. प्रतोक् शर्मा, इन्फैन्ट्री	68601. अभिजीत मानसिंह, इन्फैन्ट्री
68568. विकास शौकीन, इन्फैन्ट्री	68602. विनय कुमार, आर्टी
68569. भोम सिंह, एओसी	68603. महिराज सिंह, इन्फैन्ट्री
68570. कामीरेड्डी हर्षवर्धन रेड्डी, ईएमई	68604. राकेश कुमार, ईएमई
68571. सौरभ सिंह सिग्नल्स	68605. सिद्धार्थ चन्देल, एओसी
68572. विपिन, इन्फैन्ट्री	68606. निर्मल कुमार झा, इंजीनियर्स
68573. अम्बुज सिंह राजपूत, इन्फैन्ट्री	68607. श्रेयस्कर प्रकाश, इंजीनियर्स
68574. ब्रह्माण संकेत शिवाजीगव, इन्फैन्ट्री	68608. आशिश नेहरा, इन्फैन्ट्री
68575. नरेश कुमार चम्पवाल, एओसी	68609. विद्या भूषण पाण्डेय, इंजीनियर्स
68576. श्याम बेजस शर्मा, इन्फैन्ट्री	68610. भक्ता रंजन राउत, इन्फैन्ट्री
68577. निशांत सिंह मध्यवाल, एसी	68611. जुबिन जेकर, इन्फैन्ट्री
68578. सोएच आर शेखर श्रीनिवास, आर्टी	68612. कुनाल सिंगला, एसी



68614, गुरप्रीत सिंह, इंजीनियर्स	68648, एबी टी एम, सिग्नल्स
68615, तेज नारायण मिश्रा, ईएमई	68649, अरिबम सरथ चन्द्र शर्मा, इंजीनियर्स
68616, संदीप सोनी, इन्फैन्ट्री	68650, संदीप सिंह जसरोटिया, इन्फैन्ट्री
68617, राजेश कुमार जोशी, इंजीनियर्स	68651, हैगडे विनीत कुमार प्रभाकर, इंजीनियर्स
68618, वरूति रामाचन्द्रा राव, आर्टी	68652, ऋषिकेप, इंजीनियर्स
68619, विष्णु कुमार मिश्रा, आर्टी	68653, बालाजी, ईएमई
68620, संयम चौधरी, इंजीनियर्स	68654, जयंत कुमार घोषी, एएडी
68621, अमन सिंह, एएससी	68655, वेलुमुरुगन एस, इन्फैन्ट्री
68622, तरूण सुन्दियाल, इन्फैन्ट्री	68656, सौम्यया के बी, एओसी
68623, अंकुश ढींगरा, आर्टी	68657, देब चन्दन दास, इन्फैन्ट्री
68624, सचिन रावत, इन्फैन्ट्री	68658, उत्सव कुमार, इंजीनियर्स
68625, मृत्युञ्जय मिश्रा, इन्फैन्ट्री	68659, पवन कुमार, आर्टी
68626, टिकावाडे पद्मराज मोहनराव, आर्टी	68660, जितेन्द्र सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री
68627, राकेश सिंह, एएससी	68661, हिमांशु पंत, इन्फैन्ट्री
68628, श्रीपादा श्रीराम, आर्टी	68662, पवन कुमार, इंजीनियर्स
68629, कांबले अक्षय अविनाश, इन्फैन्ट्री	68663, सतीश कुमार मिश्रा, इन्फैन्ट्री
68630, इरविन्दरजीत सिंह अहलुवालिया, मेक	68664, सुनिल कुमार, ईएमई
68631, मुथूमल्ला रामेन्द्र रेड्डी, इंजीनियर्स	68665, रोहित बधवार, इन्फैन्ट्री
68632, प्रदीप कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री	68666, मनदीप सिंह बत्रा, आर्टी
68633, अर्जुन माइकल सिंह, एसी	68667, अरविन्द तोमर, इन्फैन्ट्री
68634, विश्वनाथ गुप्ता, इन्फैन्ट्री	68668, विवेक त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री
68635, अभिनय भारद्वाज, एएससी	68669, सुशील कुमार जिन्दल, इन्फैन्ट्री
68636, विमल भंडारी, इन्फैन्ट्री	68670, श्रीजित पिल्लई, एओसी
68637, जडेजा रतुराज बलवीर सिंह, इन्फैन्ट्री	68671, विजय सिंह धानक, इन्फैन्ट्री
68638, अभिषेक सिंह, इन्फैन्ट्री	68672, अमित कुमार, आर्टी
68639, अतुल तिवारी, एओसी	68673, नितिन आई बेलप्पनवर, इंजीनियर्स
68640, आदित्य कोटस्थाने, ईएमई	68674, निमानी सुभाष, इंजीनियर्स
68641, रोहित एम नायर, इन्फैन्ट्री	68675, संजीव कुमार, इन्फैन्ट्री
68642, नरेन्द्र सिंह गंडास, इन्फैन्ट्री	68676, वरूण अरोड़ा, मेक
68643, अभिषेक दुबे, इन्फैन्ट्री	68677, दिपांकर बरूआ, इन्फैन्ट्री
68644, सुनील कुमार, एसी	68678, सुरेन्द्र कुमार, ईएमई
68645, वानखेडे सुहास बसंत, इन्फैन्ट्री	68679, महेश एन उन्नी के, एएडी
68646, सुनील कुमार चौधरी, आर्टी	68680, निहाल थॉमस पूनेन, इन्फैन्ट्री
68647, सूर्य कुमार जी, इन्फैन्ट्री	68681, प्रमोद कुमार दलाल, इंजीनियर्स

68682, राम प्रकाश यादव, एओसी	68717, प्रिंस गिल, इन्फैन्ट्री
68683, शैलेन्द्र सिंह गुप्ता, इन्फैन्ट्री	68718, जयदीप नैनवाल, इन्फैन्ट्री
68684, सौरभ विशाल, इन्फैन्ट्री	68719, मांदले संदीप सुरेश, एएडी
68685, वैभव सिंह, एएडी	68720, अनिल यादव, इन्फैन्ट्री
68686, अरुण थोमस, इन्फैन्ट्री	68721, अर्जुन सिंह, एसी
68687, नितीन मोहन शर्मा, इंजीनियर्स	68722, श्रीकांत एस, मेक
68688, बलवान सिंह, एसी	68723, मोहित टीपी, आर्टी
68689, मनोहर सिंह आर्या, आर्टी	68724, अजीत कुमार जी, एओसी
68690, काननो निनाद आनंद, इन्फैन्ट्री	68725, मुडन्डी संतोष वर्मा, आर्टी
68691, प्रशांत धुक्किया, इन्फैन्ट्री	68726, सूरज कुमार राय, इन्फैन्ट्री
68692, मनीष कुमार मदन, आर्टी	68727, प्रसून कुमार मोसेलिया, इंजीनियर्स
68693, पवन कुमार, इन्फैन्ट्री	68728, संजीव कुमार इन्फैन्ट्री
68694, अंकुर पान्डेय, इन्फैन्ट्री	68729, दिक्कोडा निखिल गिरीधर, इन्फैन्ट्री
68695, नीतेश कुमार, एएससी	68730, महा समुद्रम रवि, एसी
68696, संकल्प गडौर, इन्फैन्ट्री	68731, विचित्र सी, इंजीनियर्स
68697, कुमार राहुल आनंद, आर्टी	68732, एल नीतिन कुमार, एओसी
68698, मानस कुंडु, आर्टी	68733, सिमरन प्रीत सिंह औजला, इन्फैन्ट्री
68699, मनीष गुलिया, इन्फैन्ट्री	68734, अतुल कुमार, इंजीनियर्स
68700, शशांक मिश्रा, ईएमई	68735, विनित दत्त, इन्फैन्ट्री
68701, भावनी प्रसाद मिश्रा, आर्टी	68736, प्रशान्त वर्मा, आर्टी
68702, जेम्स जेकरव, इन्फैन्ट्री	68737, विधु शेखर पान्डेय, एएडी
68703, लक्ष्मण सिंह बिष्ट, इन्फैन्ट्री	68738, गौरव सिंह, इन्फैन्ट्री
68704, साहिल शर्मा, इन्फैन्ट्री	68739, महावीर सिंह, इन्फैन्ट्री
68705, अजय सिंह रौतेला, इन्फैन्ट्री	68740, रोहित कुमार झा, इन्फैन्ट्री
68706, सुमित छावड़ा, एओसी	68741, अमित कुमार मिश्रा, सिग्नल्स
68707, अंशुल शर्मा, इंजीनियर्स	68742, विक्रान्त ठाकुर, इन्फैन्ट्री
68708, मुखेन्दर सुजीत सूर्यकान्त, इन्फैन्ट्री	68743, अविनाश, इन्फैन्ट्री
68709, संदीप एम मेनन, सिग्नल्स	68744, प्रताप जगन्नाथ यादव, आर्टी
68710, सावंत प्रसाद विश्राम, इंजीनियर्स	68745, वरुण सिंह, आर्टी
68711, विवेक खंडुरी, इन्फैन्ट्री	68746, निखिल राठौर, आर्टी
68712, संदीप कुमार सिंह, इन्फैन्ट्री	68747, सुनील दत्त सिरसवाल, एओसी
68713, विवेक सिंह सेगर्, इन्फैन्ट्री	68748, अमन मेहता इन्फैन्ट्री
68714, राजेन्द्र सिंह बिष्ट, ईएमई	68749, रमन गखाड़, इन्फैन्ट्री
68715, धनीश के गोपिनाथ, इंजीनियर्स	68750, साश्वत पटनायक, इन्फैन्ट्री
68716, रमणी रमन, इंजीनियर्स	

- 68751, संग्राम केसरी दास, आर्टी  
 68752, धीरज कुमार तिवारी, इंजीनियर्स  
 68753, आशीष भारद्वाज, ईएमई  
 68754, गौरव बत्रा, एएडी  
 68755, ठाकरे केदार सतीशराव, इंजीनियर्स  
 68756, अमित कोटवाल, ईएमई  
 68757, सौरभ, चौधरी, इन्फैन्ट्री  
 68758, शक्ति सिंह राजवी, इन्फैन्ट्री  
 68759, सुमित चट्टा, इंजीनियर्स  
 68760, सिद्धार्थ छेत्री, इन्फैन्ट्री  
 68761, सुनित तिरकी, सिग्नल्स  
 68762, गौरव शर्मा, ईएमई  
 68763, प्रवीण कुमार द्विवेदी, सिग्नल्स  
 68764, सजीवन कोलियाट, एओसी  
 68765, अनय त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री  
 68766, वरुण राठी, एसी  
 68767, चिन्मय रंजन कार, आर्टी  
 68768, इसाक अमिरहमाजा नाडफ, इन्फैन्ट्री  
 68769, भगली प्रियाल सतीश, इंजीनियर्स  
 68770, गोपाल कृष्णन, इन्फैन्ट्री  
 68771, धीरज कुमार शाही, इन्फैन्ट्री  
 68772, अमित शर्मा, इंजीनियर्स  
 68773, अमित दत्त शर्मा, इंजीनियर्स  
 68774, मनीष कुमार, इंजीनियर्स  
 68775, संदीप तड़गी, इंजीनियर्स  
 68776, रोशन रिशाभ, मैक इन्फैन्ट्री  
 68777, हेमन्त कुमार, इन्फैन्ट्री  
 68778, आशीष वर्मा, एओसी  
 68779, हसबनीस सुश्रुत किशोर, इन्फैन्ट्री  
 68780, चेतन सिंह, इन्फैन्ट्री  
 68781, गुरविन्दर सिंह गिल, इन्फैन्ट्री  
 68782, अरविन्द सरकांडिया, आर्टी  
 68783, श्रीवास्तव हिमांशु रविनारायण, एसी  
 68784, अखिलेश सिंह राठौर, इन्फैन्ट्री  
 68785, मोहित कुमार शर्मा, आर्टी  
 68786, कुणाल कस्यप, इंजीनियर्स  
 68787, हर्ष शर्मा, एसी  
 68788, अभिषेक त्रिवेदी, आर्टी  
 68789, बंधान भूषण भानुदास, इंजीनियर्स  
 68790, दिलीप कुमार सेनापति, एएससी  
 68791, अविनाश कुमार उपाध्याय, इन्फैन्ट्री  
 68792, रिशब त्रिपाठी, इन्फैन्ट्री  
 68793, प्रदीप मौल, एएडी  
 68794, कमलेश मिश्रा, आर्टी  
 68795, प्रसून शेखर, एओसी  
 68796, मिथिलेश कुमार ओझा, इन्फैन्ट्री  
 68797, रघुवीर सिंह, ईएमई  
 68798, अनिमेष दास, इन्फैन्ट्री  
 68799, वेद भूषण खनोरिया, इन्फैन्ट्री  
 68800, सिद्धार्थ मलिक, आर्टी  
 68801, आशीष सिंह, इन्फैन्ट्री  
 68802, चक्रवर्ती अनिरुद्ध अशोक, मेक  
 68803, जितेन्द्र कुमार अग्रवाल, इन्फैन्ट्री  
 68804, विपिन सकलानी, इन्फैन्ट्री  
 68805, नीरज कुमार उपाध्याय, इन्फैन्ट्री  
 68806, आहिरराव राहुल रमेश, इंजीनियर्स  
 68807, काजिम मुस्तफा जैदी, आर्टी  
 68808, मोहित भान, इन्फैन्ट्री  
 68809, अनिमेष कुमार, इन्फैन्ट्री  
 68810, अमित कुमार चौधरी, इन्फैन्ट्री  
 68811, अनुज कुमार खत्री, एओसी  
 68812, प्रभाकर थापा, इन्फैन्ट्री  
 68813, पीयूष नाथ, इन्फैन्ट्री  
 68814, अभिमन्यु सिंह, इन्फैन्ट्री  
 68815, दिव्यांशु एस मोरघोडे, ईएमई  
 68816, कमल कौशल, इन्फैन्ट्री  
 68817, कुमार चन्दन, आर्टी  
 68818, अभिषेक खरे, इन्फैन्ट्री  
 68819, अनिल सिंह गुसाई, इन्फैन्ट्री

68820, श्रद्धित बालाकृष्णन नायर, इन्फैन्ट्री	68854, अतुल कुमार त्यागी, एसी
68821, त्रिमल पी. एएससो	68855, देवान्शु दुवे गौतम, आर्टी
68822, कौपलक राणा, मेक	68856, उत्तम आनंद, एरटी
68823, दीपतार्थ मंग्रकार, इन्फैन्ट्री	68857, सुरेश पाल चोयान, सिग्नल्स
68824, मुर्धन कुमार सिन्हा, इन्फैन्ट्री	68858, अभिनव वर्मा, एएससो
68825, रविन्द्र कुमार यादव, इन्फैन्ट्री	68859, आशीष कुमार, एएससो
68826, अभियेक चटर्जी, इन्फैन्ट्री	68860, कौशिक मुखोपाध्याय, ईएमई
68827, राघव पराशर, इंजीनियर्स	68861, कुलवंत राना, एसी
68828, धावमर चैतन्य शर्मा, एसी	68862, आदित्य सिंह, आर्टी
68829, सुमित कुमार बहल, इन्फैन्ट्री	68863, सुचित मेहरोत्रा, आर्टी
68830, राहुल श्रीवास्तव, इन्फैन्ट्री	68864, अनूप जोशी, इंजीनियर्स
68831, के. प्रमोद शंकर, एओसी	68865, मनन दुबलिश, सिग्नल्स
68832, अनुजात कुमार, इंजीनियर्स	68866, सुब्रता नारायण दास, आर्टी
68833, श्रीकान्त आर, इन्फैन्ट्री	68867, गुंजन शर्मा, एसी
68834, जोशी आनंद प्रकाश, एसी	68868, मयंक शर्मा, आर्टी
68835, नरनाथ मनवार, इंजीनियर्स	68869, रवि पाल, इंजीनियर्स
68836, शोभित अहलावत, एओसी	68870, कटबथुला श्रीनाथ, आर्टी
68837, राजीव यादव, ईएमई	68871, विकास मलिक, आर्टी
68838, रोहन गुप्ता, इन्फैन्ट्री	68872, मिनहाज अहमद, इंजीनियर्स
68839, अनिरुद्ध भूषान, इन्फैन्ट्री	68873, अरशद कमाल, सिग्नल्स
68840, अभित जून, इन्फैन्ट्री	68874, कमल मक्कार, एसी
68841, योगेश निवारी, सिग्नल्स	68875, अभिनव कुमार सिंह, एओसी
68842, अमरिन्दर सिंह मेहर, आर्टी	68876, वरधेसे विनसेट जोन्ह, मेक इन्फैन्ट्री
68843, प्रतीक, इन्फैन्ट्री	68877, राजिन्दर हुडा, इंजीनियर्स
68844, कुमार अभियेक, आर्टी	68878, असीम गुप्ता, इंजीनियर्स
68845, सामरथ गुप्ता, इंजीनियर्स	68879, करणदीप सिंह मल्होत्रा, ईएमई
68846, अनजना कुमार, आर्टी	68880, मनोज सेठ, एओसी
68847, सारंग प्रदीप वानखडे, एएडी	68881, पवन कुमार सचान, सिग्नल्स
68848, मंजुनाथ थिलुर, सिग्नल्स	68882, शारत नाथियार, ईएमई
68849, इन्दरजान यादव, एओसी	68883, रिज्जी मानव, सिग्नल्स
68850, देव शंकर मिश्रा, ईएमई	68884, रजनीश कुमार, सिग्नल्स
68851, विनायक त्यागी, सिग्नल्स	68885, दिक्षित देवाल सुभाष, एसी
68852, अशोक कुमार, मेक इन्फैन्ट्री	68886, रमन मिश्रा, ईएमई
68853, डी रत्नोत, आर्टी	68887, सिद्धार्थ उपाध्याय, ईएमई

68888, मधुर उपमन, सिग्नल्स  
 68889, आर्यामन क्षितिज उदय, एएडी  
 68890, बनर्जी भास्कर शंकर, आर्टी  
 68891, कुणाल दीप सिंह, एसी  
 68892, सौरभ कोहली, ईएमई  
 68893, सी दिनेश प्रभु, आर्टी  
 68894, सतीश कुमार शर्मा, इंजीनियर्स  
 68895, प्रताप बाजवा, एएडी  
 68896, सिंह अम्बरिश कुमार योगेश, एएडी  
 68897, समर किशोर, ईएमई  
 68898, योगेश पालिवाल, इंजीनियर्स  
 68899, राकेश सिंह बिष्ट, इंटर  
 69900, अभिषेक बक्षी, ईएमई  
 69901, ऋषि कांत दुबे, एएससी  
 69902, जसप्रीत सिंह, एएससी  
 69903, देविश देसी, एसी  
 69904, विकास बलियान, आर्टी  
 69905, हर्ष धनखर, एओसी  
 69906, समरपीत यादव, एएससी  
 69907, भुवन कालरा, एएससी  
 69908, अरविन्द सिंह, इंजीनियर्स  
 69909, वरूण शर्मा, ईएमई  
 69910, आदित्य शर्मा, इंजीनियर्स  
 69911, शनतिन्द धिंगरा, ईएमई  
 69912, उरध्वारशे अभिषेक राजेन्द्र, आर्टी  
 69913, गौरव तनडोन, इंजीनियर्स  
 69914, गलनदे अमित विजय कुमार, आर्टी  
 69915, जी के ठन्नी कृष्णन, मेक इन्फैन्ट्री  
 69916, सुशील कुमार मौर्या, सिग्नल्स  
 69917, राजीव रंजन झा, इंटर  
 69918, मोहित खन्ना, मेक इन्फैन्ट्री  
 69919, गगन दीप सिंह, सिग्नल्स  
 69920, अभिषेक शर्मा, एएससी  
 69921, रिशुभ शर्मा, आर्टी

69922, यशवेन्द्र कुमार सिंह, इंजीनियर्स

69923, गौतम पंत, आर्टी

69924, गौरव सिंह, सिग्नल्स

--09 दिसम्बर 2008

आई सी सं., नाम, आर्म तथा कप्तान दिनांक से

54241 संजय शर्मा, इंजीनियर्स, 12 दिसम्बर 1998

अल्पकालीन सेवा कमीशन (मैन)

ले. से कप्तान

एसएस सं., नाम, आर्म, वरीयता तिथि, कोर्स, संशोधित वरीयता तिथि, और कप्तान दिनांक से

41635 चन्द्र शेखर यादव, आर्टी, 17 सितम्बर 2005, एस एस सी 80(एनटी), 17 अप्रैल 2006, 17 अप्रैल 2008

अल्प-कालीन सेवा कमीशन (डब्ल्यू एस ई एस)

ले. से कप्तान

एसएस सं., नाम, आर्म, वरीयता तिथि, कोर्स, संशोधित वरीयता तिथि, कप्तान दिनांक से

00773 आरती तिवारी, एएससी, 08 मार्च 2003, डब्ल्यू एस ई एस ओ-21(एनटी), 08 मार्च 2004, 08 मार्च 2006

00887 दीप्ति, एएससी, 20 मार्च 2004, डब्ल्यू एस ई एस ओ-23(एनटी), 20 मार्च 2005, 20 मार्च 2007

डब्ल्यूएस सं., नाम, आर्म तथा कप्तान दिनांक से

01000, पेद्दा गारगी कनक दुर्गा, सिग्नल्स, 19 मार्च 2008

01001, श्वेता खनजोडे, सिग्नल्स, 19 मार्च 2008

01004, कटे पूनम बालिराम, ईएमई, 19 मार्च 2008

01005, दिव्या गुप्ता, सिग्नल्स, 19 मार्च 2008

01009 नीतू सिंह, ईएमई, 19 मार्च 2008

01010, के संगीता, ईएमई, 19 मार्च 2008

01013, केठोलेबैनौ कौतसु, सिग्नल्स, 19 मार्च 2008

01019, रंगीलाल देविना दिलीप, इंजीनियर्स, 19 मार्च 2008

01024, सुषमा बी एन पांडे, ईएमई, 19 मार्च 2008

01027, शोभा मदन, सिग्नल्स, 19 मार्च 2008

01039, नम्रता गुप्ता, ईएमई, 19 मार्च 2008

01047 भागवत मैथिली मकरंद, सिग्नल्स, 19 मार्च 2008

01053, सुरभि दीक्षित, ईएमई, 19 मार्च 2008

01057, अनुपम गोयल, ईएमई, 19 मार्च 2008

01066, त्रिवेदी नेहा कैलाशचंद्र, इंजीनियर्स, 19 मार्च 2008  
 01068, अर्दिनि शर्मा, ईएमई, 19 मार्च 2008  
 01081, श्वेता धिंगरा, ईएमई, 17 सितम्बर 2008  
 01084, निरुपमा देवदत्ता कोपिकर, ईएमई, 17 सितम्बर 2008  
 01085, ममता गुप्ता, सिग्नल्स, 17 सितम्बर 2008  
 01088, अपर्णा अय्यर, सिग्नल्स, 17 सितम्बर 2008  
 01092, पूजा रौतेला, ईएमई, 17 सितम्बर 2008  
 01095, रुचि, सिग्नल्स, 17 सितम्बर 2008  
 01098, भेंडवाडे मेघना ब्रह्माकांत, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2008  
 01100, मोना, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2008  
 01105, कौसिक्या शबिका रमेश, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2008  
 01113, लोनी श्रीवारस्तव, सिग्नल्स, 17 सितम्बर 2008  
 01127, मनमीत कौर, ईएमई, 17 सितम्बर 2008  
 01128, शिल्पी खनका, सिग्नल्स, 17 सितम्बर 2008  
 01130, दिव्या नायर, ईएमई, 17 सितम्बर 2008  
 01135, चौहान मेघना दीपक, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2008  
 01137, फियोरा फ्रेड्रिक लाल, इंजीनियर्स, 17 सितम्बर 2008  
 00795, शंफाली, एएससी  
 00798, शैफाली तरनाच, एओसी  
 00801, बन्दिता बच्चावत, इंटर  
 00811, प्रबामिनी साहू, इंटर  
 00812, भावना शर्मा, एएससी  
 00820, मन्जू शर्मा, एएससी  
 00827, स्मिता अहुजा, इंटर  
 00828, चवन निता हनुमंत, एएससी  
 00833, कोमल रेखा, इंटर

-- 06 सितम्बर 2008

जसवन्त सिंह  
 संयुक्त निदेशक  
 एमएस-8सी

सेना शाखा

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

अशवनी के पाण्डे (एमआर-08603एल), एएमसी, 11 अगस्त 2008

बालेन्दू प्रकाश मनी त्रिपाठी (एमआर-08450एम), एएमसी, 31 अगस्त 2007

बी एस राठौर

मेजर जनरल

अपर महानिदेशक स से चि से (मा स)

आर्मी शाखा

सं. 201, दिनांक 17 मार्च 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नर्सिंग अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष दर्शाई गई तिथियों से पदोन्नतियां प्रदान करते हैं :--

मिलिट्री नर्सिंग सेवा

स्थायी कमीशन

लेफ्टिनेंट से कैप्टन

पद और नाम, व्यक्तिगत संख्या तथा पदोन्नति की तारीख

कैप्टन सरीता राजपूत (एनआर-21167एक्स), 15 जुलाई 2007

कैप्टन जे अनु जोस (एनआर-21168ए), 15 जुलाई 2007

कैप्टन नीलम महार (एनआर-21169एच), 15 जुलाई 2007

कैप्टन रौली पी थॉमस (एनआर-21170एक्स), 15 जुलाई 2007

कैप्टन पुष्पा जोशी (एनआर-21171ए), 15 जुलाई 2007

कैप्टन सोमा एम नायर (एनआर-21172एच), 15 जुलाई 2007

कैप्टन अन्नु गहरवार (एनआर-21173एल), 15 जुलाई 2007

कैप्टन एम रोजमेरी जाऊ (एनआर-21174एन), 15 जुलाई 2007

कैप्टन सीमा के सिंह (एनआर-21175डब्ल्यू), 15 जुलाई 2007

कैप्टन साधना कुमारी (एनआर-21176वाई), 15 जुलाई 2007

कैप्टन स्मिता एस नायर (एनआर-21177एफ), 15 जुलाई 2007

कैप्टन कृष्णकला पी आर (एनआर-21178के), 15 जुलाई 2007

कैप्टन भावना कँवर (एनआर-21180एफ), 15 जुलाई 2007

कैप्टन बी सेलिन जॉय फेमला (एनआर-21183पी), 15 जुलाई 2007

कैप्टन शिल्पा सेन गुप्ता (एनआर-21184एक्स), 15 जुलाई 2007

कैप्टन एम जी राघोत्सन (एनआर-21186एच), 15 जुलाई 2007

कैप्टन लक्ष्मी रावत (एनआर-21187एल), 15 जुलाई 2007

कैप्टन सैशली मेरी (एनआर-21188एन), 15 जुलाई 2007

सं. 200, दिनांक 17 मार्च 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित एएमसी अधिकारियों को उनके सामने देय तिथि से पदोन्नति करते हैं :--

कैप्टन चन्द्रकला पान्डेय (एनआर-21189डब्ल्यू), 15 जुलाई 2007  
 कैप्टन सेलिना जॉन (एनआर-21190एल), 15 जुलाई 2007  
 कैप्टन सावित्री शॉ (एनआर-21191एन), 15 जुलाई 2007  
 कैप्टन रश्मि दयाल (एनआर-21192डब्ल्यू), 15 जुलाई 2007  
 कैप्टन रुमा दास (एनआर-21194एफ), 15 जुलाई 2007  
 कैप्टन नम्रता बाली (एनआर-21195के), 15 जुलाई 2007  
 कैप्टन गीता कुमारी (एनआर-21196एम), 15 जुलाई 2007  
 कैप्टन शीजा राजन (एनआर-21197पी), 15 जुलाई 2007  
 कैप्टन आशाकिरण वी (एनआर-21198एक्स), 15 जुलाई 2007  
 कैप्टन सपना बालिया (एनआर-21181के), 15 जुलाई 2007  
 कैप्टन शिजी चाको (एनआर-21185ए), 15 जुलाई 2007  
 कैप्टन मोनिका बक्शी (एनआर-21220एक्स), 01 जुलाई 2007  
 कैप्टन अर्चना (एनआर-21221ए), 01 जुलाई 2007  
 कैप्टन सुतापा गोस्वामी (एनआर-21222एच), 01 जुलाई 2007  
 कैप्टन शर्मिष्ठा पांडा (एनआर-21223एल), 01 जुलाई 2007  
 कैप्टन शाल्वति बर्मन (एनआर-21224एन), 01 जुलाई 2007  
 कैप्टन सुनीता (एनआर-21225डब्ल्यू), 01 जुलाई 2007  
 कैप्टन सुरेखा रंजन (एनआर-21226वाई), 01 जुलाई 2007  
 कैप्टन स्मिता थॉमस (एनआर-21228के), 01 जुलाई 2007  
 कैप्टन कुमुद डोगरा (एनआर-21229एम), 01 जुलाई 2007  
 कैप्टन रंधावा (एनआर-21230एफ), 01 जुलाई 2007  
 कैप्टन सिजी टाइटस (एनआर-21231के), 01 जुलाई 2007  
 कैप्टन लिशी सी ए (एनआर-21232एम), 01 जुलाई 2007  
 कैप्टन रितु सैमुअल (एनआर-21233पी), 01 जुलाई 2007  
 कैप्टन टी शीला रामचन्द्रन (एनआर-21234एक्स), 01 जुलाई 2007  
 कैप्टन जमालो बानो (एनआर-21235ए), 01 जुलाई 2007  
 कैप्टन सितारामानी चन्द्रिका (एनआर-21236एच), 01 जुलाई 2007  
 कैप्टन शीला सैमुअल (एनआर-21237एल), 01 जुलाई 2007  
 कैप्टन ज्योति (एनआर-21238एन), 01 जुलाई 2007  
 कैप्टन पूनम नेगी (एनआर-21239डब्ल्यू), 01 जुलाई 2007  
 कैप्टन अर्चना कुशवाहा (एनआर-21240एल), 01 जुलाई 2007  
 कैप्टन इन्दिरा दास (एनआर-21241एन), 01 जुलाई 2007

टी पदमिनी

मेजर जनरल

अतिरिक्त महानिदेशिका एमएनएस

सेना शाखा

सं. 202, दिनांक 18 मार्च 2009--राष्ट्रपति निम्नलिखित पदाधिकारियों को सहर्ष पदोन्नत करते हैं :--

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

द्वितीय लेफ्टि. से लेफ्टि.

आईसी सं., नाम, आर्म तथा कप्तान दिनांक से

54241 संजय शर्मा, इंजीनियर्स, 12 दिसम्बर 1995

जसवन्त सिंह

संयुक्त निदेशक

एम एस-8सी

थलसेना विभाग

सं. 203, दिनांक 18 मार्च 2009--राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :--

नियमित सेना

सेना शारीरिक प्रशिक्षण कोर तथा पदोन्नति दिनांक

पेड कार्यकारी सूबेदार मेजर बलवन्त सिंह (जेसी-826093वाई), 01 सितम्बर 2008

पेड कार्यकारी सूबेदार मेजर सकपाल रणजीत कुमार गुणाजी (जेसी-826096एम), 01 दिसम्बर 2008

सीएचएम एस गोपीनाथ (सं. 2589118एच जेसी-826203एच), 01 मई 2008

बीएचएम बलराम श्रेष्ठ (सं. 5751314एल अब जेसी-826204एल), 02 जून 2008/01 जून 2008 \*

बीएचएम कुलंगे बबन आनंदा (सं. 2781457एक्स अब जेसी-826205एन), 01 जुलाई 2008

बीएचएम छबी लाल प्रधान (सं. 5751292एक्स अब जेसी-826206डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008

बीएचएम अमर बहादुर गुरूंग (सं. 5449431वाई अब जेसी-826207वाई), 21 अक्टूबर 2008/01 अक्टूबर 2008 \*

बीएचएम बने सिंह (सं. 29859754वाई अब जेसी-826208एफ), 01 दिसम्बर 2008

बीएचएम उदाले पांडुरंग सखाराम (सं. 1086643पी अब जेसी-826209के), 15 दिसम्बर 2008/01 दिसम्बर 2008 \*

बीएचएम नरेश सिंह (सं. 2985922ए अब जेसी-826210वाई), 01 दिसम्बर 2008

\*(वरिष्ठता दिनांक)

प्रीतपाल सिंह

प्रवर सचिव

सं. 204, दिनांक 18 मार्च 2009—राष्ट्रपति, निम्नलिखित पदोन्नतियां करते हैं :-

**नियमित सेना**

**इन्फैन्ट्री**

**मैकनाइज्ड इन्फैन्ट्री रेजिमेंट**

**सूबेदार (लिपिक) के रैंक में**

नायब सूबेदार (लिपिक) जजाती किशोर मोहणपत्रा (जेसी-420000पी), 01 अक्टूबर 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) करतार सिंह (जेसी-420135डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार (लिपिक) प्रिया वृत्त आर्या (जेसी-420232एन), 01 नवम्बर 2008

**नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में**

हवलदार (लिपिक) सतबीर (जेसी-14912451वाई अब जेसी-421091डब्ल्यू), 10 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार (लिपिक) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाती है)

हवलदार (लिपिक) रणधीर सिंह (जेसी-14912743एफ अब जेसी-421092वाई), 01 नवम्बर 2008

**नायब सूबेदार (धर्म शिक्षक) के रैंक में**

विवेका सी (जेसी-421007एल), 06 सितम्बर 2008

**क्वचित कोर**

**स्थाई रिसालदार के रैंक में**

नायब रिसालदार राम सिंह शेखावत (जेसी-240249वाई), 01 फरवरी 2007

नायब रिसालदार लाखन सिंह (जेसी-240374एच), 10 फरवरी 2007 \*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बलवान सिंह (जेसी-240475डब्ल्यू), 01 फरवरी 2007

नायब रिसालदार कर्मबीर (जेसी-240966एम), 27 फरवरी 2007 \*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुरजीत सिंह चौहान (जेसी-240208पी), 02 मार्च 2007

नायब रिसालदार गोपाल कलिट (जेसी-240222एफ), 02 मार्च 2007 \*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार लाला राम (जेसी-240457एन), 04 फरवरी 2007 \*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सिवादेथान एम (जेसी-238993एक्स), 01 फरवरी 2007

नायब रिसालदार एम राधाकृष्णन (जेसी-240477एफ), 01 फरवरी 2007

नायब रिसालदार साहिब सिंह (जेसी-241051एम), 01 फरवरी 2007

नायब रिसालदार मोहन राम खिलेडी (जेसी-240125के), 03 फरवरी 2007 \*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार महावीर (जेसी-240635एल), 03 फरवरी 2007 \*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार ईश्वरी प्रसाद (जेसी-240120एल), 01 फरवरी 2007

नायब रिसालदार सुबह सिंह जाट (जेसी-240709पी), 01 फरवरी 2007

नायब रिसालदार जसवन्त सिंह (जेसी-240282डब्ल्यू), 01 फरवरी 2007

नायब रिसालदार नीर सिंह (जेसी-240242पी), 06 फरवरी 2007 \*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार चन्देगी राम (जेसी-241123एल), 06 फरवरी 2007 \*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार विनोद कुमार सेन (जेसी-239778वाई), 20 फरवरी 2007 \*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 03 फरवरी 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राज किशोर सामंत (जेसी-240041डब्ल्यू), 04 फरवरी 2007

नायब रिसालदार गौतम साह (जेसी-240797डब्ल्यू), 14 फरवरी 2007 \*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार बालक सिंह (जेसी-240230ए), 02 मार्च 2007 \*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है)



नायब रिसालदार भास्कर चन्द्र पंडित (जेसी-240239पी), 01 मार्च 2007

नायब रिसालदार अंग्रेज लाल (जेसी-240367एम), 01 मार्च 2007

नायब रिसालदार नरेन्द्र पाल सिंह (जेसी-240479एम), 01 मार्च 2007

नायब रिसालदार राम दयाल यादव (जेसी-240586एन), 01 मार्च 2007

नायब रिसालदार गुरमीत सिंह (जेसी-240645पी), 03 मार्च 2007

नायब रिसालदार जोगिन्दर सिंह (जेसी-240738के), 01 मार्च 2007

नायब रिसालदार विशम्बर सिंह चिब (जेसी-240911एच), 07 मार्च 2007\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सन्तोष कुमार (जेसी-241105एच), 01 मार्च 2007

नायब रिसालदार हनमण्णा हक्कलवार (जेसी-240151एल), 02 अप्रैल 2007

नायब रिसालदार सेवक सिंह (जेसी-241052पी), 19 मार्च 2007\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार हरि किशन सिंह चौहान (जेसी-239859वाई), 01 मार्च 2007

नायब रिसालदार राम कुमार सिंह (जेसी-239480पी), 03 अप्रैल 2007\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार धन सिंह (जेसी-239796एफ), 01 अप्रैल 2007

नायब रिसालदार सज्जन सिंह सांगवान (जेसी-240488एन), 01 अप्रैल 2007

नायब रिसालदार पांडियान के (जेसी-238709डब्ल्यू), 01 अप्रैल 2007

नायब रिसालदार जगदीश सिंह पूनिया (जेसी-240811एक्स), 01 अप्रैल 2007

नायब रिसालदार बलबीर सिंह (जेसी-239568वाई), 06 अप्रैल 2007\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार निरवेल सिंह (जेसी-240515एम), 14 अप्रैल 2007\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार कृष्णा प्रसाद (जेसी-239993के), 19 अप्रैल 2007\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जयन्ता कुमार डेका (जेसी-240670एन), 18 अप्रैल 2007\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राज करन सिंह (जेसी-240402के), 17 अप्रैल 2007\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुखदेव सिंह (जेसी-240406ए), 03 अप्रैल 2007\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार देविन्द्रजीत सिंह (जेसी-240169एन), 05 अप्रैल 2007\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार जोगराज चौधरी (जेसी-240611एफ), 01 अप्रैल 2007

नायब रिसालदार अमरीक सिंह (जेसी-240071एन), 19 अप्रैल 2007\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार चावरे गिरिधर तुलसी राम (जेसी-240211पी), 01 अप्रैल 2007

नायब रिसालदार मेवा राम (जेसी-240945डब्ल्यू), 17 अप्रैल 2007\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 दिसम्बर 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रनवीर सिंह (जेसी-240946वाई), 27 अप्रैल 2007\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 दिसम्बर 2006 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राम बरन बघेल (जेसी-240042वाई), 29 अप्रैल 2007\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार सुभाष चन्द्र जेना (जेसी-239627ए), 01 मई 2007

नायब रिसालदार एम दुराई राज (जेसी-240471ए), 01 मई 2007

नायब रिसालदार युद्धवीर सिंह (जेसी-240389एल), 03 मई 2007\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार मुन्ना लाल (जेसी-240509वाई), 16 मई 2007\*

\*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार राकेश कुमार (जेसी-240814एल), 01 मई 2007  
 नायब रिसालदार भागीरथ शर्मा (जेसी-240815एन), 13 मई 2007 \*  
 \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)  
 नायब रिसालदार भिमकर बालासो बालू (जेसी-240801एन), 01 मई 2007  
 नायब रिसालदार नरिन्दर सिंह (जेसी-240760एफ), 02 मई 2007 \*  
 \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)  
 नायब रिसालदार गणेश ब्रह्मादुर थापा (जेसी-240060एफ), 01 मई 2007  
 नायब रिसालदार प्रेम चन्द्र (जेसी-240619एन), 01 मई 2007  
 नायब रिसालदार विजयन वो (जेसी-240408एल), 04 मई 2007 \*  
 \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)  
 नायब रिसालदार टॉकू मकर (जेसी-240198डब्ल्यू), 07 मई 2007 \*  
 \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)  
 नायब रिसालदार राधेश्याम मिह (जेसी-240396एफ), 13 जून 2007 \*  
 \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)  
 नायब रिसालदार मेथी अजय कुमार ईश्वर दास (जेसी-239445एम), 07 मार्च 2007 \*  
 \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है)  
 नायब रिसालदार अशोक कुमार (जेसी-240401एफ), 09 मार्च 2007 \*  
 \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है)  
 नायब रिसालदार जगदाहो नानाजी दत्त (जेसी-240524एन), 25 अक्टूबर 2007  
 नायब रिसालदार अशोक कुमार (जेसी-240794एच), 01 मई 2007  
 नायब रिसालदार जमश्याम सिंह (जेसी-240816डब्ल्यू), 19 मई 2007 \*  
 \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)  
 नायब रिसालदार तेज राम हरिजन (जेसी-239479ए), 12 मई 2007 \*  
 \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)  
 नायब रिसालदार नारायण पिल्लई जी (जेसी-240474एन), 29 मई 2007 \*  
 \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)

नायब रिसालदार रघुवीर सिंह (जेसी-240043एफ), 23 मई 2007 \*  
 \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 09 मई 2007 से दी जाती है)  
 नायब रिसालदार पवन कुमार (जेसी-241264ए), 02 जुलाई 2007 \*  
 \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2007 से दी जाती है)  
 नायब रिसालदार प्रकाश कट्टी (जेसी-240070एल), 22 जून 2007 \*  
 \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)  
 नायब रिसालदार राम सिंह पाल (जेसी-240822के), 04 जुलाई 2007 \*  
 \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2007 से दी जाती है)  
 नायब रिसालदार सुबीर कुमार मजूमदेर (जेसी-240243एक्स), 18 जून 2007 \*  
 \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)  
 नायब रिसालदार महा देवन जे (जेसी-240167डब्ल्यू), 19 जून 2007 \*  
 \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)  
 नायब रिसालदार निमई चन्द मन्डल (जेसी-239693एच), 25 जून 2007 \*  
 \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)  
 नायब रिसालदार मखन लाल (जेसी-241268डब्ल्यू), 29 जून 2007 \*  
 \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2007 से दी जाती है)  
 नायब रिसालदार गुरमेज सिंह (जेसी-241095के), 16 जून 2007 \*  
 \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 मई 2007 से दी जाती है)  
 नायब रिसालदार आर सक्कारा थलवार (जेसी-240843पी), 13 जून 2007 \*  
 \*(रिसालदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 मई 2007 से दी जाती है)

जे राय चौधरी  
 अवर सचिव

## थल सेना विभाग

सं. 205, दिनांक 18 मार्च 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियाँ/पदोन्नतियाँ करते हैं :--

## नियमित सेना

## सेना वायु रक्षा कोर

## नायब सूबेदार के पद में

आरएचएम सिवाकुमारन के (सं. 15761601ए अब जेसी-300414एल), 16 जून 2008/14 मई 2008)×

आरएचएम राजबीर सिंह भदोरिया (सं. 14401529डब्ल्यू अब जेसी-300415एन), 01 जुलाई 2008

हवलदार विरेंद्र सिंह (सं. 15105869एन अब जेसी-300416डब्ल्यू), 01 जुलाई 2008

हवलदार जनार्दन पांडे (सं. 14497821ए अब जेसी-300417वाई), 01 जुलाई 2008

हवलदार महेंद्र पाल सिंह (सं. 15102695एन अब जेसी-300418एफ), 01 जुलाई 2008

आरएचएम जया प्रकाश (सं. 15763341वाई अब जेसी-300419के), 08 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008×

आरएचएम बाघ राजेंद्र रतन (सं. 14499789पी अब जेसी-300420वाई), 01 मई 2008/21 फरवरी 2008×

हवलदार लक्ष्मींदर देवनाथ (सं. 14385495एफ अब जेसी-300421एफ), 01 अप्रैल 2008

बीएचएम पूरन चंद (सं. 14399228एल अब जेसी-300422के), 03 मई 2008/01 अप्रैल 2008×

बीएचएम विजय सिंह (सं. 14394958एम अब जेसी-300423एम), 16 जून 2008/01 अप्रैल 2008×

हवलदार राजेंद्र कुमार (सं. 14391061एक्स अब जेसी-300424पी), 02 मई 2008/27 अप्रैल 2008×

बीएचएम अमिलाल सैनी (सं. 14380115एन अब जेसी-300425एक्स), 01 मई 2008

आरएचएम राजेश कुमार (सं. 15104260के अब जेसी-300426ए), 01 मई 2008

हवलदार शाम लाल (सं. 14381979के अब जेसी-300427एच), 15 मई 2008/04 मई 2008×

बीएचएम अनिरुध गुप्ता (सं. 14380092एल अब जेसी-300428एल), 07 जून 2008/13 मई 2008×

हवलदार लाल सिंह गुरुंग (सं. 14387035वाई अब जेसी-300429एन), 31 मई 2008/16 मई 2008×

हवलदार अवतार सिंह ठाकुर (सं. 14367352वाई अब जेसी-300430एच), 01 जून 2008

बीएचएम नाम नारायण सिंह (सं. 14382474ए अब जेसी-300431एल), 01 जून 2008

बीएच एम ससी कराबीलील (सं. 14381061के अब जेसी-300432एन), 01 जून 2008

हवलदार राकेश कुमार शर्मा (सं. 14406228डब्ल्यू अब जेसी-300433डब्ल्यू), 01 जून 2006

बीएचएम शेर सिंह (सं. 14390870एल अब जेसी-300434वाई), 02 जून 2008/01 जून 2008×

बीएचएम एम वेंगाटेंसन (सं. 14377087एफ अब जेसी-300435एफ), 02 जून 2008/01 जून 2008×

हवलदार क्रिशन कुमार (सं. 14394676एन अब जेसी-300436के), 02 जून 2008/01 जून 2008×

हवलदार करतार सिंह (सं. 14378547के अब जेसी-300437एम), 18 जून 2008/01 जून 2008×

हवलदार सुखविंदर सिंह (सं. 14381093एम अब जेसी-300438पी), 21 जून 2008/02 जून 2008×

बीएचएम विनोद कुमार शुक्ला (सं. 14382121ए अब जेसी-300439एक्स), 21 जून 2008/02 जून 2008×

आरएचएम खादिम हुसैन (सं. 14375054एक्स अब जेसी-300440एम), 01 जुलाई 2008

बीएचएम जाधव अंकुशराव गनपती (सं. 14376886एल अब जेसी-300441पी), 01 जुलाई 2008

हवलदार जोय पी के (सं. 15104857एम अब जेसी-300442एक्स), 01 जुलाई 2008

हवलदार भातादिन (सं. 15101838डब्ल्यू अब जेसी-300443ए), 01 जुलाई 2008

बीएचएम सुशील कुमार (सं. 14386933एल अब जेसी-300444एच), 01 जुलाई 2008

हवलदार एन पोन्नु स्वामी (सं. 14383475पी अब जेसी-300445एल), 01 जुलाई 2008

हवलदार सिमरथा राम (सं. 14384001ए अब जेसी-300446एन), 01 जुलाई 2008

आरएचएम संथाराव अम्पोलु (सं. 15764833के अब जेसी-300447डब्ल्यू), 08 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008×

आरएचएम एस राजेश कुमार (सं. 15762053ए अब जेसी-300448वाई), 05 जुलाई 2008/19 जून 2008×

आरएचएम नाना बाबू दन्ता (सं. 15764438डब्ल्यू अब जेसी-300449एफ), 12 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008×

आरएचएम जयपाल सिंह (सं. 15113797के अब जेसी-300450डब्ल्यू), 03 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008×

हवलदार राजेंद्र नारायण राउत (सं. 14390628डब्ल्यू अब जेसी-300451वाई), 18 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008\*

हवलदार विनोद कुमार (सं. 14389124डब्ल्यू अब जेसी-300452एफ), 01 अगस्त 2008

हवलदार रोशन लाल (सं. 15103647ए अब जेसी-300453के), 01 अगस्त 2008

हवलदार जमवीर सिंह (सं. 15103810पी अब जेसी-300454एम), 01 अगस्त 2008

आरएचएम ईशाम सिंह (सं. 15761932पी अब जेसी-300455पी), 10 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008\*

आरएचएम शाजी के वी (सं. 15763651के अब जेसी-300456एक्स), 08 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008\*

हवलदार काकडे सावताराम हनुमंत (सं. 15105178एफ अब जेसी-300457ए), 01 अगस्त 2008

× (पदोन्नति के लिए ज्येष्ठता)

तोपखाना रेजिमेंट

नायब सूबेदार के पद में

हवलदार ओम प्रकाश पाण्डेय (सं. 14488463वाई अब जेसी-272353ए), 02 अक्टूबर 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार सत्य भान (सं. 15105598एफ अब जेसी-272354एच), 30 सितम्बर 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार अरुल देवदोस ए (सं. 15106464पी अब जेसी-272355एल), 07 अक्टूबर 2008/02 अगस्त 2008 \*

हवलदार शिवधीर कुमार (सं. 15104417वाई अब जेसी-272356एन), 20 सितम्बर 2008/21 अगस्त 2008 \*

हवलदार जसविन्दर सिंह (सं. 15111546एफ अब जेसी-272357डब्ल्यू), 27 सितम्बर 2008/22 अगस्त 2008 \*

हवलदार पाना राम (सं. 14384998ए अब जेसी-272358वाई), 27 सितम्बर 2008/22 अगस्त 2008 \*

हवलदार विजय बहादुर सिंह (सं. 14381103एल अब जेसी-272359एफ), 28 सितम्बर 2008/25 अगस्त 2008 \*

हवलदार शिव राज सिंह नागर (सं. 15100135एच अब जेसी-272360डब्ल्यू), 29 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

हवलदार मनोज कुमार (सं. 15102311एन अब जेसी-272361वाई), 23 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

हवलदार गणेश कुमार (सं. 14399908एल अब जेसी-272362एफ), 29 सितम्बर 2008/13 सितम्बर 2008 \*

हवलदार पुन चन्द्र दास (सं. 14389591एन अब जेसी-272363के), 29 सितम्बर 2008/13 सितम्बर 2008 \*

हवलदार मालाप्पा यारागुडडी (सं. 14384449ए अब जेसी-272364एम), 29 सितम्बर 2008/18 सितम्बर 2008 \*

हवलदार राकेश कुमार (सं. 14394702के अब जेसी-272365पी), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार हरफुल सिंह (सं. 14499200ए अब जेसी-272366एक्स), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार प्रेम सिंह (सं. 15111254वाई अब जेसी-272367ए), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार राम कुमार सिंह (सं. 15111573एल अब जेसी-272368एच), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार जसवीर सिंह (सं. 15101823एन अब जेसी-272369एल), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार लिंगा मुर्ती पेनडेम (सं. 14408300ए अब जेसी-272370ए), 20 सितम्बर 2008/01 जुलाई 2008 \*

हवलदार जगना पारी नायडू (सं. 14395128एच अब जेसी-272371एच), 06 अगस्त 2008/18 जुलाई 2008 \*

हवलदार महेन्द्र सिंह यादव (सं. 15101159वाई अब जेसी-272372एल), 08 अगस्त 2008/27 जुलाई 2008 \*

हवलदार बीर बहादुर सिंह (सं. 14389680एम अब जेसी-272373एन), 20 सितम्बर 2008/31 जुलाई 2008 \*

हवलदार अशोक कुमार सिंह (सं. 14383467डब्ल्यू अब जेसी-272374डब्ल्यू), 22 सितम्बर 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार प्रदीप कुमार (सं. 14404877एच अब जेसी-272375वाई), 16 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार शंभू कुमार (सं. 14392521ए अब जेसी-272376एफ), 09 सितम्बर 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार अशोक कुमार पुर्ती (सं. 14497342वाई अब जेसी-272377के), 22 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार ओंकार सिंह (सं. 14387027ए अब जेसी-272378एम), 15 अगस्त 2008/02 अगस्त 2008 \*

हवलदार राजेश कुमार (सं. 15119130वाई अब जेसी-272379पी), 15 अगस्त 2008/02 अगस्त 2008 \*

हवलदार रत्न सिंह (सं. 14401736एच अब जेसी-272380के), 15 सितम्बर 2008/02 अगस्त 2008 \*

हवलदार करमवीर (सं. 14498794एन अब जेसी-272381एम), 20 सितम्बर 2008/14 अगस्त 2008 \*

हवलदार गौतमा कुमार मोहन्ती (सं. 15105885एल अब जेसी-272382पी), 20 सितम्बर 2008/22 अगस्त 2008 \*

हवलदार श्री कुमार डी (सं. 14495458डब्ल्यू अब जेसी-272383एक्स), 10 अक्टूबर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

हवलदार पवन कुमार (सं. 15109184एम अब जेसी-272384ए),  
16 अक्टूबर 2008/15 अक्टूबर 2008\*

\*(ज्येष्ठता प्राप्त)

सेना सेवा कोर

नायब सूबेदार (एसकेटी)

हवलदार रघु कुमार सी के (सं. 6384994वाई अब जेसी-665322एल),  
01 मई 2008

हवलदार विनय कुमार (सं. 6386463ए अब जेसी-665304एच),  
17 अप्रैल 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 19 फरवरी 2008 से दी जाएगी)

हवलदार संजीव सिंह (सं. 6387108पी अब जेसी-665337एन),  
01 मई 2008

हवलदार सुरेश कुमार कर्मा (सं. 6387238एक्स अब जेसी-  
665306एन), 10 अप्रैल 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

हवलदार सुबोध बनर्जी (सं. 6387287ए अब जेसी-665230वाई),  
01 अप्रैल 2008

हवलदार बिकाश चंद्र राय (सं. 6387307एच अब जेसी-665309एफ),  
01 मई 2008

हवलदार प्रदीप कुमार त्रिपाठी (सं. 6387356एल अब जेसी-  
665313के), 01 मई 2008

हवलदार जाधव संतराम राम राव (सं. 6387398एक्स अब जेसी-  
665310डब्ल्यू), 01 मई 2008

हवलदार व्कोते संतोष बबन राव (सं. 6387439डब्ल्यू अब जेसी-  
665323एन), 01 मई 2008

हवलदार के भाउ साहेब किसन (सं. 6387452ए अब जेसी-  
665235एक्स), 22 अप्रैल 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

हवलदार लावाते एक नाथ शंकर (सं. 6387460वाई अब  
जेसी-665305एल), 21 अप्रैल 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

हवलदार नंद किशोर शर्मा (सं. 6387476के अब जेसी-665307डब्ल्यू),  
01 मई 2008

हवलदार धरम पाल सिंह (सं. 6387539एफ अब जेसी-665311वाई),  
01 मई 2008

हवलदार यशपाल सिंह (सं. 6387644एक्स अब जेसी-665291एफ),  
01 अप्रैल 2008

हवलदार रामानंद मंडल (सं. 6387775एच अब जेसी-665233एम),  
09 अप्रैल 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

हवलदार मुकेश रंजन (सं. 6387841ए अब जेसी-665308वाई),  
01 मई 2008

हवलदार मनोहर लाल (सं. 6387907एल अब जेसी-665312एफ),  
01 मई 2008

हवलदार सुरेश कुमार (सं. 6386907वाई अब जेसी-665166एम),  
08 मार्च 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 मार्च 2008 से दी जाएगी)

हवलदार भोलानाथ मुखोपाध्याय (सं. 6387963के अब जेसी-  
665324डब्ल्यू), 07 मई 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 मई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार जितेंद्र नाथ राय (सं. 6386462एक्स अब जेसी-665329पी),  
02 जून 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जून 2008 से दी जाएगी)

हवलदार देवराज त्रिपाठी (सं. 6387781डब्ल्यू अब जेसी-  
665326एफ), 01 जून 2008

हवलदार मेता श्याम कुमार (सं. 6384242पी अब जेसी-665330के),  
01 जून 2008

हवलदार सुब्रामनियन पी (सं. 6385152ए अब जेसी-665325वाई),  
01 जून 2008

हवलदार विद्याधर (सं. 6387648एन अब जेसी-665338डब्ल्यू),  
01 जून 2008

हवलदार अटल दुखि श्याम (सं. 6388047पी अब जेसी-665328एम),  
07 जून 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जून 2008 से दी जाएगी)

हवलदार बिजय कुमार प्रधान (सं. 6388045के अब जेसी-665327के),  
02 जून 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 जून 2008 से दी जाएगी)

हवलदार गुप्ता सत्य नारायण सुंदर (सं. 6387932के अब  
जेसी-665398एल), 01 अगस्त 2008

हवलदार धर्मेन्द्र कुमार (सं. 6387513एम अब जेसी-665440वाई),  
03 जुलाई 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी)

हवलदार साहेब बालाजी मणिक राव (सं. 6387401एम अब जेसी-  
665439के), 02 जुलाई 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 10 मई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार शहिर एम (सं. 6384993डब्ल्यू अब जेसी-665393एम),  
01 जुलाई 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 08 मार्च 2008 से दी जाएगी)

हवलदार फुलतरिया मधुलाल (सं. 6387467एच अब जेसी-  
665400एक्स), 01 अगस्त 2008

हवलदार त्रिलोक चंद (सं. 6385121ए अब जेसी-665405डब्ल्यू),  
01 अगस्त 2008

हवलदार साजी टी एन (सं. 6387604डब्ल्यू अब जेसी-665397एच),  
01 अगस्त 2008

हवलदार तजिंदरजीत सिंह (सं. 6387869ए अब जेसी-665396ए),  
01 अगस्त 2008

हवलदार परमां राम (सं. 6388261एक्स अब जेसी-665407एफ),  
01 अगस्त 2008

हवलदार मनफूल सिंह (सं. 6381356पी अब जेसी-665510एम),  
06 अगस्त 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 17 मई 2008 से दी जाएगी)

हवलदार सुखबीर (सं. 6380873ए अब जेसी-665453डब्ल्यू),  
21 जुलाई 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों को प्रभावित किए बिना  
वरिष्ठता 08 मार्च 2008 से दी जाएगी)

हवलदार करंडे सदा शिव (सं. 6387936ए अब जेसी-665454वाई),  
01 अगस्त 2008

हवलदार अब्दुस सलान (सं. 6387964एम अब जेसी-665455एफ),  
01 अगस्त 2008

हवलदार शाम लाल (सं. 6387690एम अब जेसी-665408के),  
01 अगस्त 2008

हवलदार जॉनसन ओ वाई (सं. 6385369के अब जेसी-665399एन),  
01 अगस्त 2008

हवलदार अर्गंदे मारुती कुम्भकर्ण (सं. 6387942एन अब जेसी-  
665406वाई), 01 अगस्त 2008

हवलदार अखिलेश चंद्रा (सं. 6388024एन अब जेसी-665401ए),  
01 अगस्त 2008

हवलदार गंगाधर स्वाई (सं. 6388298वाई अब जेसी-665404एन),  
01 अगस्त 2008

हवलदार मोहम्मद पर्वेज़ (सं. 6387830एन अब जेसी-665394पी),  
01 अगस्त 2008

हवलदार लेखा राम (सं. 6388266डब्ल्यू अब जेसी-665403एल),  
01 अगस्त 2008

हवलदार अनिल कुमार (सं. 6387834के अब जेसी-665402एच),  
01 अगस्त 2008

हवलदार प्रबोध कुमार नायक (सं. 6388311एक्स अब जेसी-  
665461पी), 01 सितम्बर 2008

हवलदार कदम शंकर आनंद (सं. 6388372पी अब जेसी-665463ए),  
01 सितम्बर 2008

हवलदार राजीव चरण (सं. 6387494एम अब जेसी-665464एच),  
01 सितम्बर 2008

हवलदार संजय कुमार सिंह (सं. 6387125पी अब जेसी-  
665395एक्स), 01 अगस्त 2008

हवलदार मुल्तान सिंह (सं. 6388267वाई अब जेसी-665465एल),  
01 सितम्बर 2008

हवलदार प्रशांत कुमार दास (सं. 6388319के अब जेसी-  
665462एक्स), 01 सितम्बर 2008

#### तोपखाना रेजिमेन्ट

#### सब्सटेंटिव सूबेदार (जो डी) के पद में

नायब सूबेदार मल्लीकार्जुन आर (जेसी-267538एक्स), 12 सितम्बर  
2008/16 जुलाई 2008 \*

नायब सूबेदार संधना कृष्णन एस (जेसी-267787डब्ल्यू), 19 जनवरी  
2008/01 जनवरी 2008 \*

नायब सूबेदार भोला प्रसाद मिश्रा (जेसी-268577एच), 19 जून  
2008/01 जून 2008 \*

नायब सूबेदार राम लाल (जेसी-267609एन), 09 सितम्बर 2008/  
10 जून 2008 \*

नायब सूबेदार प्रताप सिंह कुशावह (जेसी-267417डब्ल्यू), 13 सितम्बर  
2008/21 मार्च 2008 \*

नायब सूबेदार प्रभू दयाल (जेसी-267902एल), 31 मई 2008/04 मई  
2008 \*

नायब सूबेदार निराकारा साहू (जेसी-267093डब्ल्यू), 11 अगस्त  
2008/01 अप्रैल 2008 \*

नायब सूबेदार चित्तरंजन मण्डल (जेसी-268238डब्ल्यू), 13 सितम्बर  
2008/08 मई 2008 \*

नायब सूबेदार वेन्कटेशन ए बी (जेसी-267742डब्ल्यू), 20 अगस्त 2008/01 जून 2008\*

नायब सूबेदार राजन जी (जेसी-267267एल), 20 अगस्त 2008/08 मई 2008\*

नायब सूबेदार सुग्रीव सिंह यादव (जेसी-268007एम), 01 सितम्बर 2008/01 जुलाई 2008\*

नायब सूबेदार एस मारीया जोसेफ (जेसी-265940एच), 20 अगस्त 2008/28 अप्रैल 2008\*

नायब सूबेदार बासावानेप्पा मोदागी (जेसी-268639एक्स), 09 सितम्बर 2008/01 जुलाई 2008\*

नायब सूबेदार भामर सिंह जोडन (जेसी-267598एम), 01 सितम्बर 2008/21 जुलाई 2008\*

नायब सूबेदार स्वर्ण सिंह (जेसी-268285ए), 09 अगस्त 2008/01 जुलाई 2008\*

नायब सूबेदार पप्पू सिंह (जेसी-267822एन), 01 जून 2008

नायब सूबेदार प्रेमपाल सिंह (जेसी-268895एम), 28 मई 2008/01 मार्च 2008\*

नायब सूबेदार वी पलानी सामी (जेसी-267084पी), 24 अप्रैल 2008/01 फरवरी 2008\*

नायब सूबेदार बीरान्दर सिंह बिस्त (जेसी-269245एल), 01 नवम्बर 2008

नायब सूबेदार विरूपाक्सप्पा नेराबेन्वी (जेसी-269826एच), 25 सितम्बर 2008/06 अगस्त 2008\*

\*(ज्येष्ठता प्राप्त)

ए वी बागुर  
अवर सचिव

सं. 206, दिनांक 19 मार्च 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित नियुक्तियों/पदोन्नतियों करते हैं:--

नियमित सेना

विशेष सूचि

सेना आयुद्धकोर

सूबेदार मेजर धर्म गुरू (पंडित)

सूबेदार मेजर (धर्म गुरू) टी आर शंक्रियाल (जेसी-131921डब्ल्यू), 01 नवम्बर 2008\*

\*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

सूबेदार धर्म गुरू (पंडित)

पक्के सूबेदार (धर्म गुरू) मदन गोपाल पांडेय (जेसी-723804एन), 01 जुलाई 2008

पक्के सूबेदार (धर्म गुरू) यू एस शुक्ला (जेसी-724052एफ), 01 दिसम्बर 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2008 से दी जाएगी)

पक्के सूबेदार (धर्म गुरू) एस के त्रिपठी (जेसी-724056 एक्स), 01 दिसम्बर 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

पक्के सूबेदार (धर्म गुरू) राकेश (जेसी-724054एम), 01 दिसम्बर 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

पक्के सूबेदार (धर्म गुरू) जे आर शर्मा (जेसी-724053के), 04 दिसम्बर 2008\*

\*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

पक्के सूबेदार (धर्म गुरू) आर के पांडेय (जेसी-724055पी), 01 जनवरी 2009\*

नायब सूबेदार के रैंक में

हवलदार एम्युनिशन तकनीशियन विशू कुमार एन (सं. 6930883एल अब जेसी-728216के), 01 नवम्बर 2008

हवलदार एम्युनिशन तकनीशियन सुनील सी कुमार (सं. 6931234एम अब जेसी-728217एम), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार एम्युनिशन तकनीशियन पी जय कुमार (सं. 6929811पी अब जेसी-728218पी), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार एम्युनिशन तकनीशियन एन विनोद (सं. 6930893पी अब जेसी-728219एक्स), 01 नवम्बर 2008

हवलदार एम्युनिशन तकनीशियन एस के साहू (सं. 6930932एच अब जेसी-728220एम), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल टी के चट्टोपाध्या (सं. 6922978डब्ल्यू अब जेसी-728221पी), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल आर के रोडत (सं. 6923025ए अब जेसी-728222एक्स), 01 नवम्बर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल आर एन तिवारी (सं. 6922970के अब जेसी-728223ए), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल ए के घाना (सं. 6923039ए अब जेसी-728224एच), 01 नवम्बर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल राज कुमार (सं. 6922987एक्स अब जेसी-728225एल), 06 नवम्बर 2008\*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल रतन सिंह (सं. 6922915एन अब जेसी-728226एन), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल सुरेन्द्र पाल (सं. 6922919के अब जेसी-728227डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार क्लर्क जीडी आर के पांडेय (सं. 6922983एफ अब जेसी-728228वाई), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल बी सी आचार्य (सं. 6923026एच अब जेसी-728229एफ), 01 नवम्बर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल प्रमोद कुमार (सं. 6922926ए अब जेसी-728230डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल हीरा लाल (सं. 6923048एफ अब जेसी-728231वाई), 01 नवम्बर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल आर आर कुमार (सं. 6919246पी अब जेसी-728232एफ), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार क्लर्क एस प्रोवोजन बल राज सिंह (सं. 6920230डब्ल्यू अब जेसी-728233के), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल थिलकन के वां (सं. 6922439ए अब जेसी-728234एम), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल ए जे सी सिंघा (सं. 6922984के अब जेसी-728235पी), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल एन चिनसवरय्या (सं. 6923066के अब जेसी-728236एक्स), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार क्लर्क जीडी आर डी वशिष्ठ (सं. 6923072एक्स अब जेसी-728237ए), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार क्लर्क जीडी आर एन तिवारी (सं. 6923107एच अब जेसी-728238एच), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल एस के देव (सं. 6923153एक्स अब जेसी-728239एल), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार क्लर्क जी डी डब्ल्यू एस के भगत (सं. 6930080एल अब जेसी-728240ए), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल एन एस सिरोही (सं. 6922770एन अब जेसी-728241एच), 01 नवम्बर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल एल के सैकिया (सं. 6922923एम अब जेसी-728242एल), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल आर एस यादव (सं. 6923057एच अब जेसी-728243एन), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार एस के टी सिगनल गोपी चंद (सं. 6922313ए अब जेसी-728244डब्ल्यू), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार एस के टी जो एस एंड सी राजेश कुमार (सं. 6922342पी अब जेसी-728245वाई), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार एस के टी एम्युनिशन आर एन एस यादव (सं. 6920417एच अब जेसी-728246एफ), 01 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2008 से दी जाएगी)

हवलदार एस के टी एम्युनिशन धर्मवीर सिंह (सं. 6922340के अब जेसी-728247के), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार एस के टी एमटी सतीश कुमार (सं. 6922398एफ अब जेसी-728248एम), 01 नवम्बर 2008

हवलदार एस के टी एम्युनिशन टी एस बिंदु (सं. 6922455एक्स अब जेसी-728249पी), 01 नवम्बर 2008

हवलदार एस के टी एमटी रंजीत सिंह (सं. 6922407एक्स अब जेसी-728250के), 01 नवम्बर 2008

हवलदार एस के टी एमटी बलबीर सिंह (सं. 6922590एल अब जेसी-728251एम), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार एस के टी एमटी एस के अवस्थी (सं. 6922620एक्स अब जेसी-728252पी), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार एस एच टी रविन्द्र (सं. 6921189एक्स अब जेसी-728253एक्स), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार एस एच टी एस के सिंह (सं. 6920644एच अब जेसी-728254ए), 09 नवम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार एस एच टी पी सी साहू (सं. 6921168एफ अब जेसी-728255एच), 01 नवम्बर 2008

हवलदार ड्राइवर एमटी एस साहू (6922432डब्ल्यू अब जेसी-728256एल), 01 नवम्बर 2008

हवलदार ड्राइवर एमटी रनबीर सिंह (सं. 6921672एफ अब जेसी-728257एन), 04 अक्टूबर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार ड्राइवर एमटी के यू आर लुटे (सं. 6922633पी अब जेसी-728258डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार ड्राइवर स्पेशल एन बी सिंह (सं. 6922395एन अब जेसी-728259वाई), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार एसएचजीडी विजय कुमार जी (सं. 6922539एल अब जेसी-728260एन), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार एसएचजीडी जग राम (सं. 6921955एच अब जेसी-728261डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार एसएचजीडी डूंगर सिंह (सं. 6922522एक्स अब जेसी-728262वाई), 01 अक्टूबर 2008

हवलदार एसएचटी एस मुगाली (सं. 6918685एन अब जेसी-728263एफ), 01 दिसम्बर 2007



हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल सुरेन्द्र सिंह (सं. 6922417एफ अब जेसी-728264के), 01 नवम्बर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल सुमेर लाल (सं. 6918995वाई अब जेसी-728265एम), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल अनिल कुमार सी वी (सं. 6919917एन अब जेसी-728266पी), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल जोस चेरियन (सं. 6920733एफ अब जेसी-728267एक्स), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार क्लर्क जीडी पी एस दुबे (सं. 6920924डब्ल्यू अब जेसी-728268ए), 03 दिसम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल आर एस प्रसाद (सं. 6921111एच अब जेसी-728269एच), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल जी एल मीना (सं. 6921134एन अब जेसी-728270एक्स), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल ए ए मल्लिक (सं. 6923151एम अब जेसी-728271ए), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल रामेश्वर (सं. 6921361एन अब जेसी-728272एच), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल जी आर कुमार (सं. 6921466एक्स अब जेसी-728273एल), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार क्लर्क एस प्रोवीज़न वी ए राजू (सं. 6923062एन अब जेसी-728274एन), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल सरदूल सिंह (सं. 6923095वाई अब जेसी-728275डब्ल्यू), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल श्री नाथ (सं. 6923182एम अब जेसी-728276वाई), 01 जनवरी 2009

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल नेक राम (सं. 6923192डब्ल्यू अब जेसी-728277एफ), 01 जनवरी 2009

हवलदार क्लर्क जीडी एच एन राय (सं. 6923205एच अब जेसी-728278के), 01 जनवरी 2009

हवलदार क्लर्क जीडी प्रदीप कुमार एन (सं. 6923222एच अब जेसी-728279एम), 01 जनवरी 2009

हवलदार क्लर्क जीडी हरी कुमार सी आर (सं. 6923228के अब जेसी-728280एफ), 01 जनवरी 2009

हवलदार क्लर्क जीडी राजबीर सिंह (सं. 6923231के अब जेसी-728281के), 01 जनवरी 2009

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल क्रिशन कुमार (सं. 6923266ए अब जेसी-728282एम), 01 जनवरी 2009

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल जय कुमार जी (सं. 6923296एक्स अब जेसी-728283पी), 01 जनवरी 2009

हवलदार क्लर्क जीडी मनोहरन पी आर (सं. 6923301एक्स अब जेसी-728284एक्स), 01 जनवरी 2009

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल मधु आर (सं. 6923304एल अब जेसी-728285ए), 01 जनवरी 2009

हवलदार क्लर्क जीडी अजीश एस (सं. 6923311एफ अब जेसी-728286एच), 01 जनवरी 2009

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल रमेश बाबू आर (सं. 6923316ए अब जेसी-728287एल), 01 जनवरी 2009

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल राजेश बाबू जी (सं. 6923317एच अब जेसी-728288एन), 01 जनवरी 2009

हवलदार क्लर्क जीडी शम्भू प्रसाद (सं. 6923327एम अब जेसी-728289डब्ल्यू), 01 जनवरी 2009

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल सुधाकरन एन पी आर (सं. 6923336एन अब जेसी-728290एल), 01 जनवरी 2009

हवलदार क्लर्क जीडी जी के चंद्र (सं. 6923340डब्ल्यू अब जेसी-728291एन), 01 जनवरी 2009

हवलदार क्लर्क जीडी तपस गुप्ता (सं. 6923343के अब जेसी-728292डब्ल्यू), 01 जनवरी 2009

हवलदार क्लर्क जीडी एस आर प्रसाद (सं. 6923356एफ अब जेसी-728293वाई), 01 जनवरी 2009

हवलदार क्लर्क जीडी पी ओबुलेसु (सं. 6923385डब्ल्यू अब जेसी-728294एफ), 01 जनवरी 2009

हवलदार क्लर्क एस कंट्रोल शशि भूषन (सं. 6923397एल अब जेसी-728295के), 01 जनवरी 2009

हवलदार क्लर्क जीडी किशन कुमार (सं. 6923453वाई अब जेसी-728296एम), 01 जनवरी 2009

हवलदार एसकेटी वेपन राम फल (सं. 6922256के अब जेसी-728297पी), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार एसकेटी एमटी एम बी विट्टल (सं. 6922460एच अब जेसी-728298एक्स), 11 दिसम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2008 से दी जाएगी)

हवलदार एसकेटी एमटी मनवीर सिंह (सं. 6922554ए अब जेसी-728299ए), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार एसकेटी एमटी सुरेश कुमार (सं. 6922564के अब जेसी-728300के), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार एसकेटी एमटी करमवीर सिंह (सं. 6922592डब्ल्यू अब जेसी-728301एम), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार एसकेटी एमटी कुलविन्दर सिंह (सं. 6922608डब्ल्यू अब जेसी-728302पी), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार एसकेटी एमटी जवर सिंह (सं. 6922565एम अब जेसी-728303एक्स), 01 दिसम्बर 2008

हवलदार एसकेटी एमटी बी वी श्रीनिवास (सं. 6922618ए अब जेसी-728304ए), 01 जनवरी 2009

हवलदार एसकेटी एमटी आर एस शंकरन (सं. 6922619ए अब जेसी-728305ए), 01 जनवरी 2009

हवलदार एसकेटी सिग्नल राधाक्रिष्णन जी (सं. 6923201एम अब जेसी-728306ए), 01 जनवरी 2009

हवलदार एसकेटी सिग्नल ईश्वर सिंह (सं. 6923214के अब जेसी-728307एन), 01 जनवरी 2009

हवलदार एसकेटी सिग्नल क्रिशन कुमार (सं. 6923223एल अब जेसी-728308डब्ल्यू), 01 जनवरी 2009

हवलदार एसकेटी जीएस एंड सी जी आर रोल्सकी (सं. 6923226वाई अब जेसी-728309वाई), 01 जनवरी 2009

हवलदार एसकेटी सिग्नल रोहताश (सं. 6923235ए अब जेसी-728310एन), 01 जनवरी 2009

हवलदार एसकेटी सिग्नल आर एस एन यादव (सं. 6923236ए अब जेसी-728311डब्ल्यू), 01 जनवरी 2009

हवलदार एसकेटी सिग्नल वी आर एम पी अम्पलम (सं. 6923239डब्ल्यू अब जेसी-728312वाई), 07 जनवरी 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

हवलदार एसकेटी इंजिनियर विश्वनाथ एम (सं. 6923248एक्स अब जेसी-728313एफ), 01 जनवरी 2009

हवलदार एसकेटी सिग्नल जगदीश चन्द (सं. 6923250पी अब जेसी-728314के), 01 जनवरी 2009

हवलदार एसकेटी सिग्नल एच दाश (सं. 6923259के अब जेसी-728315एम), 06 जनवरी 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

हवलदार एसएचटी बिजेन्द्र मिह (सं. 6921195एल अब जेसी-728316पी), 01 जनवरी 2009

हवलदार एसएचजीडी भारत सिंह (सं. 6922223वाई अब जेसी-728317एक्स), 01 जनवरी 2009

हवलदार क्लक एस कंट्रोल आर एस त्रिपाठी (सं. 6921023डब्ल्यू अब जेसी-728318ए), 19 दिसम्बर 2008 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2008 से दी जाएगी)

हवलदार क्लक एस कंट्रोल गोपा कुमार एस (सं. 6923314पी अब जेसी-728319एच), 12 जनवरी 2009 \*

\*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2009 से दी जाएगी)

हवलदार क्लक जीडी करन सिंह (सं. 6923455के अब जेसी-728320एक्स), 01 जनवरी 2009

हवलदार एसकेटी सिग्नल एस सी सेनी (सं. 6923256डब्ल्यू अब जेसी-728321ए), 01 जनवरी 2009

हवलदार एसएच जीडी ए आर क्रिष्णन (सं. 6919595वाई अब जेसी-728322एच), 01 अक्टूबर 2008

थल सेना विभाग

(एमजीओ) ईएमई कार्मिक

राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :--

हवलदार से नायब सूबेदार एवीएफ (ईईएन) के रैंक में

रमेश कुमार (सं. 14563640एक्स अब जेसी-762986एच), 22 सितम्बर 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार एवीएफ (एएफ) के रैंक में

सीता राम (सं. 14562660वाई अब जेसी-762985ए), 20 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार कारपेंटर के रैंक में

राधे श्याम सिंह (सं. 14555884डब्ल्यू अब जेसी-762924एच), 23 अगस्त 2008/01 अक्टूबर 2006 \*

राम कुमार सिंह (सं. 14546956एन अब जेसी-762923ए), 25 अगस्त 2008/01 अक्टूबर 2006 \*

उदयबीर सिंह (सं. 14555763पी अब जेसी-762925एल), 25 अगस्त 2008/01 अक्टूबर 2006 \*

हवलदार से नायब सूबेदार (डी डब्ल्यू) के रैंक में

भैवर सिंह (सं. 14570073एच अब जेसी-762939एल), 01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

दिलीप कुमार पटेल (सं. 14575954एल अब जेसी-762937ए), 01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

हौशिला प्रसाद पान्डे (सं. 14575793एन अब जेसी-762936एक्स), 01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

मोहम्मद इकबाल हक (सं. 14549892वाई अब जेसी-762938एच), 02 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

नाज़िर खान (सं. 14575626एक्स अब जेसी-762935पी), 02 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

निर्मल सिंह (सं. 14576741के अब जेसी-762941एच), 04 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

राजेन्द्रन सी (सं. 14575530पी अब जेसी-762933के), 01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

राम बिसन यादव (सं. 8031059वाई अब जेसी-762945वाई), 06 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

साबिर अली (सं. 8030974एल अब जेसी-762934एम), 01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

सर्वेश कुमार (सं. 8030493वाई अब जेसी-762932एफ), 30 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

शेर सिंह यादव (सं. 14570127वाई अब जेसी-762771के), 01 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

सुनील कुमार (सं. 14576057एफ अब जेसी-762942एल), 01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

उज्जल कुमार बिस्वास (सं. 14576520एक्स अब जेसी-762943एन), 08 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार रिकवरी मैक के रैंक में

राम पाल शर्मा (सं. 14556333एक्स अब जेसी-762829डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (एवीएफ) के रैंक में

बाबूलाल (सं. 14607106एच अब जेसी-762987एल), 11 सितम्बर 2008/04 मई 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (आईपीएफ) के रैंक में

जयराम सिंह (सं. 14599764एक्स अब जेसी-762988एन), 23 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (ए व्हीकल) के रैंक में

बहादुर सिंह (सं. 14618040एक्स अब जेसी-762859एन), 08 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

राजीव के मेनन (सं. 14620569डब्ल्यू अब जेसी-762855एक्स), 22 सितम्बर 2008/06 जुलाई 2008 \*

संजय कुमार (सं. 14618456पी अब जेसी-762861एल), 01 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (कम्प्यूटर) के रैंक में

ए थन्डापानी (सं. 14616138एम अब जेसी-762917एम), 01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

ए प्रेम स्वरूप (सं. 14616414के अब जेसी-762918पी), 01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

दीपू सिंह (सं. 14615392के अब जेसी-762916के), 01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

जी के राजेन्द्र प्रसाद (सं. 14616805पी अब जेसी-762919एक्स), 03 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

सदानंद केसरकर (सं. 14615075एच अब जेसी-762915एफ), 26 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (इलैक्ट) के रैंक में

प्रसाद कुमार (सं. 14602359एन अब जेसी-762835के), 19 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (लाईन) के रैंक में

येवले कैलास मुरलीधर (सं. 14618196पी अब जेसी-762920एम), 26 अगस्त 2008/06 जुलाई 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार टेक (आर ओ रेडियो) के रैंक में

राजीव के रंजन (सं. 14618534एफ अब जेसी-762845एन), 01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

सुरेश कुमार (सं. 14617932डब्ल्यू अब जेसी-763084ए), 08 सितम्बर 2008/01 मई 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार वीएम (एफवी) के रैंक में

गोरक सिंह (सं. 14564045ए अब जेसी-762930डब्ल्यू), 01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

कामेश्वर गुप्ता (सं. 14562959एल अब जेसी-762092एम), 06 सितम्बर 2008/01 अगस्त 2008 \*

मोहम्मद जमालुद्दीन (सं. 14563997एन अब जेसी-762929एफ), 01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार वीएम (एमवी) के रैंक में

कृष्णा दासन पी (सं. 14547856पी अब जेसी-762926एन), 01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

रावल जसवन्त सिंह (सं. 14548202एक्स अब जेसी-762927डब्ल्यू), 03 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

\*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

हवलदार से नायब सूबेदार (कारपेंटर) के रैंक में

महेन्द्र सिंह (सं. 14557949एक्स अब जेसी-762809एच), 04 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार क्लर्क (जीडी) के रैंक में

अनिल कुमार (सं. 14592437के अब जेसी-762889एल), 01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

अरुण कुमार (सं. 14572209ए अब जेसी-762883के), 01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

बब्बन सिंह यादव (सं. 14572913डब्ल्यू अब जेसी-762884एम), 01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

बाबु दयाल (सं. 14604006एम अब जेसी-762893एन), 01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

बलवीर सिंह (सं. 14566240 डब्ल्यू अब जेसी-762804के),  
01 सितम्बर 2008/01 अगस्त 2008 \*

गणेश दत्त जोशी (सं. 14592949 डब्ल्यू अब जेसी-762890ए),  
01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

हरि शंकर पाण्डे (सं. 14591986 एक्स अब जेसी-762895वाई),  
01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

हरी सिंह (सं. 14572191पी अब जेसी-762803एफ), 01 अगस्त  
2008/01 अगस्त 2008 \*

कलम सिंह कथेट (सं. 14587999 एक्स अब जेसी-762888एच),  
01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

मदन लाल (सं. 14585867एल अब जेसी-762887ए), 01 सितम्बर  
2008/01 सितम्बर 2008 \*

मिथलेश प्रसाद (सं. 14572204एफ अब जेसी-762882एफ),  
01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

नरेश कुमार (सं. 14572198वाई अब जेसी-762881वाई), 01 सितम्बर  
2008/01 सितम्बर 2008 \*

नेमी चंद सौतम (सं. 14600887वाई अब जेसी-762891एच),  
01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

राम बिलास शर्मा (सं. 14584446 डब्ल्यू अब जेसी-762886एक्स),  
01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

संकर कुमार राय (सं. 14587802 डब्ल्यू अब जेसी-762905एक्स),  
01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

सरदार सिंह (सं. 14571583 डब्ल्यू अब जेसी-762802वाई), 01 अगस्त  
2008/01 अगस्त 2008 \*

मथीसन एन (सं. 14569775पी अब जेसी-762880 डब्ल्यू), 01 सितम्बर  
2008/01 सितम्बर 2008 \*

सत्य प्रकाश (सं. 14600965एल अब जेसी-762892एल), 01 सितम्बर  
2008/01 सितम्बर 2008 \*

शम्भु नाथ सैनी (सं. 14567988के अब जेसी-762879एफ),  
01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

शीश पाल (सं. 14571523एफ अब जेसी-762894 डब्ल्यू), 01 सितम्बर  
2008/01 सितम्बर 2008 \*

सुशील कुमार सोलन्की (सं. 14570020के अब जेसी-762793एच),  
01 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

स्वपन कुमार चक्रवर्ती (सं. 14573420एफ अब जेसी-762885पी),  
01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार (डी डब्ल्यू) के रैंक में

अशोक कुमार (सं. 14569509 डब्ल्यू अब जेसी-762768के),  
30 जुलाई 2008/01 जुलाई 2008 \*

कुलबीर सिंह (सं. 14573637एल अब जेसी-762782 डब्ल्यू),  
01 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

मनोज कुमार सिंह (सं. 14574702एम अब जेसी-762786एम),  
01 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

प्रताप सिंह (सं. 14570392पी अब जेसी-762776एच), 01 अगस्त  
2008/01 अगस्त 2008 \*

वीरेन्द्र कुमार (सं. 14573401 डब्ल्यू अब जेसी-762779 डब्ल्यू),  
01 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार (ई ई मैक) के रैंक में

श्री राम गुर्जर (सं. 14558199 डब्ल्यू अब जेसी-762824एक्स),  
23 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार इलैक्ट (एमवी) के रैंक में

देश बन्धु (सं. 14548768एल अब जेसी-762820एफ), 08 अगस्त  
2008/01 जुलाई 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार मेटल स्मिथ के रैंक में

अब्देश चन्द्र (सं. 14551300एच अब जेसी-762752वाई), 04 जुलाई  
2008/01 जून 2008 \*

कमलेश कुमार यादव (सं. 14551308पी अब जेसी-762754के),  
07 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार (रिकवरी मैक) के रैंक में

पवन कुमार सिंह (सं. 14555820एल अब जेसी-762827एल),  
19 अगस्त 2008/01 जून 2008 \*

पुर्ण कान्त फुकन (सं. 14555440एम अब जेसी-762698 डब्ल्यू),  
01 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार एसकेटी के रैंक में

बसन्त कुमार स्वैन (सं. 14549761एन अब जेसी-762813एल),  
01 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

भजन सिंह (सं. 14550704वाई अब जेसी-762876एन), 01 सितम्बर  
2008/01 सितम्बर 2008 \*

बिनोद बिहारी दास (सं. 14549785एक्स अब जेसी-762871पी),  
19 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

बिरेन्द्र सिंह (सं. 14549771एक्स अब जेसी-762814एन), 01 अगस्त  
2008/01 अगस्त 2008 \*

हेम राज (सं. 14550223एम अब जेसी-762875एल), 01 सितम्बर  
2008/01 सितम्बर 2008 \*

ईश्वर सिंह (सं. 14550878वाई अब जेसी-762877 डब्ल्यू), 01 सितम्बर  
2008/01 सितम्बर 2008 \*

मोहिन्दर सिंह (सं. 14549806एच अब जेसी-762873ए), 01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

राजेन्द्र बहादुर सिंह (सं. 14548994एच अब जेसी-762811ए), 01 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

सन्जीत सिंघा राय (सं. 14549799एक्स अब जेसी-762872एक्स), 19 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

शिव जी राम (सं. 14550143पी अब जेसी-762874एच), 01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार टीसीएम (लाईन) के रैंक में

गुलाब सिंह (सं. 14566638एल अब जेसी-762816वाई), 14 अगस्त 2008/01 जुलाई 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार टीसीएम (आरओ) के रैंक में

महेन्द्रपाल सिंह जसवाल (सं. 14565490एल अब जेसी-762828एन), 01 सितम्बर 2008/01 सितम्बर 2008 \*

बिल्सन जॉर्ज (सं. 14564518एन अब जेसी-762821के), 08 अगस्त 2008/01 जुलाई 2008 \*

युधवीर सिंह (सं. 14565492डब्ल्यू अब जेसी-762826एच), 03 सितम्बर 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार अपहोलिस्टर के रैंक में

बलबीर सिंह (सं. 3383065एल अब जेसी-762757एक्स), 01 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार वीएम (एएफवी) के रैंक में

रमेश (सं. 14562998के अब जेसी-762764एन), 01 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

अमरजीत सिंह (सं. 14547727पी अब जेसी-762817एफ), 16 अगस्त 2008/01 जुलाई 2008 \*

दयानंद (सं. 14547808पी अब जेसी-762819एम), 16 अगस्त 2008/01 जुलाई 2008 \*

मनोरन्जन पन्ना (सं. 14547810एम अब जेसी-762822एम), 16 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

श्रीकांत चौबे (सं. 14547806के अब जेसी-762818के), 15 अगस्त 2008/01 जुलाई 2008 \*

हवलदार से नायब सूबेदार वेल्डर के रैंक में

लाल चन्द राम (सं. 14553606के अब जेसी-762756पी), 02 अगस्त 2008/01 अगस्त 2008 \*

\*पिछली तारीख से वरीयता दी जाती है।

नन्द किशोर कश्मीरा  
अवर सचिव

वायु शाखा

सं. 207, दिनांक 19 मार्च 2009--राष्ट्रपति, सहर्ष निम्नलिखित मूल पदोन्नति करते हैं :--

भारतीय वायु सेना

प्रशासनिक शाखा

डी मुकुन्दन (13508), प्रशा, 01 सितम्बर 2008

ठंडान शाखा

एयर कॉमोडोर के मूल रैंक में

के के गोहिल (14688), उ पा, 07 जुलाई 2008

के धामी (15556), उ.पा, 07 जुलाई 2008

(इनका नाम एयर कामोडोर के. के. गोहिल (14688) उ. पा. के नीचे में आएगा)

एन के टण्डन (16030), उ.पा, 07 जुलाई 2008

ए लाल (16031), उ.पा, 07 जुलाई 2008

एस छाबड़ा (16032), उ.पा, 15 सितम्बर 2008

ए एस बहल (16208), उ.पा, 15 सितम्बर 2008

डी एस रावत (16242), उ.पा, 15 सितम्बर 2008

वैमानिक इंजीनियरिंग शाखा

ग्रुप कैप्टन के मूल रैंक में--

एस बनर्जी (16533), वै.ई (वै) 09 अप्रैल 2008/01 अगस्त 2006(नौ. सिं) -

(इनका नाम ग्रुप कैप्टन एस बनर्जी (17239) वै. ई (वै) के ऊपर में आएगा)

शिक्षा शाखा

विंग कमांडर के मूल रैंक में:--

आर मुरली (18339), शिक्षा, 18 अक्टूबर 2004

(इनका नाम विंग कमांडर एल एन शर्मा (18338) शिक्षा और विंग कमांडर डी पी एस रावत (18339) शिक्षा के बीच में आएगा)

संभारिकी शाखा

विंग कमांडर के मूल रैंक में:--

ए भट्टचार्या (रिटायर्ड) (17775), संभा, 15 दिसम्बर 2004

(इनका नाम विंग कमांडर के एस रेड्डी (17774) संभा और विंग कमांडर पी वी हरिशंकर (17782) संभा के बीच में आएगा)

ए के राय (17786), संभा. 21 दिसम्बर 2004/15 दिसम्बर 2004 (नो.से.)

ए पांडे (17789), संभा. 21 दिसम्बर 2004/15 दिसम्बर 2004 (नो.से.)

(इनका नाम विंग कमांडर एन एस विष्ट (17784) संभा और विंग कमांडर बी पाव (17791) संभा, के बीच में आएगा)

के विश्वास (18178), संभा. 16 दिसम्बर 2004/15 दिसम्बर 2004 (नो.से.)

(इनका नाम विंग कमांडर बी पी शर्मा (18176) संभा के नीचे आएगा)

के बी शंकर  
संयुक्त निदेशक कार्मिक (अधिकारी) -2बी

सेना शाखा

सं. 208, दिनांक 19 मार्च 2009--राष्ट्रपति सहर्ष निम्नलिखित अधिकारी की दिनांक 28 दिसम्बर 2007 से सेना चिकित्सा कोर से अल्पकालीन सेवा कमीशन से मुक्त होने की अनुमति प्रदान करते हैं और थल सेना अनुदेश 74/76 यथा संशोधित के अधीन उसी दिनांक से उन्हें स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

कप्तान के पद पर

सुमित भास्कर (एमएस-15030पी), (एमआर-08742पी), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 02 सितम्बर 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

रविन्दर कुमार (एमएस-15039के), (एमआर-08743एक्स), एएमसी, 12 अप्रैल 2005

वेतन और पदोन्नति के लिए वरिष्ठता 12 अक्टूबर 2004 से हो जाएगी।

इसमें अस्पताल नियुक्ति के लिए दी गई 06 महीने की पूर्ववरिष्ठता भी शामिल है, जो सेवा निवृत्ति के लिए गिनी जाएगी परन्तु उपदान के लिए नहीं मानी जाएगी

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 12 जनवरी 2008 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

वानखडे दानजी निताराम (एमएस-15061पी), (एमआर-08744ए), एएमसी, 19 अप्रैल 2005

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 02 सितम्बर 2006 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

सर्वेश कुमार श्रीवास्तवा (एमएस-14839डब्ल्यू), (एमआर-08730ए), एएमसी, 27 जुलाई 2004

(भारत सरकार के राजपत्र के दिनांक 10 दिसम्बर 2005 में प्रकाशित रक्षा मंत्रालय की अधिसूचना का सम्बन्ध जहां तक इस अधिकारी से है रद्द किया जाता है।)

बी एस राठौर

मंजर जनरल

अपर महानिदेशक स से चि से (मा स)

(वित्त प्रभाग)  
सेवानिवृत्ति

सं. 209, दिनांक 19 मार्च 2009--राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में श्री गोविंद प्रसाद, अनुभाग अधिकारी को उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 28 फरवरी 2009 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

राष्ट्रपति, रक्षा मंत्रालय (वित्त प्रभाग) में श्रीमती निर्मल आनंद, निजी सचिव को उनकी अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर दिनांक 28 फरवरी 2009 (अपराह्न) से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त करते हैं।

राम चरण मीना

सहायक वित्तीय सलाहकार

सेना शाखा

सं. 210, दिनांक 19 मार्च 2009--राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सेवा निवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं:-

प्रादेशिक सेना

सेवा निवृत्त

ले. कर्नल ए एम देवधरे (टीए-42034), इन्फैन्ट्री, 31 दिसम्बर 2008(एन)

जय राज

अवर सचिव

स्थल सेना शाखा

शुद्धि-पत्र

सं. 211, दिनांक 20 मार्च 2009--राष्ट्रपति, आई सी 30743 कर्नल राज कुमार सिंह, सिग्नल्स की साधारण निवृत्ति की आयु प्राप्त करने पर उनकी थल सेना से निवृत्ति रद्द करते हैं। अतः भारत के राजपत्र, रक्षा मंत्रालय के अधिसूचना जोकि 13 दिसम्बर 2008 को, "नियमित सेना स्थाई कमीशन"

के शीर्षक के अन्तर्गत छापा गया है, उसमें निम्नलिखित शुद्धिकरण किया जाता है:--

के स्थान पर--आई सी 30743 कर्नल राज कुमार सिंह, सिग्नल्स

पढ़ा जाए--रिक्त स्थान

जयन्त चक्रवर्ती  
उप निदेशक  
एम एस-7 ए

सं. 212, दिनांक 20 मार्च 2009--भारत के राजपत्र में दिनांक 10 अप्रैल 1999 को शीर्षक नियमित सेना स्थायी कमीशन एवं उप शीर्षक ले. से कप्तान के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

के बदले रोहित शर्मा (आईसी-52456), ईएमई

पढ़ा जाए राहुल शर्मा (आईसी-52456), ईएमई

ले. से कप्तान

भारत के राजपत्र में दिनांक 08 अप्रैल 2006 को शीर्षक "नियमित सेना स्थायी कमीशन" एवं उप शीर्षक "ले. से कप्तान" के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है:--

विरुद्ध : एस एल-04744 अनूपम गुप्ता, आईईबी/एसडब्ल्यू इंजीनियर्स

के बदले : 05 जुलाई 2003 वरीयता दिनांक 14 जनवरी 2000 से बिना वेतन एवं भत्ते के।

पढ़ा जाए : 05 जुलाई 2003 वरीयता दिनांक 14 जनवरी 2000 से वेतन एवं भत्ते के साथ।

भारत के राजपत्र में दिनांक 13 अप्रैल 1996 को शीर्ष नियमित सेना स्थायी कमीशन एवं उप शीर्षक द्वितीय ले. से ले. के अधीन प्रकाशित रक्षा मंत्रालय के राजपत्र में निम्नलिखित संशोधन किया जाता है।

के बदले : रोहित शर्मा IC-52456 ई एम ई

पढ़ा जाए : राहुल शर्मा IC-52456 ई एम ई

जसवन्त सिंह  
संयुक्त निदेशक  
एम एस-8सी

## MINISTRY OF DEFENCE

## D(MS)/SECTION

New Delhi, the 28th March 2009

No. 186, dated 12th March 2009.—The President has made the following appointments on her Honorary Personal Staff :—

Honorary Army ADC (Inf) w.e.f. 01-01-2009

(IC-23302) Lt Gen TK Sapru, PVSM, YSM, Inf

Honorary Army ADC (Arty/GC) w.e.f. 01-01-2009

(IC-23689) Lt Gen NS Brar, AVSM, VSM, Arty (GC)

BALRAM VERMA

Under Secy

No. 187, dated 12th March 2009.—The President is pleased to extend the appointment of Shri Nilamber Pandey, Director (OL), Ministry of Defence as Director (OL) on ad-hoc basis in the same Ministry w.e.f. 19.2.2009 to 19.8.2009 or until further orders, whichever is earlier, in terms of Deptt. of Official Language Office Order No. 5/12/2006-OL(Ser), dated the 13th February, 2009.

2. The appointment of the above officer as Director (OL) is subject to the following conditions :—

- (i) The promotion is purely on ad-hoc basis and shall not confer any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Director (OL) grade of Department of Official Language cadre.

Consequent on his transfer vide Department of Personnel & Training OM No. 5/12/2007-CS.II, dated 5th November, 2008, the President is pleased to appoint Shri Mahender Kumar, Stenographer Grade 'A&B' (Merged) (Ad-hoc) or CSSS in the Ministry of Environment & Forests, to the post of Stenographer Grade 'A&B' (Merged) of CSSS in the Ministry of Defence on ad-hoc basis with effect from the forenoon of 3rd February, 2009 or till regular officer becomes available or until further orders, whichever is earlier subject to the following conditions :—

- (i) The ad-hoc appointment shall not confer him any right to continue in the grade indefinitely or for inclusion in the Select List for regular appointment or to claim seniority in the Grade 'A' & 'B' (Merged) of CSSS.
- (ii) Ad-hoc appointment may be terminated at any point of time without giving any reason therefor.

K. MURALI

Under Secy

## ARMY BRANCH

No. 188, dated 12th March 2009.—The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI A-S.70 as amended :—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

The undermentioned Short Service Commissioned Officers Have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 20 Mar 2009, on relinquishing their Short Service Commission wef 20 Mar 2009 :—

SS No., IC No. allotted, Name & Arms/Services

SS-40527, IC-66044X, Puneet Bedi, Arty

SS-40528, IC-66045A, Surender Singh, AC

SS-40531, IC-66046H, Anil Kumar Sharma, AAD

SS-40535, IC-66049W, M Shyam, Inf

SS-40537, IC-66050L, Siddarth Nehra, ASC

SS-40538, IC-66051N, Lakhpat Singh, Inf

SS-40543, IC-66053Y, Fateh Singh, Sigs

SS-40545, IC-66054F, GRS Raja, Inf

SS-40547, IC-66056M, Limboo Paras, Inf

SS-40548, IC-66057P, Vikrant Prasher, Arty

SS-40550, IC-66059A, Nitin Rawat, Arty

SS-40553, IC-66061X, Vijay Singh Bhadauria, Inf

SS-40556, IC-66063H, Gaurav Nyol, AC

SS-40557, IC-66064L, Sharad Tyagi, AOC

SS-40558, IC-66065N, Sandeep Singh Chawla, Arty

SS-40559, IC-66066W, Katharia Manishkumar Gagansingh, Inf

SS-40560, IC-66067Y, Rajkumar Johnson Singh, AAD

SS-40562, IC-66069K, Anubhav Kanchan, Arty

SS-40565, IC-66070Y, Tushar Chowdhary, ASC

SS-40567, IC-66072K, Mohd. Aslam Khan, AC

SS-40570, IC-66073M, Pradeep Kumar Sharma, Arty

SS-40573, IC-66074P, Arvind Rana, ASC

SS-40575, IC-66075X, Subrat Mishra, Mech

SS-40576, IC-66076A, D Sreeram Kumar, Arty

SS-40582, IC-66079N, K Rakesh Singh, ASC

SS-40583, IC-66080H, Viplove, Inf

SS-40585, IC-66082N, Gokhale Amarendra Anant, Inf

SS-40589, IC-66084Y, Mahesh KN, Sigs

SS-40590, IC-66085F, KR Baby Krishnan, Inf

SS-40592, IC-66087M, U Sachin, AC

SS-40596, IC-66088P, Anuj Sharma, Inf

SS-40599, IC-66090M, Amit Kumar, Inf



SS-40603, IC-66092X, Himanshu Joshi, Engrs  
 SS-40605, IC-66093A, Raghawendra, ASC  
 SS-40611, IC-66094H, Mayank Malaviya, AAD  
 SS-40613, IC-66095L, Priyatosh Anil Mangrulkar, EME  
 SS-40614, IC-66096N, Ashok Kumar Puri, Arty  
 SS-40623, IC-66102W, Manish Chauhan, Arty  
 SS-40626, IC-66103Y, Chinkhothang Tonsing, Inf  
 SS-40629, IC-66104F, Gurmeet Raturi, Int  
 SS-40630, IC-66105K, Manish Kulhari, Inf  
 SS-40632, IC-66106M, Amit Prasad, Arty  
 SS-40633, IC-66107P, Bhagirath Singh Jodha, Inf  
 SS-40634, IC-66108X, Dodul Roy, Arty  
 SS-40636, IC-66110P, Aman Singh Jamwal, AAD  
 SS-40637, IC-66111X, Manpreet Singh Marwah, Inf  
 SS-40646, IC-66115N, Arup Mukherjee, Engrs  
 SS-40655, IC-66119K, Sudhir Kalia, Mech  
 SS-40663, IC-66120Y, Abhishek Yadav, ASC  
 SS-40667, IC-66121F, Ratheesh Kumar A, Inf  
 SS-40668, IC-66122K, Abhinav Sandhu, Engrs  
 SS-40673, IC-66124P, Brij Narayan Singh, Arty  
 SS-40677, IC-66126A, Gagandeep Singh Lamba, ASC  
 SS-40680, IC-66127H, Amrendra Prasad Dwivedi, Inf  
 SS-40691, IC-66129N, Vikas Kumar, Inf

(b) The date of seniority in respect of abovementioned officers will be as follows :—

(i) The date for increments of pay—20 Mar 2004

(ii) The date for promotion —20 Oct 2004

The inter-se-seniority of the abovementioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

V. S. RANADE  
 Col  
 Col MS 7

#### ARMY BRANCH

No. 189, dated 12th March 2009.—The President is pleased to make the following appointments :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

The undermentioned 01 (One) Gentleman Cadet of 104 Technical Graduates Course is granted Permanent Commis-

sion in the rank of Lt wef 10 Dec 2007 (F/N) under the terms and conditions of AI 105/61, as amended :—

T/6479 Satbir Singh (IC-70145H), AEC, with the seniority above T/6473 Sanjay Patyal (IC-70156P), AEC, whose name has been published in the Gazette of India dated 22 Nov 2008.

The undermentioned 01 (One) Gentleman Cadet (now officer) of 80 Technical Graduates Course is granted permanent commission in the rank of 2/Lt wef 09 Dec 95 (F/N) under the terms and conditions of SAI 1/S/94, as amended (TGC). The officer is also granted two years ante-date seniority for pay and promotions wef 12 Dec 93 under SAI 1/S/94, as amended :—

T/5377 Sanjay Sharma (IC-54241N), Engrs, with the seniority above T/5407 Sakhre Anirudha (IC-54242W), Sigs, whose name has been published in the Gazette of India dated 17 Jul 99.

#### SHORT SERVICE COMMISSION (On Probation)

The undermentioned 01 (One) GC of 80 Technical Graduates Course is granted Short Service Commission (on probation) for the period of his training at the Indian Military Academy, Dehradun in the rank of 2/Lt with effect from the date shown against his name under the provisions of SAI 1/S/94, as amended :—

IMA No., Name, SS No., Arm/Service & Date of SSC on Probation

T/5377, Sanjay Sharma, 36368N, Engrs, 12 Jan 95.

The Arms/Services allotted to the GC is valid for the duration of his training only.

NILESH CHOWDHARY  
 Lt Col  
 AMS 8B

#### ARMY BRANCH

No. 190, dated 13th March 2009.—The President is pleased to permit the following officer to retain his rank and wearing of uniform :—

#### TERRITORIAL ARMY

#### RETENTION OF RANK

Lt Col A Srinivasan (TA-41953), Infantry, 31 Dec 2008

JAI RAJ  
 Under Secy

No. 191, the 13th March 2009.—Consequent on being approved for lateral transfer as Director, Ministry of Information & Broadcasting, the services of Shri Abhilaksh Likhi, IAS (HY : 91), Private Secretary to Raksha Utpadan Rajya Mantri (Shri Rao Inderjit Singh), Ministry of Defence, are placed at the disposal of the Ministry of Information & Broadcasting under the Central Staffing Scheme for the

balance period of his central deputation tenure i.e. up to 16.11.2013, or until further orders, whichever is earlier, w.e.f. 27.2.2009 (FN). He counts his tenure at the center with effect from 17.11.2006.

K. MURALI  
Under Secy

#### ARMY BRANCH

No. 192, the 13th March 2009.—The President is pleased to make the following promotions :—

##### REGULAR ARMY

##### PERMANENT COMMISSION

##### (ARMY MEDICAL CORPS)

Maj Gen (& equivalent) to be Lt Gen (& equivalent)

SK Sharma (MR-03814K), 01 Dec 2008

B. S. RATHORE  
Maj Gen  
Dy DGAFMS (HR)

#### MILITARY SECRETARY'S BRANCH

No. 193, dated 13th March 2009.—The President is pleased to make the following promotions :—

##### REGULAR ARMY

##### PERMANENT COMMISSION

To be Substantive Brig

IC No., Rank, Name, Arm & Date of Subs Rank

V-00346, Col. SK Sharma, SM, RVC, 21 Apr 2008

(IC-35210) Col. BK Dhingra, SM, AAD, 09 May 2007

(IC-35218) Col. P Joshi, Madras, 01 Sept 2007 with seniority from 09 May 2007 without effect on pay and pension.

(IC-35222) Col. S Visvanathan, Sigs, 01 Sept 2007 with seniority from 09 May 2007 without effect on pay and pension.

(IC-37732) Col. Rakesh Kumar, EME, 15 Feb 2008 with seniority from 13 May 2007 without effect on pay and pension.

(IC-37182) Col. S Vayaboury, AOC, 01 Feb 2008 with seniority from 13 May 2007 without effect on pay and pension.

(IC-35488) Col. R Gopalakrishnan, Arty, 01 Jan 2008 with seniority from 18 May 2007 without effect on pay and pension.

(IC-35610) Col. Balbir Singh, ASC, 01 Jan 2008 with seniority from 22 May 2007 without effect on pay and pension.

(IC-35626) Col. UK Gurung Sikh Li, 01 Jan 2008 with seniority from 23 May 2007 without effect on pay and pension.

N K PHUKAN  
Dir /MS(X)

No. 194, dated 16th March 2009.—The President is pleased to make the following promotion in respect of MNS officer with effect from the date mentioned against his name :—

##### REGULAR ARMY

##### (PERMANENT COMMISSION)

Lt Col (Select) to Col

Rank & Name, Pers Number & Date of Promotion

Col Kuljit Kaur (NR-15754M), 05 Dec 2005

T PADMINI  
Maj Gen  
Addl DGMNS

No. 195, dated 16th March 2009.—The President is pleased to make the following promotions :—

##### REGULAR ARMY

##### PERMANENT COMMISSION

Maj to Lt Col

IC No., Name, Arm and Date of Effectiveness

39931 SK Galoth, Ac 16 Dec 2004

43703 RK Mathur, Arty 16 Dec 2004

46964 Mohammad Yaseen, JAG, 22 Apr 2005

49182 Victor D Cruz, ASC, 16 Dec 2004

52830 Shankar Ekambaram, Engrs, 11 Jun 2007

53089 Sudesh Kumar Singh, AEC, 11 Jun 2007

53102 Ajit Singh Bhadouriya, MF, 11 Jun 2007

53118 Rajbir Singh Sangwan, ASC, 10 Dec 2007

53290 Kapil Dev Sharma, Engrs, 10 Dec 2007

53325 Premendra Nath Shukla, ASC, 10 Dec 2007

53370 Kesu Prasad Nair, AOC, 10 Dec 2007

55334 Vivek Savangoudar, EME, 11 May 2007

56911 Vinod Shukla, Engrs, 10 Jun 2008

JASWANT SINGH  
Jt Dir MS --8C

## ARMY BRANCH

No. 196, dated 16th March 2009.—The President is pleased to make the following promotions :—

## TERRITORIAL ARMY

## TERRITORIAL COMMISSION

## To be Major

Capt Deepak Sirholi (TA-42436), Inf, 07 Jan 2008  
 Capt N Dhyani (TA-42441), Inf, 09 Mar 2008  
 Capt JS Bhaduria (TA-42444), Inf, 14 Feb 2008  
 Capt KS Chauhan (TA-42449), Inf, 30 Mar 2008

JAI RAJ  
 Under Secy

Maj Simran Jit Grewal (NR-20305F), 06 Sep 2008

Maj Maitreyee Das (NR-20306K), 06 Sep 2008

Maj Sreelatha T (NR-20307M), 06 Sep 2008

Maj Jugnu Devi (NR-20308P), 06 Sep 2008

Maj Jancy Mathew C (NR-20310M), 06 Sep 2008

Maj Bindu Sara Mathew (NR-20311P), 06 Sep 2008

Maj Julin Jose (NR-20312X), 06 Sep 2008

Maj Gargee Banerjee (NR-20313A), 06 Sep 2008

Maj Rejani SR (NR-20314K), 06 Sep 2008

Maj Jiji James (NR-20315L), 06 Sep 2008

Maj Swapna Kurian (NR-20317W), 06 Sep 2008

T PADMINI  
 Maj Gen Addl DGMNS

No. 197, dated 16 March 2009.—The President is pleased to make the following promotions in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against the each name:—

## REGULAR ARMY

## (PERMANENT COMMISSION)

## Capt to Maj

Rank & Name, Pers Number and Date of Promotion

Maj Keka Routh (NR-20281H), 06 Sep 2008

Maj Anu Priya Bali (NR-20282L), 06 Sep 2008

Maj Sandhya V Nair (NR-20283N), 06 Sep 2008

Maj Manju Mathew (NR-20284W), 06 Sep 2008

Maj KP Sheenamol (NR-20287K), 06 Sep 2008

Maj Sreelatha Kunnan (NR-20288M), 06 Sep 2008

Maj Hemlata Arya (NR-20289P), 06 Sep 2008

Maj Lysamma Antony (NR-20291M), 06 Sep 2008

Maj Bindu Uihanan (NR-20293X), 06 Sep 2008

Maj N Prameela (NR-20294A), 06 Sep 2008

Maj Sheena Thomas (NR-20295H), 06 Sep 2008

Maj Manju Rajappan (NR-20296L), 06 Sep 2008

Maj Anisha Begum (NR-20297N), 06 Sep 2008

Maj Ritu Bhatia (NR-20298W), 06 Sep 2008

Maj V Sharmila (NR-20299Y), 06 Sep 2008

Maj Sandhya E (NR-20300H), 06 Sep 2008

Maj Bindu P (NR-20301L), 06 Sep 2008

Maj Sunita Kumari (NR-20303W), 06 Sep 2008

Maj Pravin Kumari (NR-20304Y), 06 Sep 2008

## ARMY BRANCH

No. 198, dated 17th March 2009.—The President is pleased to make the promotions of the undermentioned AMC officers with effect from the dates mentioned against their names :—

## REGULAR ARMY

## (PERMANENT COMMISSION)

## To be Major

Bikram Bhardwaj (MS-14436W) (MR-08409W), AMC, 15 Mar 2006

Vivek Singh Guleria (MS-14982H) (MR-08723K), AMC, 12 Oct 2008

Sarvesh Kumar Srivastav (MS-14839W) (MR-08730A), AMC, 27 Jul 2008

BS RATHORE  
 Maj Gen Addl DGAFMS (HR)

## ARMY BRANCH

No. 199, dated 17th March 2009.—The President is pleased to make the following promotions:—

## REGULAR ARMY

## SPECIAL COMMISSION

## Capt to be Maj

SC No, Name, Arm and Subs Maj wef

SC-00447 Khem Singh, Inf, 10 Dec 2008

SC-00448 Rajeshwari Prasad, Inf, 10 Dec 2008

## PERMANENT COMMISSION

## Capt to be Major

IC No., Name, Arm and Subs Maj Wef

56425 Rahul Arya, Inf, 04 May 2006

56526 Anurag Sharma, Arty, 04 May 2007

65798 Gangandeep Singh, EME, 08 May 2007  
 65902 Supinder Singh Sethi, Engrs, 06 Nov 2007  
 65905 Pawan Yadav, EME, 06 Nov 2007

Lt to be Capt

IC No., Name and Arm/Service

70144 Kshitij Bhardwaj, Sigs  
 70146 Sumeet Sharma, EME  
 70147 Uddipto Dhara, Engrs  
 70148 Rupjyoti Das, Engrs  
 70149 Sunny Kumar Thukrana, Sigs  
 70150 Ankit Sharma, EME  
 70151 Davinder Singh Jass, Sigs  
 70152 Bharath VRP, EME  
 70153 Gautam Kumar, Sigs  
 70154 Gawan Vinod Shriram, EME  
 70155 Tarun Garg, Engrs  
 70157 Jagpreet Singh, EME  
 70158 Harjeet Singh Dhandra, EME  
 70159 Rahul, Arty  
 70160 Arjun Lalit Kumar Agnihotri, EME  
 70161 Munish Rana, Sigs  
 70163 Kuljeet Kumar, Sigs  
 70164 Reiyongam Kengoo Kashung, EME  
 70165 Deepak E R, EME  
 70166 Saket Patanwar, Engrs  
 70167 Khot Prathmesh Jaykumar, Engrs  
 70168 Piyush Jain, Engrs  
 70169 Mandeep Malik, Sigs  
 70170 Sarit Anand Padhi, Engrs  
 70171 Vasul Sharma, EME  
 70172 Ramavtar Singh Tanwar, EME  
 70173 Paprikar Aniket Dhananjay, EME  
 70174 Abinas Mohapatra, Sigs  
 70175 Kapil Dev Parik, EME  
 70176 Sanjeev Kumar R. EME  
 70177 Vyas Sidharth Gautam, Engrs  
 70178 Arvind Kandpal, Sigs  
 70179 Javed Salim, EME  
 70180 Amandeep Singh Puri, Sigs

70181 Rohit Dubey, Engrs

—11 Dec 2007—

IC No., Name, Arm and Date of Subs Capt

64938 Vikas Mandal, Arty, 16 Dec 2004  
 65115 Ashish Saxena, Arty, 16 Dec 2004  
 65116 Gaurav Bhakhri, AC, 16 Dec 2004  
 65117 Ravinder Singh Chauhan, Inf, 16 Dec 2004  
 65119 Grijesh Dubey, AAD, 16 Dec 2004  
 65120 Anand John Sampath, Inf, 16 Dec 2004  
 65121 Kanwarjit Singh, Engrs, 16 Dec 2004  
 65122 Praveen Jagota, AC, 16 Dec 2004  
 65126 Mukesh Kumar Singh, Engrs, 16 Dec 2004  
 65127 Sanjay Yadav, AC, 16 Dec 2004  
 65130 Raj Kumar Punni, EME, 16 Dec 2004  
 65131 Mohammad Salim, AC, 16 Dec 2004  
 65955 Tarun Sawhney, Arty, 06 May 2006  
 66004 Rahul Singh, Arty, 06 May 2006

IC No., Name and Arm/Service

68471 Sachin Kumar, Inf  
 68472 R Prakash, Engrs  
 68473 Gaurav Dixit, Inf  
 68474 Anuj Srivastava, AAD  
 68475 Pramod Kumar, EME  
 68476 Savya Sachi Rose, AC  
 68477 Sahasrabudhe Pushkar Satish, Inf  
 68478 Rajeshwar Singh Jamwal, Arty  
 68479 Prakash Chandra Tripathi, Inf  
 68480 Jeevan Kumar Sharma, Arty  
 68481 Sudhindra Singh, Inf  
 68482 Krishan Singh Rawat, Inf  
 68483 Shishir Kumar, Inf  
 68484 Manish Dhaka, Engrs  
 68485 Sujeet Pillai, Sigs  
 68486 Arsh Deep Singh, Inf  
 68487 Piyush Srivastava, AOC  
 68488 Ankit Singh, Engrs  
 68489 Navraj Dandriyal, AOC  
 68490 Kapil Pawariya, EME  
 68491 Saurabh Suman, Mech  
 68492 Pankaj Kumar Mishra, Engrs

- 68493 P Abhilash Chandran, Arty  
 68494 Vinod Kumar Bhaskar, Inf  
 68495 Sunny Juneja, Inf  
 68496 Vinod Singh, AC  
 68497 Ravi Kumar Sharma, Inf  
 68498 Shine Augustine, ASC  
 68499 Sameer Madan, Engrs  
 68500 Varun Maandi, Inf  
 68501 Aman Ahluwalia, Inf  
 68502 Tushar Menon, AOC  
 68503 Digvijay Singh Ahlawat, Mech  
 68504 Shakti Vijay Singh Rathore, AC  
 68505 Mukul Tewari, Engrs  
 68506 Sunil Kumar Jakhar, Engrs  
 68507 Abhinish V, EME  
 68508 Shailendra Kathayat, Inf  
 68509 Abheet Pillai, Inf  
 68510 KS Shyam Prasad, Inf  
 68511 Abhijit De, Arty  
 68512 Puneet Sharma, Inf  
 68513 Baljit Singh Bhinder, Sigs  
 68514 Pallav Bhagwati, Inf  
 68515 Neeraj Singh, Inf  
 68516 Abhimanyu Sharma, Arty  
 68517 Kuldeep Singh Mehta, Arty  
 68518 Udit Negi, Engrs  
 68519 Rishabh Singh, Inf  
 68520 Manish Upadhyay, Inf  
 68521 Subhojit De, Arty  
 68522 Dhairyashil Prakash Jagdale, Inf  
 68523 Vivek Sharma, Inf  
 68524 Jayashankar, Inf  
 68525 Ajay Bahadur, Inf  
 68526 Rahul Chandel, AAD  
 68527 Jayashyam Nair, Inf  
 68528 Sunil Kumar, Inf  
 68529 Aditya Agrawal, Engrs  
 68530 Nirmal Singh, Inf  
 68531 Arpit Atreya, Arty  
 68532 Jayendra Singh Kumarsing Patil, Inf  
 68533 Adarshkumar Pandey, Arty  
 68534 Prashant Ramchandra Kakade, Inf  
 68535 Ankur Mahajan, Engrs  
 68536 Radhey Shyam Singh Tomar, AAD  
 68537 BHavjit Singh Chouhan, Inf  
 68538 Shashi Bhushan Singh Chib, Inf  
 68539 A Tulsi Babu, AC  
 68540 Shakti Samanto, AOC  
 68541 Sunil Kumar, Inf  
 68542 Mayank Sharma, Sigs  
 68543 Rohit Sethi, Mech  
 68544 Krishna Chandra Pradhan, Arty  
 68545 Manpreet Singh Gulati, Inf  
 68546 Pawar Nikhil Shriram, Inf  
 68547 Amit Kumar Tiwary, Engrs  
 68548 Shine Sanjog Appasaheb, Inf  
 68549 Dorjee Leta, ASC  
 68550 Ravi Ranjan, Arty  
 68551 Brij Mohan Pathak, EME  
 68552 K Anil Kumar, Engrs  
 68553 Rakesh Kumar Bhardwaj, AOC  
 68554 Ravi Pratap Singh, Inf  
 68555 Balbir Singh Rathore, Inf  
 68556 Sandeep Choudhary, Arty  
 68557 Alex Antony, Engrs  
 68558 Pushp Raj Pandey, AOC  
 68559 Bendhale Sachin Sakhamam, Inf  
 68560 Suraj Singh Chilwal, Inf  
 68561 Ashish Dubey, Engrs  
 68562 Rohit Bundela, AC  
 68563 Siddharth Sharma, Engrs  
 68564 Kanwar Preet Singh, Engrs  
 68565 Arun Dahiya, EME  
 68566 Prashant Umapati Hiremath, Inf  
 68567 Prateek Sharma, Inf  
 68568 Vikas Shokeen, Inf  
 68569 Bhim Singh, AOC  
 68570 Kamireddy HarsHavardhana Reddy, EME  
 68571 Saurabh Singh, Sigs

68572 Vipin, Inf	68611 Zubin Jacob, Inf
68573 Ambuj Singh Rajput, Inf	68612 Kunal Singla, AC
68574 CHavan Sanket Shivajirao, Inf	68614 Gurpreet Singh, Engrs
68575 Tarun Kumar Chambyal, AOC	68615 Tej Narayan Mishra, EME
68576 Shirke Tejas Sharad, Inf	68616 Sandeep Soni, Inf
68577 Nishant Singh Sambyal, AC	68617 Rajesh Kumar Joshi, Engrs
68578 Ch R Sekhara Srinivas, Arty	68618 Vurity Ramchandra Rao, Arty
68579 Kedar Shridhar Joshi, Inf	68619 Vishnu Kumar Mishra, Arty
68580 John Deniel, Inf	68620 Sanyam Chaudhary, Engrs
68581 Sumit Acharya, Inf	68621 Aman Singh, ASC
68582 Ravinder Ahlawat, Inf	68622 Tarun Sundriyal, Inf
68583 Dibyadrasta Satapathy, Inf	68623 Ankush Dhingra, Arty
68584 Sarfaraz Ali, Inf	68624 Sachin Rawat, Inf
68585 Yogesh Pawar, Inf	68625 Mritunjay Mishra, Inf
68586 Abhik Sarkar, Arty	68626 Tekawade Padmaraj Mohanrao, Arty
68587 Rajnish Kumar Rawat, Inf	68627 Rakesh Singh, ASC
68588 Supreet Singh, Engrs	68628 Sripada Sriram, Arty
68589 Jagtap Atulkumar Kashinath, Arty	68629 Kamble Akshay Avinash, Inf
68590 Parvej Ikabal Mulani, Inf	68630 Irwinderjit Singh Ahluwalia, Mech
68591 Pushpinder Singh, Arty	68631 Muthumulla Ramendra Reddy, Engrs
68592 P Canon Anal, Engrs	68632 Pradeep Kumar Singh, Inf
68593 Rajiv Rana, Inf	68633 Arjun Michael Singh, AC
68594 Manmohan Singh, AOC	68634 Vishvanath Gupta, Inf
68595 Praveen Joshi, Inf	68635 Abhinay Bhardwaj, ASC
68596 Jayram, EME	68636 Vimal Bhandari, Inf
68597 Bhisham Shandil, Inf	68637 Jadeja Raturaj Balvirsinh, Inf
68598 Arijeet Chandra Sen, Sigs	68638 Abhishek Singh, Inf
68599 Avinash Kumar, Engrs	68639 Atul Tiwari, AOC
68600 Kulkarni Chetan Dilip, Mech	68640 Aditya Kotasthane, EME
68601 Abhijeet Mansingh, Inf	68641 Rohit M Nair, Inf
68602 Vinay Kumar, Arty	68642 Narender Singh Gandas, Inf
68603 Mahiraj Singh, Inf	68643 Abhishek Dubey, Inf
68604 Rakesh Kumar, EME	68644 Sunil Kumar, AC
68605 Siddharth Chandel, AOC	68645 Wankhede Suhas Vasant, Inf
68606 Nirmal Kumar Jha, Engrs	68646 Sunil Kumar Choudhary, Arty
68607 Shreyaskar Prakash, Engrs	68647 Surya Kumar G, Inf
68608 Ashish Nehra, Inf	68648 Aby T M, Sigs
68609 Vidya Bhushan Pandey, Engrs	68649 Aribam Sarat Chandra Sharma, Engrs
68610 Bhakta Ranjan Rout, Inf	68650 Sandeep Singh Jasrotia, Inf
	68651 Hegde Vineet Kumar Prabhakar, Engrs

68652 Rishikesh, Engrs	68691 Prashant Dhukia, Inf
68653 Balaji, EME	68692 Manish Kumar Madan, Arty
68654 Jayant Kumar Ghosi, AAD	68693 Pawan Kumar, Inf
68655 Velumurugan S, Inf	68694 Ankur Pandey, Inf
68656 Somaiah KB, AOC	68695 Nitesh Kumar, ASC
68657 Deb Chandan Das, Inf	68696 Sankalp Rathour, Inf
68658 Utsav Kumar, Engrs	68697 Kumar Rahul Anand, Arty
68659 Pawan Kumar, Arty	68698 Manas Kundu, Arty
68660 Jitender Singh Bisht, Inf	68699 Manish Gulia, Inf
68661 Himanshu Pant, Inf	68700 Shashank Mishra, EME
68662 Pawan Kumar, Engrs	68701 Bhabani Prasad Mishra, Arty
68663 Satish Kumar Mishra, Inf	68702 James Jacob, Inf
68664 Sunil Kumar, EME	68703 Laxman Singh Bisht, Inf
68665 Rohit Badhwar, Inf	68704 Sahil Sharma, Inf
68666 Mandeep Singh Batra, Arty	68705 Ajay Singh Rautela, Inf
68667 Arvind Tomar, Inf	68706 Sumit Chhabra, AOC
68668 Vivek Tripathi, Inf	68707 Anshul Sharma, Engrs
68669 Sushil Kumar Jindal, Inf	68708 Subhedar Sujeet Suryakant, Inf
68670 Srijit Pillai, AOC	68709 Sandeep S Menon, Sigs
68671 Vijay Singh Dhanak, Inf	68710 Sawant Prasad Vishram, Engrs
68672 Amit Kumar, Arty	68711 Vivek Khanduri, Inf
68673 Nitin I Bailappanavar, Engrs	68712 Sandeep Kumar Singh, Inf
68674 Nemani Subhash, Engrs	68713 Vivek Singh Sengar, Inf
68675 Sanjeev Kumar, Inf	68714 Rajinder Singh Bisht, EME
68676 Varun Arora, Mech	68715 Thaneesh K Gopinath, Engrs
68677 Dipankar Barua, Inf	68716 Renshi Raman, Engrs
68678 Surinder Kumar, EME	68717 Priansh Gill, Inf
68679 Mahesh N Unni K, AAD	68718 Jaydeep Nainwal, Inf
68680 Nihal Thomas Poonnen, Inf	68719 Mandale Sandeep Suresh, AAD
68681 Parmod Kumar Dalal, Engrs	68720 Anil Yadav, Inf
68682 Ram Prakash Yadav, AOC	68721 Arjun Singh, AC
68683 Shailendra Singh Gusain, Inf	68722 Sreekanth S, Mech
68684 Saurabh Vishal, Inf	68723 Mohith TP, Arty
68685 Vaibhav Singh, AAD	68724 Ajith Kumar G, AOC
68686 Arul Thomas, Inf	68725 Mudundi Santosh Varma, Arty
68687 Nitin Mohan Sharma, Engrs	68726 Suraj Kumar Roy, Inf
68688 Balwan Singh, AC	68727 Prasun Kumar Morolia, Engrs
68689 Ganendra Singh Arya, Arty	68728 Sanjeev Kumar, Inf
68690 Kango Ninad Anand, Inf	

68729 Dikonda Nikhil Giridhar, Inf	68768 Isaq Amirhamaja Nadaf, Inf
68730 Maha Sumudram Ravi, AC	68769 Bhagali Priyal Satish, Engrs
68731 Vichin C, Engrs	68770 Gopala Krishnan, Inf
68732 L. Nithinkumar, AOC	68771 Dheeraj Kumar Sahi, Inf
68733 Simran Preet Singh Aujla, Inf	68772 Amit Sharma, Engrs
68734 Atul Kumar, Engrs	68773 Amit Dutt Sharma, Engrs
68735 Vincet Datt, Inf	68774 Manish Kumar, Engrs
68736 Prashant Verma, Arty	68775 Sandeep Taragi, Engrs
68737 Vidhu Shekhar Pandey, AAD	68776 Roushan Rishabh, Mech
68738 Gaurav Singh, Inf	68777 Hemant Kumar, Inf
68739 MaHavir Singh, Inf	68778 Ashish Verma, AOC
68740 Rohit Kumar Jha, Inf	68779 Hasabnis Sushrut Kishor, Inf
68741 Amit Kumar Mishra, Sigs	68780 Chetan Singh, Inf
68742 Vikrant Thakur, Inf	68781 Gurvinder Singh Gill, Inf
68743 Avinash, Inf	68782 Arvind Sarkandia, Arty
68744 Pratap Jagannath Yadav, Arty	68783 Srivastava Himanshu Ravinarain, AC
68745 Varun Singh, Arty	68784 Akhilesh Singh Rathore, Inf
68746 Nikhil Rathore, Arty	68785 Mohit Kumar Sharma, Arty
68747 Sunil Dutt Sirswal, AOC	68786 Kunal Kashyap, Engrs
68748 Aman Mehta, Inf	68787 Harsh Sharma, AC
68749 Raman Gakhar, Inf	68788 Abhishek Trivedi, Arty
68750 Sashwat Pattanayak, Inf	68789 Badhan Bhushan Bhanudas, Engrs
68751 Sangram Keshari Das, Arty	68790 Dilip Kumar Senapati, ASC
68752 Dheeraj K R Tiwari, Engrs	68791 Avinash Kumar Upadhyay, Inf
68753 Ashish Bhardwaj, EME	68792 Rishabh Tripathi, Inf
68754 Gaurav Batra, AAD	68793 Pradeep Meel, AAD
68755 Thakare Kedar Satishrao, Engrs	68794 Kamlesh Mishra, Arty
68756 Amit Kotwal, EME	68795 Prashun Shekhar, AOC
68757 Saurabh Chaudhury, Inf	68796 Mithilesh Kumar Ojha, Inf
68758 Shakti Singh Rajvi, Inf	68797 Raghubeer Singh, EME
68759 Sumit Chadha, Engrs	68798 Animesh Das, Inf
68760 Siddharth Chhetri, Inf	68799 Ved Bhushan Khanoria, Inf
68761 Sumit Firkey, Sigs	68800 Siddhartha Malik, Arty
68762 Gaurav Sharma, EME	68801 Ashish Singh, Inf
68763 Praveen Kumar Dwivedi, Sigs	68802 Chakraborty Aniruddha Ashok, Mech
68764 Sajeewan Koliyat, AOC	68803 Jitendra Kumar Agarwal, Inf
68765 Anay Tripathi, Inf	68804 Bipin Saklani, Inf
68766 Varun Rathee, AC	68805 Neeraj Kumar Upadhyay, Inf
68767 Chinmay Ranjan Kar, Arty	68806 Aherrao Rahul Ramesh, Engrs
	68807 Kazim Mustafa Zaidi, Arty



68808 Mohit Bhan, Inf	68847 Sarang Pradip Wankhade, AAD
68809 Animesh Kumar, Inf	68848 Manjunath Bilur, Sigs
68810 Amit Kumar Chaudhary, Inf	68849 Inderjeet Yadav, AOC
68811 Anuj Kumar Khattri, AOC	68850 Deb Sankar Misra, EME
68812 Prabhakar Thapa, Inf	68851 Viral Tyagi, Sigs
68813 Peeyush Nath, Inf	68852 Ashok Parmar, Mech Inf
68814 Abhimanyu Singh, Inf	68853 D Ranjith, Arty
68815 Divyanshu S Morghode, EME	68854 Atul Kumar Tyagi, AC
68816 Kamal Kaushal, Inf	68855 Devanshu Dubey Gautam, Arty
68817 Kumar Chandan, Arty	68856 Uttam Anand, AAD
68818 Abhishek Khare, Inf	68857 Suresh Pal Choyal, Sigs
68819 Anil Singh Gusain, Inf	68858 Abhinav Verma, ASC
68820 Sreejith Balakrishnan Nair, Inf	68859 Aashish Kumar, ASC
68821 Vimal P, ASC	68860 Koushik Mukhopadhyay, EME
68822 Kapil Rana, Mech	68861 Kulwant Rana, AC
68823 Diptargha Sarkar, Inf	68862 Aditya Singh, Arty
68824 Sudhir Kumar Sinha, Inf	68863 Suchit Mehrotra, Arty
68825 Ravinder Kumar Yadav, Inf	68864 Anoop Joshi, Engrs
68826 Abhishek Chatterjee, Inf	68865 Manan Dublish, Sigs
68827 RagHav Parashar, Engrs	68866 Subrata Narayan Dash, Arty
68828 BHavsar Chaitanya Sharad, AC	68867 Gunjan Sharma, AC
68829 Sumit Kumar Behal, Inf	68868 Mayank Sharma, Arty
68830 Rahul Shrivastava, Inf	68869 Ravi Pal, Engrs
68831 K Pramod Shankar, AOC	68870 Katabathula Srinath, Arty
68832 Anujeet Kumar, Engrs	68871 Vikas Malik, Arty
68833 Sreekant R, Inf	68872 Minhaj Ahmad, Engrs
68834 Joshi Anand Prakash, AC	68873 Arshad Kamaal, Sigs
68835 Manish Panwar, Engrs	68874 Kamal Makkar, AC
68836 Shomit Ahlawat, AOC	68875 Abhinav Kumar Singh, AOC
68837 Rajeev Yadav, EME	68876 Varghese Vincent John, Mech Inf
68838 Rohan Gupta, Inf	68877 Rajinder Hooda, Engrs
68839 Aniruddha Bhuyan, Inf	68878 Aseem Gupta, Engrs
68840 Amit Joon, Inf	68879 Karandeep Singh Malhotra, EME
68841 Piyush Tiwari, Sigs	68880 Manoj Seth, AOC
68842 Amarinder Singh Mehar, Arty	68881 Pawan Kumar Sachan, Sigs
68843 Prateek, Inf	68882 Sharat Nambiar, EME
68844 Kumar Abhishek, Arty	68883 Rrizzee Manav, Sigs
68845 Samarth Gupta, Engrs	68884 Rajanish Kumar, Sigs
68846 Anjani Kumar, Arty	68885 Dixit Deval Subhash, AC

68886 Raman Mishra, EME	IC No., Name and Arm
68887 Siddharth Upadhyaya, EME	54241 Sanjay Sharma, Engrs -12 Dec 1998
68888 Madhur Upman, Sigs	SHORT SERVICE COMMISSION (MEN)
68889 Aryamane Kshitij Uday, AAD	Lt to be Capt
68890 Banerjee Bhaskar Shankar, Arty	SS No., Name, Arm, Date of Seniority, Course, Revised Date of Seniority for Promotion and Date of grant of Subs rank of Capt
68891 Kunal Deep Singh, AC	41635 Chandra Shekhar Yadav, Arty, 17 Sep 2005, SSC-80 (NT), 17 Apr 2006, 17 Apr 2008
68892 Sourabh Kohli, EME	SHORT SERVICE COMMISSION (WSES)
68893 C Dinesh Prabhu, Arty	Lt to be Capt
68894 Satish Kumar Sharma, Engrs	WS No., Name, Arm, Seniority, Course, Revised date of seniority and Date of promotion for Substantive Capt
68895 Pratap Bajwa, AAD	00773 Arthi Tiwari, ASC, 08 Mar 2003, WSES(O)-21 (NT), 08 Mar 2004, 08 Mar 2006
68896 Singh Amberish Kumar Yogesh, AAD	00887 Dipti, ASC, 20 Mar 2004, WSES(O)-23 (NT), 20 Mar 2005, 20 Mar 2007
68897 Samar Kishore, EME	Lt to be Capt
68898 Yogesh Paliwal, Engrs	WS No., Name, Arm/Service and Date of grant of Subs rank of Capt
68899 Rakesh Singh Bisht, Int	WS-01000 Peddada Gargi Kanaka Durga, Sigs, 19 Mar 2008
68900 Abhishek Bakshi, EME	WS-01001 Shweta Khanzode, Sigs, 19 Mar 2008
68901 Rishi Kant Dubey, ASC	WS-01004 Kate Poonam Baliram, EME, 19 Mar 2008
68902 Jaspreet Singh, ASC	WS-01005 Divya Gupta, Sigs, 19 Mar 2008
68903 Dennis Desi, AC	WS-01009 Neetu Singh, EME, 19 Mar 2008
68904 Vikas Baliyan, Arty	WS-01010 K Sangeetha, EME, 19 Mar 2008
68905 Harsh Dhankhar, AOC	WS-01013 Ketholebeinu Kuotsu, Sigs, 19 Mar 2008
68906 Samarjit Yadav, ASC	WS-01019 Rangilal Devina Dilip, Engrs, 19 Mar 2008
68907 Bhuwan Kalra, ASC	WS-01024 Shushama B N Pandey, EME, 19 Mar 2008
68908 Arvind Singh, Engrs	WS-01027 Shobha Madan, Sigs, 19 Mar 2008
68909 Varun Sharma, EME	WS-01039 Namrta Gupta, EME, 19 Mar 2008
68910 Aditya Sharma, Engrs	WS-01047 Bhagwat Maithili Makarand, Sigs, 19 Mar 2008
68911 Shantind Dhingra, EME	WS-01053 Surabhi Dixit, EME, 19 Mar 2008
68912 Urdhwaresh Abhishek Rajendra, Arty	WS-01057 Anupam Goel, EME, 19 Mar 2008
68913 Gaurav Tandon, Engrs	WS-01066 Trivedi Neha Kailashchandra, 19 Mar 2008
68914 Galande Amit Vijaykumar, Arty	WS-01068 Aditi Sharma, EME, 19 Mar 2008
68915 GK Unni Krishnan, Mech Inf	WS-01081 Shweta Dhingra, EME, 17 Sep 2008
68916 Sushil Kumar Maurya, Sigs	
68917 Rajiv Ranjan Jha, Int	
68918 Mohit Khanna, Mech Inf	
68919 Gagan Deep Singh, Sigs	
68920 Abhishek Sharma, ASC	
68921 Rishubh Sharma, Arty	
68922 Yashvendra Kumar Singh, Engrs	
68923 Gautam Pant, Arty	
68924 Gaurav Singh, Sigs	

WS-01084 Nirupama Devdutta Koppikar, EME, 17 Sep 2008

WS-01085 Mamta Gupta, Sigs, 17 Sep 2008

WS-01088 Aparna Iyer, Sigs, 17 Sep 2008

WS-01092 Pooja Rautela, EME, 17 Sep 2008

WS-01095 Ruchi, Sigs, 17 Sep 2008

WS-01098 Bhendwade Meghana Brahmakant, 17 Sep 2008

WS-01100 Mona, Engrs, 17 Sep 2008

WS-01105 Kausakiya SHavika Ramesh, Engrs, 17 Sep 2008

WS-01113 Leeni Srivastava, Sigs, 17 Sep 2008

WS-01127 Manmeet Kaur, EME, 17 Sep 2008

WS-01128 Shilpi Khanka, Sigs, 17 Sep 2008

WS-01130 Divya Niar, EME, 17 Sep 2008

WS-01135 Chauhan Meghna Deepak, Engrs, 17 Sep 2008

WS-01137 Fiora Fredric Lall, Engrs, 17 Sep 2008

WS No., Name & Arm/Service

WS-00795 Shaifali, ASC

WS-00798 Shaifali Tarnach, AOC

WS-00801 Vandita Bachhawat, Int

WS-00811 Prabasini Sahoo, Int

WS-00812 BHavana Sharma, ASC

WS-00820 Manju Sharma, ASC

WS-00827 Samita Ahuja, Int

WS-00828 CHavan Nita Hanumant, ASC

WS-00833 Komal Rekhi, Int

—06 Sep 2008

JASWANT SINGH

Jt Dir

MS-8C

#### (ARMY BRANCH)

No. 200, dated 17th March 2009.—The President is pleased to make the promotions of the undermentioned AMC officer with effect from the dates mentioned against their names :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Ashwani K Pandey (MR-08603-L), AMC, 11 Aug 2008

Balendu Prakash Mani Tripathi (MR-08450M), AMC, 31 Aug 2007

B S RATHORE

Maj Gen

Addl DGAFMS (HR)

#### REGULAR ARMY

#### (PERMANENT COMMISSION)

No. 201, dated 17th March 2009.—The President is pleased to make the following promotions in respect of MNS officers with effect from the date(s) mentioned against their names :—

Lt to Capt

Rank & Name, NR No. & Date of Promotion

Capt Sarita Rajput (NR-21167X), 15 Jul 2007

Capt J Anu Jose (NR-21168A), 15 Jul 2007

Capt Neelam Mahar (NR-21169H), 15 Jul 2007

Capt Rolly P Thomas (NR-21170X), 15 Jul 2007

Capt Pushpa Joshi (NR-21171A), 15 Jul 2007

Capt Seema M Nair (NR-21172H), 15 Jul 2007

Capt Annu Gaharwar (NR-21173L), 15 Jul 2007

Capt M Rose Mary Zou (NR-21174N), 15 Jul 2007

Capt Seema K Singh (NR-21175W), 15 Jul 2007

Capt Sadhana Kumari (NR-21176Y), 15 Jul 2007

Capt Smitha S Nair (NR-21177F), 15 Jul 2007

Capt Krishnakala P R (NR-21178K), 15 Jul 2007

Capt Bhawna Kanwar (NR-21180F), 15 Jul 2007

Capt B Ceelin Joy Femla (NR-21183P), 15 Jul 2007

Capt Shilpa Sen Gupta (NR-21184X), 15 Jul 2007

Capt M G Ragothaman (NR-21186H), 15 Jul 2007

Capt Lakshmi Rawat (NR-21187L), 15 Jul 2007

Capt Ashly Mary (NR-21188N), 15 Jul 2007

Capt Chandrakala Pandey (NR-21189W), 15 Jul 2007

Capt Celina John (NR-21190L), 15 Jul 2007

Capt Sabitri Shaw (NR-21191N), 15 Jul 2007

Capt Rashmi Dayal (NR-21192W), 15 Jul 2007

Capt Rumna Das (NR-21194F), 15 Jul 2007

Capt Namrata Bali (NR-21195K), 15 Jul 2007

Capt Geeta Kumari (NR-21196M), 15 Jul 2007

Capt Sheeja Rajan (NR-21197P), 15 Jul 2007

Capt Asha Kiran V (NR-21198X), 15 Jul 2007

Capt Sapna Walia (NR-21181K), 15 Jul 2007  
 Capt Shiji Chaeko (NR-21185A), 15 Jul 2007  
 Capt Monika Bakshi (NR-21220X), 01 Jul 2007  
 Capt Archana (NR-21221A), 01 Jul 2007  
 Capt Sutapa Goswami (NR-21222H), 01 Jul 2007  
 Capt Sharmistha Panda (NR-21223L), 01 Jul 2007  
 Capt Shalvati Barman (NR-21224N), 01 Jul 2007  
 Capt Sunita (NR-21225W), 01 Jul 2007  
 Capt Surekha Ranjan (NR-21226Y), 01 Jul 2007  
 Capt Smitha Thomas (NR-21228K), 01 Jul 2007  
 Capt Kumud Dogra (NR-21229M), 01 Jul 2007  
 Capt Navroop Randhawa (NR-21230F), 01 Jul 2007  
 Capt Sijy Titus (NR-21231K), 01 Jul 2007  
 Capt Lishy C A (NR-21232M), 01 Jul 2007  
 Capt Ritu Samuel (NR-21233P), 01 Jul 2007  
 Capt T Sheela Ramachandran (NR-21234X), 01 Jul 2007  
 Capt Jamala Bano (NR-21235A), 01 Jul 2007  
 Capt Sitarapani Chandrika (NR-21236H), 01 Jul 2007  
 Capt Shila Samuel (NR-21237L), 01 Jul 2007  
 Capt Jyoti (NR-21238N), 01 Jul 2007  
 Capt Poonam Negi (NR-21239W), 01 Jul 2007  
 Capt Archana Kushwaha (NR-21240L), 01 Jul 2007  
 Capt Indra Das (NR-21241N), 01 Jul 2007

T PADMINI  
 Maj Gen  
 Addl DGMNS

#### ARMY BRANCH

No. 202, dated 18th March 2009.—The President is pleased to make the following promotion :—

#### REGULAR ARMY

#### PERMANENT COMMISSION

2nd Lt to be Lt

IC No., Name & Arm

54241 Sanjay Sharma, Engrs

12 Dec 1995

JASWANT SINGH  
 Jt Dir  
 MS 8C

#### ARMY BRANCH

No. 203, dated 18th March 2009.—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### ARMY PHYSICAL TRAINING CORPS

To be Substantive Subedar Major

Sub Maj Balwant Singh (JC-826093Y), 01 Sep 2008

Sub Maj Sakpal Ranjit Kumar Gunaji (JC-826096M), 01 Dec 2008

To be Naib Subedar

CHM, S Gopinath (No. 2589118H now JC-826203H), 01 May 2008

BHM Bal Ram Shrestha (No. 5751314L now JC-826204L), 02 Jun 2008/01 Jun 2008\*

BHM Kulange Baban Ananda (No. 2781457X now JC-826205N), 01 Jul 2008

BHM Chhabi Lal Pradhan (No. 5751292X now JC-826206W), 01 Sep 2008

BHM Amar Bahadur Gurung (No. 5449431Y now JC-826207Y), 21 Oct 2008/01 Oct 2008\*

BHM Bane Singh (No. 2985975Y now JC-826208F), 01 Dec 2008

BHM Udale Pandurang Sakharam (No. 1086643P now JC-826209K), 15 Dec 2008/01 Dec 2008\*

BHM Naresh Singh (No. 2985922A now JC-826210Y), 01 Dec 2008

\*Date of seniority.

P P SINGH  
 Under Secy

#### ARMY BRANCH

No. 204, dated 18th March 2009.—The President is pleased to make the following promotions :—

#### REGULAR ARMY

#### INFANTRY

#### THE MECHANISED INFANTRY REGIMENT

To be Substantive Subedar (Clerk)

Nb Sub (Clk) Jajati Kishor Mohapatra (JC-420000P), 01 Oct 2008

Nb Sub (Clk) Kartar Singh (JC-420135W), 01 Nov 2008

Nb Sub (Clk) Priya Varta Arya (JC-420232N), 01 Nov 2008

To be Naib Subedar (Clerk)

Hav (Clk) Satbir (JC-14912451Y now JC-421091W),  
10 Oct 2008\*

\*(Granted Seniority in the rank of Naib Subedar (Clerk)  
with effect from 01 Oct 2008 without effect on pay and  
allowances).

Hav (Clk) Randhir Singh (JC-14912743F now JC-421092Y),  
01 Nov 2008

To be Nb Sub (RT) (Pandit)

Viveka C (JC-421007L), 06 Sep 2008

#### ARMOURED CORPS

(To be Substantive Risaldar)

Naib Risaldar Ram Singh Shekhawat (JC-240249Y), 01 Feb  
2007

Naib Risaldar Lakhan Singh (JC-240374H), 10 Feb 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2007 without  
effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Balwan Singh (JC-240475W), 01 Feb 2007

Naib Risaldar Karnbir (JC-240966M), 27 Feb 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2007 without  
effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Surit Singh Chauhan (JC-240208P), 02 Mar  
2007

Naib Risaldar Gopal Kalita (JC-240222F), 02 Mar 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2007 without  
effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Lala Ram (JC-240457N), 04 Feb 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2007 without  
effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Sivadethan M (JC-238993X), 01 Feb 2007

Naib Risaldar M Radha Krishnan (JC-240477F), 01 Feb  
2007

Naib Risaldar Sahib Singh (JC-241051M), 01 Feb 2007

Naib Risaldar Mohan Ram Khillari (JC-240125K), 03 Feb  
2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2007 without  
effect on pay and allowances)

Naib Risaldar MaHaveer (JC-240635L), 03 Feb 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2007 without  
effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Eshwari Prasad (JC-240120L), 01 Feb 2007

Naib Risaldar Subeh Singh Jat (JC-240709P), 01 Feb 2007

Naib Risaldar Jaswant Singh (JC-240282W), 01 Feb 2007

Naib Risaldar Neer Singh (JC-240242P), 06 Feb 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2007 without  
effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Chandagi Ram (JC-241123L), 06 Feb 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2007 without  
effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Vinod Kumar Sen (JC-239778Y), 20 Feb 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 03 Feb 2007 without  
effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Raj Kishore Samant (JC-240041W), 04 Feb  
2007

Naib Risaldar Gautam Saha (JC-240797W), 14 Feb 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Feb 2007 without  
effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Balak Singh (JC-240230A), 02 Mar 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2007 without  
effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Bhaskar Chandra Pandit (JC-240239P),  
01 Mar 2007

Naib Risaldar Angrez Lal (JC-240367M), 01 Mar 2007

Naib Risaldar Narendra Pal Singh (JC-240479M), 01 Mar  
2007

Naib Risaldar Ram Dayal Yadav (JC-240586N), 01 Mar 2007

Naib Risaldar Gurmit Singh (JC-240645P), 03 Mar 2007

Naib Risaldar Joginder Singh (JC-240738K), 01 Mar 2007

Naib Risaldar Bishamber Singh Chib (JC-240911H), 07 Mar  
2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2007 without  
effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Santosh Kumar (JC-241105H), 01 Mar 2007

Naib Risaldar Hanamappa Hakkaiavar (JC-240151L), 02 Apr  
2007

Naib Risaldar Sewak Singh (JC-241052P), 19 Mar 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2007 without  
effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Hari Kishan Singh Chauhan (JC-239859Y),  
01 Mar 2007

Naib Risaldar Ram Kumar Singh (JC-239480P), 03 Apr 2007\*

\*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2007 without  
effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Dhan Singh (JC-239796F), 01 Apr 2007	Naib Risaldar M Durai Raj (JC-240471A), 01 May 2007
Naib Risaldar Sajjan Singh Sangwan (JC-240488N), 01 Apr 2007	Naib Risaldar Yudhvir Singh (JC-240389L), 03 May 2007*
Naib Risaldar Pandriyan K (JC-238709W), 01 Apr 2007	*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)
Naib Risaldar Jagdish Singh Poonia (JC-240811X), 01 Apr 2007	Naib Risaldar Munna Lal (JC-240509Y), 16 May 2007*
Naib Risaldar Balbir Singh (JC-239568Y), 06 Apr 2007*	*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)	Naib Risaldar Rakesh Kumar (JC-240814L), 01 May 2007
Naib Risaldar Nirvail Singh (JC-240515M), 14 Apr 2007*	Naib Risaldar Bhagirath Sharma (JC-240815N), 13 May 2007*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)	*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)
Naib Risaldar Krishna Prasad (JC-239993K), 19 Apr 2007*	Naib Risaldar Bhardkar Balaso Babu (JC-240801N), 01 May 2007
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)	Naib Risaldar Narinder Singh (JC-240760P), 02 May 2007*
Naib Risaldar Jayanta Kumar Deka (JC-240670N), 18 Apr 2007*	*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)	Naib Risaldar Ganesh Bahadur Thapa (JC-240060F), 01 May 2007
Naib Risaldar Raj Karan Singh (JC-240402K), 17 Apr 2007*	Naib Risaldar Prem Chandra (JC-240619N), 01 May 2007
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)	Naib Risaldar Vijayan V (JC-240408L), 04 May 2007*
Naib Risaldar Sukhdev Singh (JC-240406A), 03 Apr 2007*	*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)	Naib Risaldar Tiku Makar (JC-240198W), 07 May 2007*
Naib Risaldar Davinderjit Singh (JC-241169N), 05 Apr 2007*	*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)	Naib Risaldar Radheshyam Singh (JC-240396F), 13 Jun 2007*
Naib Risaldar Jograj Choudhary (JC-240611F), 01 Apr 2007	*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)
Naib Risaldar Anrik Singh (JC-240071N), 19 Apr 2007*	Naib Risaldar Sethi Ajay Kumar Ishwar Das (JC-239445M), 07 Mar 2007*
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)	*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)
Naib Risaldar Chaware Giridhar Tulshi Ram (JC-240211P), 01 Apr 2007	Naib Risaldar Ashok Kumar (JC-240401F), 09 Mar 2007*
Naib Risaldar Meva Ram (JC-240945W), 17 Apr 2007*	*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 05 Dec 2006 without effect on pay and allowances)	Naib Risaldar Jagdale Tanaji Dattu (JC-240524N), 25 Oct 2007
Naib Risaldar Ranvir Singh (JC-240946Y), 27 Apr 2007*	Naib Risaldar Ashok Kumar (JC-240794H), 01 May 2007
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 05 Dec 2006 without effect on pay and allowances)	Naib Risaldar Jasbir Singh (JC-240816W), 19 May 2007*
Naib Risaldar Ram Baran Baghel (JC-240042Y), 29 Apr 2007*	*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)
*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)	Naib Risaldar Tej Ram Harijan (JC-239479A), 12 May 2007*
Naib Risaldar Subash Chandra Jena (JC-239627A), 01 May 2007	*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Narayana Pillai G (JC-240474N), 29 May 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Raghuvir Singh (JC-240043F), 23 May 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 09 May 2007 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Pawan Kumar (JC-241264A), 02 Jul 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Mar 2007 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Prakash Katti (JC-240070L), 22 Jun 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Ram Singh Pal (JC-240822K), 04 Jul 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 Apr 2007 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Subir Kumar Muzumder (JC-240243X), 18 Jun 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Maha Devan J (JC-240167W), 19 Jun 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Nimai Chand Mandal (JC-239693H), 25 Jun 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Makhan Lal (JC-241268W), 29 Jun 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 01 May 2007 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar Gurmej Singh (JC-241095K), 16 Jun 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 06 May 2007 without effect on pay and allowances)

Naib Risaldar R Sakkara Thalwar (JC-240743P), 13 Jun 2007\*  
 \*(Gtd seniority in the rank of Ris wef 06 May 2007 without effect on pay and allowances)

JROY CHOWDHARY  
 Under Secy.

#### ARMY BRANCH

No. 205, dated 18th Mar 2009—The President is pleased to make the following appointment/promotion:—

#### REGULAR ARMY

#### CORPS OF ARMY AIR DEFENCE

To be Nb Sub

RHM Sivakumaran K. (No. 15761601A now JC-300414L), 16 Jun 2008/14 May 2008\*

RHM Rajbeer Singh Bhadowria (No. 14401529W now JC-300415N), 01 Jul 2008

Hav Birendra Singh (No. 15105869N now JC-300416W), 01 Jul 2008

Hav Janardhan Pandey (No. 14497821A now JC-300417Y), 01 Jul 2008

Hav Mahendra Pal Singh (No. 15102695N now JC-300418F), 01 Jul 2008

RHM Jaya Prakash (No. 15763341Y now JC-300419K), 08 Jul 2008/01 Jul 2008\*

RHM Wagh Rajendra Ratan (No. 14499789P now JC-300420Y), 01 May 2008/21 Feb 2008\*

Hav Lakshinder Debnath (No. 14385495F now JC-300421F), 01 Apr 2008

BHM Puran Chand (No. 14399228L now JC-300422K), 03 May 2008/01 Apr 2008\*

BHM Vijay Singh (No. 14394958M now JC-300423M), 16 Jun 2008/01 Apr 2008\*

Hav Rajender Kumar (No. 14391061X now JC-300424P), 02 May 2008/27 Apr 2008\*

BHM Amilal Saini (No. 14380115N now JC-300425X), 01 May 2008

RHM Rajesh Kumar (No. 15104260K now JC-300426A), 01 May 2008

Hav Sham Lal (No. 14381979K now JC-300427H), 15 May 2008/04 May 2008\*

BHM Anirudh Gupta (No. 14380092L now JC-300428L), 07 Jun 2008/13 May 2008\*

Hav Lal Singh Gurung (No. 14387035Y now JC-300429N), 31 May 2008/16 May 2008\*

Hav Avtar Singh Thakur (No. 14367352Y now JC-300430H), 01 Jun 2008

BHM Ram Narayan Singh (No. 14382474A now JC-300431L), 01 Jun 2008

BHM Sasi Karaveetil (No. 14381061K now JC-300432N), 01 Jun 2008

Hav Rakesh Kumar Sharma (No. 14406228W now JC-300433W), 01 Jun 2008

BHM Sher Singh (No. 14390870L now JC-300434Y), 02 Jun 2008/01 Jun 2008\*

BHM M Vengatesan (No. 14377087F now JC-300435F), 02 Jun 2008/01 Jun 2008\*

Hav Krishan Kumar (No. 14394676N now JC-300436K), 02 Jun 2008/01 Jun 2008\*

Hav Kartar Singh (No. 14378547K now JC-300437M), 18 Jun 2008/01 Jun 2008\*

Hav Sukhvinder Singh (No. 14381093M now JC-300438P), 21 Jun 2008/02 Jun 2008\*

BHM Vinod Kumar Shukla (No. 14382121A now JC-300439X), 21 Jun 2008/02 Jun 2008\*

RJIM Khadim Hussain (No. 14375054X now JC-300440M),  
01 Jul 2008

BHM Jadhav Ankushra Ganapati (No. 14376886L now JC-300441P), 01 Jul 2008

Hav Joy PK (No. 15104857M now JC-300442X), 01 Jul 2008

Hav Matadin (No. 15101838W now JC-300443A), 01 Jul 2008

BHM Sushil Kumar (No. 14386933L now JC-300444H),  
01 Jul 2008

Hav N Poonu Swamy (No. 14383475P now JC-300445L),  
01 Jul 2008

Hav Simratha Ram (No. 14384001A now JC-300446N),  
01 Jul 2008

RHM Santharao Ampolu (No. 15764833K now JC-300447W), 08 Jul 2008/01 Jul 2008\*

RHM S Rajesh Kumar (No. 15762053A now JC-300448Y),  
05 Jul 2008/19 Jun 2008\*

RHM Nana Babu Danta (No. 15764438W now JC-300449F),  
12 Jul 2008/01 Jul 2008\*

RHM Jaipal Singh (No. 15113797K now JC-300450W),  
03 Jul 2008/01 Jul 2008\*

Hav Rajendra Narayan Rout (No. 14390628W now JC-300451Y), 18 Jul 2008/01 Jul 2008\*

Hav Vinod Kumar (No. 14389124W now JC-300452F),  
01 Aug 2008

Hav Roshan Lal (No. 15103647A now JC-300453K),  
01 Aug 2008

Hav Jasvir Singh (No. 15103810P now JC-300454M),  
01 Aug 2008

RHM Isham Singh (No. 15761932P now JC-300455P),  
10 Jul 2008/01 Jul 2008\*

RHM Shaji KV (No. 15763651K now JC-300456X), 08 Jul 2008/01 Jul 2008\*

Hav Kakade Savataram Hanumant (No. 15105178F now JC-300457A), 01 Aug 2008

\*(Gtd ante-date seniority wef)

#### REGIMENT OF ARTILLERY

##### To be Nb Sub

Hav Om Prakash Pandey (No. 14488463Y now JC-272353A), 02 Oct 2008/01 Aug 2008\*

Hav Satya Bhan (No. 15105598F now JC-272354H), 30 Sep 2008/01 Aug 2008\*

Hav Arul Devadoss A (No. 15106464P now JC-272355L),  
07 Oct 2008/02 Aug 2008\*

Hav Shivdhir Kumar (No. 15104417Y now JC-272356N),  
20 Sep 2008/21 Aug 2008\*

Hav Jaswinder Singh (No. 15111546F now JC-272357W),  
27 Sep 2008/22 Aug 2008\*

Hav Pana Ram (No. 14384998A now JC-272358Y), 27 Sep 2008/22 Aug 2008\*

Hav Bijaya Bahadur Singh (No. 14381103L now JC-272359F), 28 Sep 2008/25 Aug 2008\*

Hav Shiv Raj Singh Nager (No. 15100135H now JC-272360W), 29 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Hav Manoj Kumar (No. 15102311N now JC-272361Y),  
23 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Hav Rohtas Kumar (No. 14399908L now JC-272362F),  
29 Sep 2008/13 Sep 2008\*

Hav Purna Chandra Das (No. 14389591N now JC-272363K),  
29 Sep 2008/13 Sep 2008\*

Hav Maliappa Yaraaguddi (No. 14384449A now JC-272364M), 29 Sep 2008/18 Sep 2008\*

Hav Rakesh Kumar (No. 14394702K now JC-272365P),  
01 Oct 2008

Hav Harphul Singh (No. 14499200A now JC-272366X),  
01 Oct 2008

Hav Prem Singh (No. 15111254Y now JC-272367A),  
01 Oct 2008

Hav Ram Kumar Singh (No. 15111573L now JC-272368H),  
01 Oct 2008

Hav Jasbir Singh (No. 15101823N now JC-272369L),  
01 Oct 2008

Hav Linga Murthy Pendem (No. 14408300A now JC-272370A), 20 Sep 2008/01 Jul 2008\*

Hav Jagana Pari Naidu (No. 14395128H now JC-272371H),  
06 Aug 2008/18 Jul 2008\*

Hav Mahendra Singh Yadav (No. 15101159Y now JC-272372L), 08 Aug 2008/27 Jul 2008\*

Hav Beer Bahadur Singh (No. 14389680M now JC-272373N), 20 Aug 2008/31 Jul 2008\*

Hav Ashok Kumar Singh (No. 14383467W now JC-272374W), 22 Sep 2008/01 Aug 2008\*

Hav Pradeep Kumar (No. 14404877H now JC-272375Y),  
16 Aug 2008/01 Aug 2008\*

Hav Shambhu Kumar (No. 14392521A now JC-272376F),  
09 Sep 2008/01 Aug 2008\*

Hav Ashok Kumar Parti (No. 14497342Y now JC-272377K),  
22 Aug 2008/01 Aug 2008\*

Hav Onkar Singh (No. 14387027A now JC-272378M),  
15 Aug 2008/02 Aug 2008\*

Hav Rajesh Kumar (No. 15119130Y now JC-272379P),  
15 Aug 2008/02 Aug 2008\*

Hav Rattan Singh (No. 14401736H now JC-272380K),  
15 Sep 2008/02 Aug 2008\*



Hav Karamvir (No. 14498794N now JC-272381M), 20 Sep 2008/14 Aug 2008\*

Hav Gautama Kumara Mohanty (No. 15105885L now JC-272382P), 20 Sep 2008/22 Aug 2008\*

Hav Sree Kumar D (No. 14495458W now JC-272383X), 10 Oct 2008/01 Sep 2008\*

Hav Pawan Kumar (No. 15109184M now JC-272384A), 16 Oct 2008/15 Oct 2008\*

\*(Gtd Seniority wef)

#### ARMY SERVICE CORPS

The President is pleased to make the following promotions:—

To be Nb Subedar SKT

Hav Raghu Kumar C K (No. 6384994Y now JC-665322:), 01 May 2008

Hav Vinay Kumar (No. 6386463A now JC-66530411), 17 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 19 Feb 2008 without effect on pay & allces.

Hav Sanjiv Singh (No. 6387108P now JC-665337N), 01 May 2008

Hav Suresh Kumar Karma (No. 6387238X now JC-665306N), 10 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay & allces.

Hav Subodh Banerjee (No. 6387287A now JC-665230Y), 01 Apr 2008

Hav Bikash Chandra Roy (No. 6387307H now JC-665309F), 01 May 2008

Hav Pradeep Kumar Tripathi (No. 6387356L now JC-665313K), 01 May 2008

Hav JadHav Shantaram Ram Rao (No. 6387398X now JC-665310W), 01 May 2008

Hav Kote Santosh Baban Rao (No. 6387439W now JC-665323N), 01 May 2008

Hav K Bhau Saheb Kisan (No. 6387452A now JC-665235X), 22 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay & allces.

Hav Lavate Ekanath Shankar (No. 6387460Y now JC-665305L), 21 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay & allces.

Hav Nanda Kishore Sharma (No. 6387476K now JC-665307W), 01 May 2008

Hav Dharam Pal Singh (No. 6387539F now JC-665311Y), 01 May 2008

Hav Yaspal Singh (No. 6387644X now JC-665231), 01 Apr 2008

Hav Ramanand Mandal (No. 6387775H now JC-665233M), 09 Apr 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay & allces.

Hav Mukesh Ranjan (No. 6387841A now JC-665308Y), 01 May 2008

Hav Manohar Lall (No. 6387907L now JC-665312F), 01 May 2008

Hav Suresh Kumar (No. 6386907Y now JC-665166M), 08 Mar 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Mar 2008 without effect on pay & allces.

Hav Bholanath Mukhopadhyay (No. 6387963K now JC-665324W), 07 May 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 May 2008 without effect on pay & allces.

Hav Jitendernath Rai (No. 6386462X now JC-665329P), 02 Jun 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay & allces.

Hav Dev Raj Tripathi (No. 6387781W now JC-665326F), 01 Jun 2008

Hav Metta Syam Kumar (No. 6384242P now JC-665330K), 01 Jun 2008

Hav Subramanian P (No. 6385152A now JC-665325Y), 01 Jun 2008

Hav Vidyadhar (No. 6387648N now JC-665338W), 01 Jun 2008

Hav Atal Dukhisyam (No. 6388047P now JC-665328M), 07 Jun 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay & allces.

Hav Bijay Kumar Pradhan (No. 6388045K now JC-665327K), 02 Jun 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay & allces.

Hav Gupta Satya Narayan Sundar (No. 6387932K now JC-665398L), 01 Aug 2008

Hav Dharmendra Kumar (No. 6387513M now JC-665440Y), 03 Jul 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 01 Jun 2008 without effect on pay & allces.

Hav Chate Balaji Manik Rao (No. 6387401M now JC-665439K), 02 Jul 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 10 May 2008 without effect on pay & allces.

Hav Shaheer M (No. 6384993W now JC-665393M), 01 Jul 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Mar 2008 without effect on pay & allces.

Hav Fultariya Madhulal (No. 6387467H now JC-665400X), 01 Aug 2008

Hav Trilok Chand (No. 6385121A now JC-665405W), 01 Aug 2008

Hav Shaji FN (No. 6387604W now JC-665397H), 01 Aug 2008

Hav Tajinderjit Singh (No. 6387869A now JC-665396A), 01 Aug 2008

Hav Parma Ram (No. 6388261X now JC-665407F), 01 Aug 2008

Hav Man Phool Singh (No. 6381356P now JC-665510M), 06 Aug 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 1 / May 2008 without effect on pay & allces.

Hav Sukhbir (No. 6380873A now JC-665453W), 21 Jul 2008\*

\*Gtd seniority in the rank of Nb Sub wef 08 Mar 2008 without effect on pay & allces.

Hav Karande Sada Shiv (No. 6387936A now JC-665454Y), 01 Aug 2008

Hav Abdus Salam (No. 6387964M now JC-665455F), 01 Aug 2008

Hav Shani Lal (No. 6387690M now JC-665408K), 01 Aug 2008

Hav Johnson OY (No. 6385369K now JC-665399N), 01 Aug 2008

Hav Argde Maruti Kumbhkarn (No. 6387942N now JC-665406Y), 01 Aug 2008

Hav Akhilesh Chandra (No. 6388024N now JC-665401A), 01 Aug 2008

Hav Gangadher Swain (No. 6388298Y now JC-665404N), 01 Aug 2008

Hav Mohammad Parweg (No. 6387830N now JC-665394P), 01 Aug 2008

Hav Lekha Ram (No. 6388266W now JC-665403L), 01 Aug 2008

Hav Anil Kumar (No. 6387834K now JC-665402H), 01 Aug 2008

Hav Prabodha Kumar Nayak (No. 6388311X now JC-665461P), 01 Sep 2008

Hav Kadam Shankar Ananda (No. 6388372P now JC-665463A), 01 Sep 2008

Hav Rajeev Charan (No. 6387494M now JC-665464H), 01 Sep 2008

Hav Sanjay Kumar Singh (No. 6387125P now JC-665395X), 01 Aug 2008

Hav Multan Singh (No. 6388267Y now JC-665465L), 01 Sep 2008

Hav Prasanta Kumar Das (No. 6388319K now JC-665462X), 01 Sep 2008

#### REGIMENT OF ARTILLERY

To be Substantive Subedar (GD)

Nb Sub Mallikarjunaiah R (JC-267538X), 12 Sep 2008/ 16 Jul 2008\*

Nb Sub Santhana Krishnan S (JC-267787W), 19 Jan 2008/ 01 Jan 2008\*

Nb Sub Bhola Prasad Mishra (JC-268577H), 19 Jun 2008/ 01 Jun 2008\*

Nb Sub Ram Lal (JC-267609N), 09 Sep 2008/ 10 Jun 2008\*

Nb Sub Pratap Singh Kushwah (JC-267417W), 13 Sep 2008/ 21 Mar 2008\*

Nb Sub Prabhu Dayal (JC-267902L), 31 May 2008/ 04 May 2008\*

Nb Sub Nirakara Sahu (JC-267093W), 11 Aug 2008/ 01 Apr 2008\*

Nb Sub Chittaranjan Mandal (JC-267238W), 13 Sep 2008/ 08 May 2008\*

Nb Sub Venkatesan AB (JC-267742W), 20 Aug 2008/ 01 Jun 2008\*

Nb Sub Rajan G (JC-267267L), 20 Aug 2008/ 08 May 2008\*

Nb Sub Sugriv Singh Yadava (JC-268007M), 01 Sep 2008/ 01 Jul 2008\*

Nb Sub S Maria Joseph (JC-265940H), 20 Aug 2008/ 28 Apr 2008\*

Nb Sub Basavanneppa Modagi (JC-268639X), 09 Sep 2008/ 01 Jul 2008\*

Nb Sub Bhamar Singh Jadon (JC-267598M), 01 Sep 2008/ 21 Jul 2008\*

Nb Sub Swaran Singh (JC-268285A), 09 Aug 2008/ 01 Jul 2008\*

Nb Sub Pappu Singh (JC-267822N), 01 Jun 2008

Nb Sub Prempal Singh (JC-268895M), 28 May 2008/ 01 Mar 2008\*

Nb Sub V Palani Samy (JC-267084P), 24 Apr 2008/ 01 Feb 2008\*

Nb Sub Birander Singh Bisht (JC-269245L), 01 Nov 2008

Nb Sub Virupaxappa Nerabanchi (JC-269826H), 25 Sep 2008/ 06 Aug 2008\*

\*(Gtd Seniority wef)

A V BAGUR  
Under Secy.

## ARMY BRANCH

No. 206, dated 19th Mar 2009—The President is pleased to make the following promotions:—

## REGULAR ARMY

## ARMY ORDNANCE CORPS

To be Subedar Major Religious Teacher (Pandit)

Substantive Sub Maj Pandit T R Shankriyal (JC-131921W), 01 Nov 2008\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Sub Maj wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Substantive Sub Pandit Madan Gopal Pandey (JC-723804N), 01 Jul 2008

Substantive Sub Pandit U S Shukla (JC-724052F), 01 Dec 2008\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Sub wef 01 Sep 2008 without effect on pay and allowances)

Substantive Sub Pandit S K Tripathi (JC-724056X), 01 Dec 2008\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Sub Maj wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowance)

Substantive Sub Pandit Rakesh (JC-724054M), 01 Dec 2008\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Sub Maj wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Substantive Sub Pandit J R Sharma (JC-724053K), 04 Dec 2008\*

\*(Gtd seniority in the Rank of Sub Maj wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Substantive Sub Pandit R K Pandey (JC-724055P), 01 Jan 2009

## To be Nb Sub

Hav (AT) Vishnu Kumar N (No. 6930883L now JC-728216K), 01 Nov 2008

Hav (AT) Sunil C Kumar (No. 6931234M now JC-728217M), 01 Dec 2008

Hav (AT) P Jai Kumar (No. 6929811P now JC-728218P), 01 Oct 2008

Hav (AT) N Vinod (No. 6930893P now JC-728219X), 01 Nov 2008

Hav (AT) SK Sahoo (No. 6930932H now JC-728220M), 01 Oct 2008

Hav (Clk S Cont) TK Chattopadhyaya (No. 6922978W now JC-728221P), 01 Oct 2008

Hav (Clk S Cont) RK Rout (No. 6923025A now JC-728222X), 01 Nov 2008

Hav (Clk S Cont) RN Tiwari (No. 6922970K now JC-728223A), 01 Oct 2008

Hav (Clk S Cont) AK Ghana (No. 6923039A now JC-728224H), 01 Nov 2008

Hav (Clk S Cont) Raj Kumar (No. 6922987X now JC-728225L), 06 Nov 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk S Cont) Ratan Singh (No. 6922915N now JC-728226N), 01 Oct 2008

Hav (Clk S Cont) Surendra Pal (No. 6922919K now JC-728227W), 01 Oct 2008

Hav (Clk GD) RK Pandey (No. 6922983F now JC-728228Y), 01 Oct 2008

Hav (Clk S Cont) BC Acharya (No. 6923028H now JC-728229F), 01 Nov 2008

Hav (Clk S Cont) Promod Kumar (No. 6922926A now JC-728230W), 01 Oct 2008

Hav (Clk S Cont) Hira Lal (No. 6923048F now JC-728231Y), 01 Nov 2008

Hav (Clk S Cont) RR Kumar (No. 6919246P now JC-728232F), 01 Dec 2008

Hav (Clk S Prov) Balraj Singh (No. 6920230W now JC-728233K), 01 Dec 2008

Hav (Clk S Cont) Thilakan K V (No. 6922439A now JC-728234M), 01 Dec 2008

Hav (Clk S Cont) AJC Singha (No. 6922984K now JC-728235P), 01 Dec 2008

Hav (Clk S Cont) N Chinasavarayya (No. 6923066K now JC-728236X), 01 Dec 2008

Hav (Clk GD) RD Vashisth (No. 6923072X now JC-728237A), 01 Dec 2008

Hav (Clk GD) RN Tiwari (No. 6923107H now JC-728238H), 01 Dec 2008

Hav (Clk S Cont) SK Deb (No. 6923153X now JC-728239L), 01 Dec 2008

Hav (Clk GD) WSK Bhagat (No. 6930060L now JC-728240A), 01 Dec 2008

Hav (Clk S Cont) NS Sirohi (No. 6922770N now JC-728241H), 01 Nov 2008

Hav (Clk S Cont) LK Saikia (No. 6922923M now JC-728242L), 01 Oct 2008

Hav (Clk S Cont) RS Yadav (No. 6923057H now JC-728243N), 01 Dec 2008

Hav (Clk Sig) Gopi Chand (No. 6922313A now JC-728244W), 01 Oct 2008

Hav (Skt GS&C) Rajesh Kumar (No. 69221342P now JC-728245Y), 01 Oct 2008

Hav (Skt Ama) RNS Yadav (No. 6920417H now JC-728246F), 01 Oct 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Feb 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Skt Ama) Dharambir Singh (No. 6922340K now JC-728247K), 01 Oct 2008

Hav (Skt MT) Satish Kumar (No. 6922398F now JC-728248M), 01 Nov 2008

Hav (Skt Arm) TS Vithu (No. 6922455X now JC-728249P), 01 Nov 2008

Hav (Skt MT) Ranjeet Singh (No. 6922407X now JC-728250K), 01 Nov 2008

Hav (Skt MT) Balbir Singh (No. 6922590L now JC-728251M), 01 Dec 2008

Hav (Skt MT) SK Awasthi (No. 6922620X now JC-728252P), 01 Dec 2008

Hav (SHT) Ravinder (No. 6921189X now JC-728253X), 01 Dec 2008

Hav (SHT) SK Singh (No. 6920644H now JC-728254A), 09 Nov 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (SHT) PC Sahu (No. 6921168F now JC-728255H), 01 Nov 2008

Hav (Dvr MT) S Sahoo (No. 6922432W now JC-728256L), 01 Nov 2008

Hav (Dvr MT) Ranbir Singh (No. 6921672F now JC-728257N), 04 Oct 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Oct 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Dvr MT) Kur Lute (No. 6922633P now JC-728258W), 01 Dec 2008

Hav (Dvr SPL) NB Singh (No. 6922395N now JC-728259Y), 01 Oct 2008

Hav (SHGD) Vijaya Kumar G (No. 6922539I now JC-728260N), 01 Oct 2008

Hav (SHGD) Jag Ram (No. 6921955H now JC-728261W), 01 Dec 2008

Hav (SHGD) Doonger Singh (No. 6922522X now JC-728262Y), 01 Oct 2008

Hav (SHT) S Mugali (No. 6918685N now JC-728263F), 01 Dec 2007

Hav (Clk S Cont) Surendra Singh (No. 6922417F now JC-728264K), 01 Nov 2008

Hav (Clk S Cont) Sumer Lal (No. 6918995Y now JC-728265M), 01 Dec 2008

Hav (Clk S Cont) Anil Kumar CV (No. 6919917N now JC-728266P), 01 Dec 2008

Hav (Clk S Cont) Jose Cherian (No. 6920733F now JC-728267X), 01 Dec 2008

Hav (Clk GD) PS Dubey (No. 6920924W now JC-728268A), 03 Dec 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk S Cont) RS Prasad (No. 6921115H now JC-728269H), 01 Dec 2008

Hav (Clk S Cont) GL Meena (No. 6921134N now JC-728270X), 01 Dec 2008

Hav (Clk S Cont) AA Mallick (No. 6923151M now JC-728271A), 01 Dec 2008

Hav (Clk S Cont) Rameshwar (No. 6921361N now JC-728272H), 01 Dec 2008

Hav (Clk S Cont) GR Kumar (No. 6921466X now JC-728273L), 01 Dec 2008

Hav (Clk S Prov) VA Raju (No. 6923062N now JC-728274N), 01 Dec 2008

Hav (Clk S Cont) Sardool Singh (No. 6923095Y now JC-728275W), 01 Dec 2008

Hav (Clk S Cont) Shri Nath (No. 6923182M now JC-728278Y), 01 Jan 2009

Hav (Clk S Cont) Nek Ram (No. 6923192W now JC-728277F), 01 Jan 2009

Hav (Clk GD) HN Rai (No. 6923205H now JC-728278K), 01 Jan 2009

Hav (Clk GD) Pradeep Kumar N (No. 6923222H now JC-728279M), 01 Jan 2009

Hav (Clk GD) Hari Kumar CR (No. 6923228K now JC-728280F), 01 Jan 2009

Hav (Clk GD) Rajbir Singh (No. 6923231K now JC-728281K), 01 Jan 2009

Hav (Clk S Cont) Krishan Kumar (No. 6923266A now JC-728282M), 01 Jan 2009

Hav (Clk S Cont) Jaya Kumar G (No. 6923296X now JC-728283P), 01 Jan 2009

Hav (Clk GD) Manoharan PR (No. 6923301X now JC-728284X), 01 Jan 2009

Hav (Clk S Cont) Madhu R (No. 6923304L now JC-728285A), 01 Jan 2009

Hav (Clk GD) Ajish S (No. 6923311F now JC-728286H), 01 Jan 2009

Hav (Clk S Cont) Ramesh Babu R (No. 6923316A now JC-728287L), 01 Jan 2009

Hav (Clk S Cont) Rajesh Babu G (No. 6923317H now JC-728288N), 01 Jan 2009

Hav (Clk GD) Shambu Prasad (No. 6923327M now JC-728289W), 01 Jan 2009

Hav (Clk S Cont) Shohakaran NPR (No. 6923336N now JC-728290L), 01 Jan 2009

Hav (Clk GD) GK Chandra (No. 6923340W now JC-728291N), 01 Jan 2009

Hav (Clk GD) Tapas Gupta (No. 6923343K now JC-728292W), 01 Jan 2009

Hav (Clk GD) SR Prasad (No. 6923356F now JC-728293Y), 01 Jan 2009

Hav (Clk GD) P Obulesu (No. 6923385W now JC-728294F), 01 Jan 2009

Hav (Clk S Cont) Shashi Bhushan (No. 6923397L now JC-728295K), 01 Jan 2009

Hav (Clk GD) Kishan Kumar (No. 6923453Y now JC-728296M), 01 Jan 2009

Hav (Skt WEP) Ram Phal (No. 6922256K now JC-728297P), 01 Dec 2008

Hav (Skt MT) MB Vittal (No. 6922460H now JC-728298X), 11 Dec 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Dec 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Skt MT) Manvir Singh (No. 6922554A now JC-728299A), 01 Dec 2008

Hav (Skt MT) Suresh Kumar (No. 6922564K now JC-728300K), 01 Dec 2008

Hav (Skt MT) Karamvir Singh (No. 6922592W now JC-728301M), 01 Dec 2008

Hav (Skt MT) Kulwinder Singh (No. 6922608W now JC-728302P), 01 Dec 2008

Hav (Skt MT) Jawar Singh (No. 6922565M now JC-728303X), 01 Dec 2008

Hav (Skt MT) BV Srinivas (No. 6922618A now JC-728304A), 01 Jan 2009

Hav (Skt MT) RS Shankaran (No. 6922619H now JC-728305H), 01 Jan 2009

Hav (Skt Sig) Radhakrishnan G (No. 6923201M now JC-728306L), 01 Jan 2009

Hav (Skt Sig) Ishwar Singh (No. 6923214K now JC-728307N), 01 Jan 2009

Hav (Skt Sig) Krishan Kumar (No. 6923223L now JC-728308W), 01 Jan 2009

Hav (Skt GS&C) GR Solanki (No. 6923226Y now JC-728309Y), 01 Jan 2009

Hav (Skt Sig) Rohtas (No. 6923235A now JC-728310N), 01 Jan 2009

Hav (Skt Sig) RSN Yadav (No. 6923236H now JC-728311W), 01 Jan 2009

Hav (Skt Sig) VRMP Ampalam (No. 6923239W now JC-728312Y), 07 Jan 2009\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (Skt Engr) Vishwanatha M (No. 6923248X now JC-728313F), 01 Jan, 2009

Hav (Skt Sig) Jagdish Chand (No. 6923250P now JC-728314K), 01 Jan 2009

Hav (Skt Sig) H Dash (No. 6923259K now JC-728315M), 06 Jan 2009\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (SHT) Bijender Singh (No. 6921195L now JC-728316P), 01 Jan 2009

Hav (SHGD) Bharat Singh (No. 6922223Y now JC-728317X), 01 Jan 2009

Hav (Clk S Cont) RS Tripathy (No. 6921023W now JC-728318A), 19 Dec 2008\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Apr 2008 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk S Cont) Gopa Kumar S (No. 6923314P now JC-728319H), 12 Jan 2009\*

\*(Granted Seniority in the Rank of Nb Sub wef 01 Jan 2009 without effect on pay and allowances)

Hav (Clk GD) Karan Singh (No. 6923455K now JC-728320X), 01 Jan 2009

Hav (Skt Sig) SC Saini (No. 6923256W now JC-728321A), 01 Jan 2009

Hav (SHGD) AR Krishnan (No. 6919595Y now JC-728322H), 01 Oct 2008

#### CORPS OF ELECTRONICS AND MECHANICAL ENGR BRANCH

The President is pleased to make the following Appointments/Promotions

Hav to be Nb Sub AVF (AEN)

Ramesh Kumar (No. 14563640X now JC-762986H), 22 Sep 2008/01 Aug 2008\*

Hav to be Nb Sub AVF (AF)

Sita Ram (No. 14562660Y now JC-762985A), 20 Sep 2008/01 Sep 2008\*

## Hav. to be Nb Sub Carp JNR

Radhey Shyam Singh (No. 14555884W now JC-762924H), 23 Aug 2008/01 Oct 2006\*

Ram Kumar Singh (No. 14546956N now JC-762923A), 25 Aug 2008/01 Oct 2006\*

Udayabir Singh (No. 14555763P now JC-762925L), 25 Aug 2008/01 Oct 2006\*

## Hav. to be Nb Sub Dvr (MT)

Bhanwar Singh (No. 14570073H now JC-762939L), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Dilip Kumar Patel (No. 14575954L now JC-762937A), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Haushila Prasad Pandey (No. 14575793N now JC-762936X), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Md Abdul Hoque (No. 14549892Y now JC-762938H), 02 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Nazir Khan (No. 14575626X now JC-762935P), 02 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Nirmal Singh (No. 14576741K now JC-762941H), 04 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Rajendran C (No. 14575530P now JC-762933K), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Ram Bisun Yadav (No. 8031059Y now JC-762945Y), 06 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Sabir Ali (No. 8030974L now JC-762934M), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Sarvesh Kumar (No. 8030493Y now JC-762932F), 30 Aug 2008/01 Aug 2008\*

Sher Singh Yadav (No. 14570127Y now JC-762771K), 01 Aug 2008/01 Aug 2008\*

Sunil Kumar (No. 14576057F now JC-762942L), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Ujjal Kumar Biswas (No. 14576520X now JC-762943N), 08 Sep 2008/01 Sep 2008\*

## Hav. to be Nb Sub REC Mech

Ram Pal Sharma (No. 14556333X now JC-762829W), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

## Hav. to be Nb Sub Tech (AVF)

Babulal (No. 14607106H now JC-762987L), 11 Sep 2008/04 May 2008\*

## Hav. to be Nb Sub Tech (IPF)

Jairam Singh (No. 14599764X now JC-762988N), 23 Sep 2008/01 Sep 2008\*

## Hav. to be Nb Sub Tech A-Veh

Bahadur Singh (No. 14618040X now JC-762859N), 08 Sep 2008/01 Aug 2008\*

Rajeev K Menon (No. 14620569W now JC-762855X), 22 Sep 2008/06 Jul 2008\*

Sanjay Kumar (No. 14618456P now JC-762861L), 01 Aug 2008/01 Aug 2008\*

## Hav. to be Nb Sub Tech Cmptr

A Dhandapani (No. 14616138M now JC-762917M), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

A Prem Swaroop (No. 14616414K now JC-762918P), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Deepu Singh (No. 14615392K now JC-762916K), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

G K Rajendra Prasad (No. 14616805P now JC-762919X), 03 Sep 2008/01 Sep 2008\*

G K Sadanand Kesarkar (No. 14615075H now JC-762915F), 26 Aug 2008/01 Aug 2008\*

## Hav. to be Nb Sub Tech Elect

Prasad Kumar (No. 14602359N now JC-762835K), 19 Aug 2008/01 Aug 2008\*

## Hav. to be Nb Sub Tech Line

Yevale Kalias Murlidhar (No. 14618196P now JC-762920M), 26 Aug 2008/06 Jul 2008\*

## Hav. to be Nb Sub Tech Radio

Rajeev K Ranjan (No. 14618534F now JC-762845N), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Suresh Kumar (No. 14617932W now JC-763084A), 08 Sep 2008/01 May 2008\*

## Hav. to be Nb Sub VM (AFV)

Gorak Singh (No. 14564045A now JC-762930W), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Kameshwar Gupta (No. 14562959L now JC-762092M), 06 Sep 2008/01 Aug 2008\*

MD Jamaluddin (No. 14563997N now JC-762929F), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

## Hav. to be Nb Sub VM (MV)

Krishna Dasan P (No. 14547856P now JC-762926N), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Raol Jaswant Singh (No. 14548202X now JC-762927W), 03 Sep 2008/01 Sep 2008\*

## Hav. to be Nb Sub (Carp) JNR

Mahender Singh (No. 14557949X now JC-762809H), 04 Aug 2008/01 Aug 2008\*

## Hav to be Nb Sub Clk (GD)

Anil Kumar (No. 14592437K now JC-762889L), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Arun Kumar (No. 14572209A now JC-762883K), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Babban Singh Yadav (No. 14572913W now JC-762884M), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Babu Dayal (No. 14604006M now JC-762893N), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Bal Bir Singh (No. 14566240W now JC-762804K), 01 Aug 2008/01 Aug 2008\*

Ganesh Datt Joshi (No. 14592949W now JC-762890A), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Hari Shanker Pandey (No. 14591986X now JC-762895Y), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Hari Singh (No. 14572191P now JC-762803F), 01 Aug 2008/01 Aug 2008\*

Kalam Singh Kathait (No. 14587999X now JC-762888H), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Madan Lal (No. 14585867L now JC-762887A), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Mithlesh Prasad (No. 14572204F now JC-762882F), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Nareish Kumar (No. 14572198Y now JC-762881Y), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Nemi Chand Gautam (No. 14600887Y now JC-762891H), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Ram Bilas Sharma (No. 14584446W now JC-762886X), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Sankar Kumar Roy (No. 14587802W now JC-762905X), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Sardar Singh (No. 14571583W now JC-762802Y), 01 Aug 2008/01 Aug 2008\*

Satheesan N (No. 14569775P now JC-762880W), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Satya Prakash (No. 14600965L now JC-762892L), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Shambhu Nath Saini (No. 14567988K now JC-762879F), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Shish Pal (No. 14571523F now JC-762894W), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Sushil Kumar Solanki (No. 14570020K now JC-762793H), 01 Aug 2008/01 Aug 2008\*

Swapan Kumar Chakraborti (No. 14573420F now JC-762885P), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

## Hav to be Nb Sub Dvr (MT)

Ashok Kumar (No. 14569509W now JC-762768K), 30 Jul 2008/01 Jul 2008\*

Kulbir Singh (No. 14573637L now JC-762782W), 01 Aug 2008/01 Aug 2008\*

Manoj Kumar Singh (No. 14574702M now JC-762786M), 01 Aug 2008/01 Aug 2008\*

Pratap Singh (No. 14570392P now JC-762776H), 01 Aug 2008/01 Aug 2008\*

Virendra Kumar (No. 14573401W now JC-762779W), 01 Aug 2008/01 Aug 2008\*

## Hav to be Nb Sub EE (Mech)

Shri Ram Gurjar (No. 14558199W now JC-762824X), 23 Aug 2008/01 Aug 2008\*

## Hav to be Nb Sub Elect (MV)

Desh Bandhu (No. 14548768L now JC-762820F), 08 Aug 2008/01 Jul 2008\*

## Hav to be Nb Sub M (Smith)

Abdesh Chandra (No. 14551300H now JC-762752Y), 04 Jul 2008/01 Jun 2008\*

Kamlesh Kumar Yadav (No. 14551308P now JC-762754K), 07 Aug 2008/01 Aug 2008\*

## Hav to be Nb Sub REC (Mech)

Pawan Kumar Singh (No. 14555820L now JC-762827L), 19 Aug 2008/01 Jun 2008\*

Purna Kanta Phukon (No. 14555440M now JC-762698W), 01 Aug 2008/01 Aug 2008\*

## Hav to be Nb Sub (SKT)

Basanta Kumar Swain (No. 14549761N now JC-762813L), 01 Aug 2008/01 Aug 2008\*

Bhajan Singh (No. 14550704Y now JC-762876N), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Binodebehari Das (No. 14549785X now JC-762871P), 19 Aug 2008/01 Aug 2008\*

Birender Singh (No. 14549771X now JC-762814N), 01 Aug 2008/01 Aug 2008\*

Hem Raj (No. 14550223M now JC-762875L), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Ishwar Singh (No. 14550878Y now JC-762877W), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Mohinder Singh (No. 14549806H now JC-762873A), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Rajendra Bahadur Singh (No. 14548994H now JC-762811A), 01 Aug 2008/01 Aug 2008\*

## Hav to be Nb Sub SKT

Sanjit Singha Roy (No. 14549799X now JC-762872X), 19 Aug 2008/01 Aug 2008\*

Sheo Jee Ram (No. 14550143P now JC-762874H), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

## Hav to be Nb Sub TCM (L)

Gulab Singh (No. 14566638L now JC-762816Y), 14 Aug 2008/01 Jul 2008\*

## Hav to be Nb Sub TCM (RO)

Mahenderpal Singh Jaswal (No. 14565490I. now JC-762828N), 01 Sep 2008/01 Sep 2008\*

Wilson George (No. 14564518N now JC-762821K), 08 Aug 2008/01 Jul 2008\*

Yudhvir Singh (No. 14565492W now JC-762826H), 03 Sep 2008/01 Aug 2008\*

## Hav to be Nb Sub (UPHOL)

Balbir Singh (No. 3383065I. now JC-762757X), 01 Aug 2008/01 Aug 2008\*

## Hav to be Nb Sub VM (AFV)

Ramesh (No. 14562998K now JC-762764N), 01 Aug 2008/01 Aug 2008\*

## Hav to be Nb Sub VM (MV)

Amarjeet Singh (No. 14547727P now JC-762817F), 16 Aug 2008/01 Jul 2008\*

Daya Nand (No. 14547808P now JC-762819M), 16 Aug 2008/01 Jul 2008\*

Manoranjan Panna (No. 14547810M now JC-762822M), 16 Aug 2008/01 Aug 2008\*

Srikant Chaubey (No. 14547806K now JC-762818K), 15 Aug 2008/01 Jul 2008\*

## Hav to be Nb Sub (Welder)

Lal Chand Ram (No. 14553606K now JC-762756P), 02 Aug 2008/01 Aug 2008\*

\*Gtd ante dated seniority.

N K KASHMIRA  
Under Secy

## AIR BRANCH

No. 207, dated 19th March 2009.- The President is pleased to make the following substantive promotion

## INDIAN AIR FORCE

## ADM BRANCH

To be Substantive Air Vice Marshal

D Mukundan (13508), ADM, 01 Sep 2008

## FLYING BRANCH

To be Substantive Air CMDE (Flying Branch)

Sl No., Rank, Name, Number, Br & Date

Air CMDE (Actg) K K Gohil (14688), F(P), 07 Jul 2008

Air CMDE (Actg) K Dhami (15556), F(P), 07 Jul 2008

[His name will appear below Air CMDE KK Gohil (14688) F(P) in the combined gradation list]

Air CMDE (Actg) NK Tandon (16030), F(P), 07 Jul 2008

Air CMDE (Actg) A Lal (16031), F(P), 07 Jul 2008

Air CMDE (Actg) S Chhabra (16032), F(P), 15 Sep 2008

Air CMDE (Actg) AS Bahal (16208), F(P), 15 Sep 2008

Air CMDE (Actg) DS Rawat (16242), F(P), 15 Sep 2008

## AE BRANCH

To be Substantive GP Capt (AE Branch)

Rank, Name, Number BR and Date

GP Capt (Actg) S Banerjee (16533), AE (L), 09 Apr 2008/01 Aug 2006(NS)

(His name will appear above GP Capt S Banerji (17239) AE(L) in the Combined Gradation List)

## EDN BRANCH

To be Substantive Wg Cdr (EDN Branch)

Rank, Name, Number BR and Date of Subs

WC R Murali (18339), EDN, 18 Oct 2004

[His Name will appear between Wg Cdr LN Sharma (18338) EDN and Wg Cdr DPS Rawat (18340) EDN in the Combined Gradation List]

## LGS BRANCH

To be Substantive Wg Cdr (LGS Branch)

Rank, Name, Number BR and Date of Subs Wg Cdr

WC A Bhattacharya (Retd) (17775), LGS 15 Dec 2004

[His Name will appear Between Wg Cdr KS Reddy (17774) LGS and WG CDR PV Hari Shankar (17782) LGS in the Combined Gradation list]

WC AK Rai (17786), LGS, 21 Dec 2004/15 Dec 2004(NS)

WCA Pande (17789), LGS, 21 Dec 2004/15 Dec 2004 (NS)

[Their Names will appear Between Wg Cdr NS Bisht (17784) LGS and Wg Cdr B Paul (17791) LGS in the Combined Gradation list]

WC K Biswas (18178), LGS, 16 Dec 2004/15 Dec 2004(NS)

[His Name will appear below VP Sharma (18176) LGS in the Combined Gradation List]

KV SHANKAR

Jt Director of Pers. (Officers) 2(B)



## ARMY BRANCH

No. 208, dated 19th March 2009.—The President is pleased to permit the undermentioned officers relinquish his/her Short Service Commission in the Army Medical Corps wef 28 Dec 2007 and to grant him/her permanent commission in the Army Medical Corps wef the same date under AI 74/76 as amended:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

To be Capt

Sumit Bhasker (MS-15030P), (MR-08742P), AMC, 12 Apr 2005

(MoD Notification published in Gazette of India dated 02 Sep 2006 in so far as it relates to the officer is hereby cancelled).

Ravinder Kumar (MS-15039K), (MR-08743X), AMC, 12 Apr 2005 with seniority for pay and promotion from 12 Oct 2004 this includes 06 months for hospital appointment which will not count for gratuity.

(MoD Notification published in Gazette of India dated 12 Jan 2008 in so far as it relates to the Officer is hereby cancelled).

Wankhede Tanaji Sitaram (MS-15061P), (MR-08744A), AMC, 19 Apr 2005

(MoD Notification published in Gazette of India dated 02 Sep 2006 in so far as it relates to the Officer is hereby cancelled).

Sarvesh Kumar Srivastav (MS-14839W), (MR-08730A), AMC, 27 Jul 2004

(MoD Notification published in Gazette of India dated 10 Dec 2005 in so far as it relates to the Officer is hereby cancelled).

BS RATHORE  
Maj Gen  
Addl. DGAFMS (HR)

## (FINANCE DIVISION)

No. 209, dated 19th March 2009.—The President retires Shri Govind Prasad, Section Officer Ministry of Defence (Finance) from Government Service with effect from 28 Feb 2009 (AN) on his attaining the age of superannuation).

The President retires Smt. Nirmal Anand, Private Secretary Ministry of Defence (Finance) from Government Service

with effect from 28 Feb 2009 (AN) on her attaining the age of superannuation.

RC MEENA  
Asstt. Financial Adviser (E)

## ARMY BRANCH

No. 210, dated 19th March 2009.—The President is pleased to permit the following officer to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform:—

## TERRITORIAL ARMY

Retirement

Lt. Col AM Deoghare (TA-42034), Inf, 31 Dec 2008 (AN)

JAI RAJ  
Under Secy

## ARMY BRANCH

## CORRIGENDUM

No. 211, dated 20th March 2009.—The President is pleased to cancel the retirement of IC-30743 Col Raj Kumar Singh, Sigs from Army Service on attaining the age of superannuation with effect from 30 Nov 2007 (AN). therefore, the following amendment in Gazette of India, Ministry of Defence Notification which has been published on 13 Dec 2008 under the heading "Regular Army, Permanent Commission", is hereby made:—

For : IC-30743 Col Raj Kumar Singh, Sigs

Read : —Blank—

JAYANTA CHAKRABARTY  
Dy. Director MS-7A  
for Military Secy

No. 212, dated 20th March 2009.—The President is pleased to make the following promotions:—

## REGULAR ARMY

## PERMANENT COMMISSION

(To be Capt wef 11 Dec 1998)

## CORRIGENDAM

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published in the Gazette of India dated 10 Apr 1999 under the heading "Permanent Commission" in the Regular Army is hereby amended as under :—

For : Rohit Sharma (IC-52456), EME

Read : Rahul Sharma (IC-52456), EME

## Lt to be Capt

## PERMANENT COMMISSION

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published on 08 Apr 2006 under the heading "Regular Army, Permanent Commission" and sub heading "Lt to be Capt" (Special List) the following amendment is made:—

Against : SL-04744 Anupam Gupta, AEE B R/ASW  
Engrs

For : 05 Jul 2003 with seniority from 14 Jan 2000  
without effect on pay and allowances.

Read : 05 Jul 2003 with seniority from 14 Jan 2000  
with pay and allowances.

(To be Lt wef 11 Dec 1995)

In the Gazette of India, Ministry of Defence Notification published in the Gazette of India dated 13 Apr 1996 under the heading "Permanent Commission" in the Regular Army is hereby amended as under:—

For : Rohit Sharma (IC-52456), EME

Read : Rahul Sharma (IC-52456), EME

JASWANT SINGH  
Jt Dir MS-8C